

प्रकाशितवाक्य, अध्याय चार भाग 3



धन्यवाद भाई नेविल। प्रभु आप को भी आशीष दे। और बाईबल की कक्षा, सुप्रभात। और आज सुबह हर एक जन कैसा महसूस कर रहा है? अच्छा, मैं आशा करता हूँ। आमीन। हम एक प्रकार से... यह एक कम समय में सूचित किया कि हमें यह कहना था कि हम आज सुबह यहां होंगे, क्योंकि मेरे पास नहीं... मेरा यात्रा का कार्यक्रम अभी तक नहीं बना था मैं कब निकल रहा हूँ। और यह अब ऐसा है कि यह अगले छह महीनों के लिए बनाया है, तो ठीक है, फिर, मैंने सोचा कि हमारे लिए बेहतर होगा आज सुबह हम सभा को करें, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे फिर से वापस आने में कुछ समय लगेगा; हो सकता है इस शरद ऋतु को।

2 और मैं... अब हम इस आने वाले सप्ताह में ब्यूमोंट, टेक्सास की ओर रवाना होंगे, जहां हम अगले हफ्ते वहां से आरंभ करेंगे और जारी रखते हुए लगभग वहां आठ या दस दिन की सभाओं को लेंगे उन—उन स्वतंत्र और भिन्न-भिन्न कलीसियाओ के सहयोग से। यह असल में वहां ब्यूमोंट, टेक्सास की जीसस नेम कलीसियाओ के द्वारा प्रायोजित किया गया है, जहां कुछ समय पहले हमारी महान सभाये हुई थी, इस तस्वीर को लिए जाने के ठीक बाद। और वे... मैं समझता हूँ कि वे वहां पर एक गाडी के कोच को चलाते हैं साथ में, मैं सोचता हूँ, सत्ताईस कोच... या एक ट्रेन जिस पर सत्ताईस डिब्बे होते हैं, वहां ब्यूमोंट की सभाओ में आने के लिए। वहाँ पर शहर के मेयर ने परेड की थी और सड़कों में से होते हुए गए और वे सारे। ब्यूमोंट में एक बहुत ही अच्छा समय था, और हम इस अगले सप्ताह वापस लौट रहे हैं। और फिर सैन एंटोनियो की जाने अपेक्षा कर रहा था, लेकिन हमारे पास इसके लिए पर्याप्त समय नहीं होगा, वापसी पर।

3 और हम वहां से फीनिक्स, लॉस एंजिल्स जायेंगे वहां से लॉन्ग बीच के लिए। और फिर हम वापस आएं, प्रभु ने चाहा तो, पूर्वी तट की ओर वापस जायेंगे, वर्जीनिया और दक्षिण कैरोलिना की ओर वापस जायेंगे। उसके बाद वापस ब्लूमिंगटन, इलिनोइस में आ जायेंगे। और वहाँ से लेन टेक हाई स्कूल में, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, क्रिश्चियन बिसनेसमेन। और उसके बाद मैं वहां से उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया जाने के लिए, अलास्का की ओर

जाऊंगा, और जून तक वहां रहूंगा। और, तब, हम एक अच्छा समय बिताने की आशा कर रहे हैं।

4 प्रार्थना कर रहे हैं यदि जांच होती है... जो मैं कुछ समय से आयकर के निगरानी में रहा हूँ, यहाँ की कलीसिया के विषय में, उस समय तक समाप्त हो जाएगा। और फिर हम... मैं विदेश जा पाऊंगा, यदि ठीक यह जून में होता है, तो यह बस अफ्रीका के लिए सही हो जायेगा; अफ्रीका में—में जून, जुलाई और अगस्त के लिए। इसलिए मुझे आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है।

5 और हम प्रभु के आगमन के लिए देख रहे हैं। ये जो सारी बातें हैं “यदि यह प्रभु की इच्छा होगी तो,” देखो। हम नहीं जानते, वो... ये वास्तव में अगुवाही नहीं हैं, हमें बस सारे निमंत्रण एक साथ मिले हैं और इस पर प्रार्थना की है, प्रभु से पूछा, “हमें किस ओर जाना चाहिए?” और—और फिर ऐसा दिखाई दिया, मैं यह सब अपने आप पर नहीं छोड़ता, मैं दूसरों को इसके बारे में सोचने देता हूँ, इस पर प्रार्थना करता हूँ। और फिर ऐसा दिखाई दिया कि हम सभी इस समय पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम की ओर जाने की अगुवाही महसूस कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास चारों ओर से निमंत्रण थे, सो हमने अभी शुरुआत की है। और पहला स्थान मेरे हृदय पर आया या तो ब्यूमोंट या सैन एंटोनियो। इसलिए हमने इसे देखा, और हमारे पास दोनों स्थानों पर से निमंत्रण आये थे। और यह...

6 हमने ब्यूमोंट में एक को फोन किया। और ऐसा हुआ कि उनके सहयोग में बयालीस कलीसियाये थी, युनाइटेड पेंटीकोस्टल और इत्यादि की, हमने सोचा कि एक बड़े सभागार के साथ उन्हें सभा को देना बेहतर रहेगा दोनों स्थान पर पाँच और पाँच सभाये करने के बजाय लगभग दस दिन करेंगे। मैं सोचता हूँ कि यदि आप इसे इस तरह एक ही स्थान पर करते हैं तो यह बेहतर होगा। फिर, बहुत से—से ब्यूमोंट में आसपास के जरूरतमंद लोग हैं और वहां नीचे टेक्सास का वो तेल वाला भाग है, और सो हम ब्यूमोंट में एक अच्छे समय की अपेक्षा कर रहे हैं।

7 और, अब, हम कभी भी वहां जाने की कोशिश नहीं करते हैं जहां बड़े केंद्र और बड़े-बड़े स्थान हैं। लेकिन हम जाने की कोशिश करते हैं जैसे प्रभु हमारी जाने के लिए अगुवाही करेगा, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु अगुवाही करता है। अब, किसी भी

समय, वह हमें *मकिदूनियाई* की पुकार दे सकता था और हम किसी भी समय कार्य क्षेत्र को छोड़ देंगे क्योंकि जो कुछ भी करने के लिए वह हमें बुलाता है, कहीं पर भी।

8 और हम निश्चित रूप से आप अच्छे लोगों के साथ परमेश्वर के वचन के इर्द-गिर्द संगति के इस समय का आनंद उठाया हैं। मुझे भरोसा है कि आप अब विश्वासयोग्य होंगे और कलीसिया आकर और बाईबल की शिक्षाओं का पालन करेंगी यहाँ हमारे साहसी भाई के जरिये से, भाई नेविल, जिसकी मैं प्रभु परमेश्वर के सेवक के रूप में अत्याधिक सिफारिश करता हूँ, और परमेश्वर के साथ और गहराई और गहराई में बढ़ते जा रहे हैं, और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ।

9 और छोटी कलीसिया, मैं आपको प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने की सलाह देता हूँ, अपने आप को स्थिर रखें और हर समय कलवरी की ओर देखते रहे, अपने हृदय और प्राण से कड़वाहट की सारी जड़ों को निकाल दें, जिससे कि परमेश्वर आपको किसी भी समय उपयोग कर सकें। यदि आपको कभी भी कुछ करने का महसूस करते हैं, या कोई प्रकाशन या कुछ तो आपके पास असाधारण रूप से आता है, कुछ तो चेतावनी के रूप में या कुछ तो, सावधान रहे! शैतान उतना ही धूर्त और चालाक है जितना वो हो सकता है। समझे? इसे परमेश्वर के वचन के साथ मिलाये और अपने पास्टर से परामर्श ले। देखना?

10 और आप कलीसिया में दानों और इत्यादि को धीरे-धीरे बढ़ते हुए, और इन दानों के संचालित होते हुए देखते हैं। इससे पहले कि आप इसे संचालित होने दे और चीजों को होने दें, पहले... इसे अपने हृदय पर प्रेरणा को महसूस करे... अब, शत्रु बहुत ही चालाक है। देखना? और यह बस वही है जो हर समय कलीसियाओ को टुकड़े-टुकड़े कर देता है, यह एक सच्चा दान है जिसे गलत तरीके से संचालित किया जाता है। देखा? कुछ तो परमेश्वर करने की कोशिश करता है, और इसे गलत तरीके से संचालित किया गया है, यह—यह बस साधारण... ना ही केवल आपको चोट पहुंचाता है, लेकिन यह सारी कलीसिया के टुकड़े कर देगा। समझे? इसका परामर्श लें, इसे बाईबल में से होते हुए लें, फिर इसे परखे और देखें कि क्या यह परमेश्वर है या नहीं। बस इसे परखते रहें और जांचते रहें, देखें कि क्या यह

बिल्कुल सही है और पंक्ति में हो और वचन के साथ सही बैठता है। देखो, उसके बाद आप सही होते हो।

11 जब तक वचन ने कहा है कि यह यहाँ होगा, ये इस तरह से कार्य करेगा, ठीक इसके साथ बने रहे। इससे कभी भी बाहर ना जाये, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी करें, वह कितना भी वास्तविक क्यों न दिखता हो। यदि यह उत्पत्ति से लेकर प्रकाशितवाक्य तक वचनों में प्रतिबिंबित नहीं होता है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दें। किसी भी मौके को न लें, हम अंत के दिनों में हैं जब शैतान बस भरमाने का काम कर रहा है जितना वो भरमा सकता है।

12 यदि मैं बॉस के स्थान को लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे क्षमा करना; मैं कोई बॉस नहीं हूँ। लेकिन मैं आपके लिए उस तरह से महसूस करता हूँ, जैसा कि पौलुस ने वहाँ एक बार अपनी सभा के लोगो के विषय में कहा था, “तुम मेरे मुकुट में के तारे हो।” जब मैं उस पार के देश को पार करके, उस ओर वहाँ पर जाता हूँ, और उस महिमामय अवस्था में आप से मिलूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मुकुट में तारों की तरह चमकते हुए वहाँ पर खड़े रहे। समझे? और मैं—मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ रहे, मैं वहाँ पर होना चाहता हूँ।

13 और मैं अपने दर्शन में याद करता हूँ जब मैंने प्रभु की उपस्थिति को देखा या उस महिमामय देश में तो वहाँ उस ओर उसके लोगों को देखा था, मैंने चारों ओर देखा, मैंने उनसे कहा... और उन्होंने मुझे बताया कि वह पहले मेरा न्याय उस सुसमाचार के द्वारा करेंगे जिसका मैं प्रचार करता हूँ। मैंने कहा, “बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे पौलुस ने इसे प्रचार किया!”

14 और लाखों लोग चिल्ला उठे, “हम उस पर विश्राम कर रहे हैं!” समझे? देखो। अब, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। और हम किसी दिन वहाँ पर मिलने जा रहे हैं।

15 और परमेश्वर ने कभी भी भाई नेविल और मुझे बॉस बनने के लिए नहीं भेजा, बिल्कुल नहीं। हम तो बस आपके भाई हैं, आप देखो, सुसमाचार में उपदेश देने वाले हैं। तो आओ हम सब मिलकर काम करें।

16 और कभी-कभी यदि—यदि किसी काम को किया जाना है या—या इसके बारे में कुछ कहा जाना है, ताड़ना देना या ऐसा ही कुछ तो उसी क्रम पर, और वो व्यक्ति जिसे वह दान मिला है, वह इसे तुकराता है, तो

बस याद रखें... इसे इंकार करता है, याद रखें, तो दान सही नहीं था। यह पहले स्थान में परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर का आत्मा हमेशा सुधार के लिए तैयार रहता है, मधुर और नम्र, इच्छा को रखता है। देखना। यदि ये खड़ा हो जाता है और कहता है, "मैं इसे किसी भी तरह से करूँगा," आप जानते हैं किस तरह से कभी-कभी... बस याद रखें, अभिमानी आत्माएं परमेश्वर की नहीं होती हैं। देखा? तो एक विकल्प को क्यों लें, जब कि हर एक चीज, सारी धरती, परमेश्वर की महिमा से भरी है, आप देखते हैं, परमेश्वर की सच्ची सामर्थ्य को। हम एक विकल्प को क्यों लें? हमें अब बहुत देर हो चुकी है; लेकिन, याद रखें, बाइबल ने कहा है कि वह इस तरह आएगा... बस इतना धूर्त जितना वो हो सकता है, और हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। समझे?

17 और, अब, कभी-कभी हम सोचते हैं कि हम चुने हुए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि हम हैं, लेकिन आइए हम बस ठीक बाइबल के साथ बने रहें। और फिर यदि हर एक चीज वचन के साथ ठीक बैठती है, और वचन के क्रम में है, परमेश्वर की महिमा और कलीसिया के आदर और इत्यादि को लाते हुए, तब हम जान जाते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से है क्योंकि बाइबल इसका समर्थन करती है। लेकिन अब हमारे मत-सिद्धांत इसका समर्थन नहीं करेंगे, यह कुछ भला नहीं करेगा, यह परास्त हो जाता है।

18 तो फिर यदि कोई तो बात हमें प्रभावित करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता यह कितनी भी वास्तविक क्यों न दिखाई देती हो, यदि यह सही नहीं है, वचन अनुसार नहीं है, इससे तुरंत ही हट जाए; क्योंकि वहाँ—वहाँ पर एक वास्तविक रुका हुआ है, आप देखो।

19 तो, अब प्रार्थना करे। और हमेशा, और जो कुछ भी आप करते हो, मेरे लिए प्रार्थना करें। मेरे लिए प्रार्थना करे क्योंकि अब मेरी राय में हम अंतिम बार कार्य क्षेत्रों पर प्रहार करने जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं...

20 और, याद रखें, महान बातें जगह ले रही हैं, यह संसार के बीच अज्ञात बातें हैं। यीशु आया, जीया, मरा, और बलिदान किया गया, महिमा में वापस चला गया, और लाखों लोगों ने इसके बारे में कुछ भी नहीं जाना। समझे? यह तारीफ करने की तरह से नहीं है, बड़ा, विशाल; ये "वो अपनों के लिए आया," है, देखो। और यह... "जिसके कान हों, वह सुन ले कि आत्मा

कलीसियाओं से क्या कहता है।" ना ही बाहरी के लिए, "कलीसिया के लिए।" यह कलीसिया है जो इसके हिलावट को लेती है।

21 मैं उससे अलग सोचता था जब तक कि एक दिन उसने मुझसे बात नहीं की; क्या मुझे वचन में वापस जाना था और इसके बारे में सोचना था कि सारे भविष्यवक्ताओं ने कैसे बताया था कि जब यूहन्ना आएगा, कहेगा, "ऊँचे स्थानों को नीचा किया जाएगा, और निचले स्थानों को ऊँचा किया जाएगा।" और परमेश्वर की सामर्थ कैसे काम करेगी! और वो—वो... "सारे पहाड़ छोटे मेढ़ों की तरह झूम उठेंगे, और पत्ते ताली बजाएंगे।" तो ठीक है, ऐसा लग रहा था कि सच में कुछ तो बात जगह लेने जा रही है। समझे? और जब ऐसा हुआ, तो क्या हुआ? एक अनुभवी व्यक्ति जंगल में से बाहर आया, शायद उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और भेड़ की खाल का एक पुराना टुकड़ा उसके चारों ओर लिपटा हुआ था। जंगल में वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। जब वो नौ वर्ष का था, तब से लेकर वह वहीं पर था, और उस वक्त वो तीस वर्ष का था। जंगल से बाहर निकलकर आता है, पैर को पटकते हुए, मन फिराव का प्रचार करता है, संभव है अपने घुटनों तक कीचड़ में खड़ा हुआ था, यरदन के किनारे पर। और यही है जब ऊँचे स्थानों को नीचा किया गया था और निचले स्थानों को ऊँचा किया गया। समझे? ये...

22 आपके पास आत्मिक समझ होनी चाहिए। याद रखें, परमेश्वर ने ऐसा कभी भी नहीं किया और ना कभी करेगा, कि चमक-दमक में वास करे। वो इसके विरुद्ध हैं। वह कभी नहीं... वो महान संदेश कभी भी "बड़ा फलां-और-फलां बनाओ और फलां बड़ा बनाओ..." ऐसा नहीं होगा यह उस तरह से नहीं करता है। उसके सेवक उस तरह से काम नहीं करते हैं। उसका आकर्षण और महिमा ऊपर से है।

23 कल, या दो दिन पहले, अपने अच्छे मित्र, भाई बैंक्स वुड के साथ केंटकी में, केंटकी की ओर जा रहा था, वहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी खड़ी थी, और उसने कहा, "भाई, हमारे लिए बेहतर होगा धीमे हो जाये," कहा, "वो कठोर है।"

24 और मैंने कहा, "हाँ यह सही है।" मैंने कहा, "जब कोई राष्ट्र ऐसे स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ लाखों लोग नौकरी करते हैं और उन्हें नौकरी के लिए महिलाओं को लेना पड़ता है, उन्हें पुलिसकर्मी बनाते हैं और उन्हें वहाँ भेज

देते हैं, और कार की ड्राईवर बनाते हैं और इसी तरह की चीजें, यह हमारे राष्ट्र के बड़े धब्बों में से एक है।” महिला को बस लगभग वहां उतना काम मिला है जैसे कि एक—जैसे कि एक खरगोश तेल की पतीली में चला गया हो। देखा? यह बिल्कुल—यह बिल्कुल—बिल्कुल उसका स्थान नहीं है। और मैंने कहा, “यह हमेशा ही मुझे बहुत ही परेशान करता था, लेकिन अब मुझे याद आने लगा है, ‘क्योंकि, कोई आश्चर्य नहीं, ये—ये हमारा राज्य नहीं है, हम इस संसार के नहीं हैं।’” उन्होंने... आप...

25 क्यों महिलाएं (हमारी महिलाएं) वे क्यों नहीं उनके—उनके बालों को छोटा करती, और मेकअप करती, और रॉक-एंड-रोल्स, और इन सब चीजों को करती हैं? क्यों, लोग प्रचलित कलीसियाओ और इत्यादि में जाते हैं, सोचते हैं, “इसमें कोई बात नहीं।” क्यों? यह... वे—वे अमेरिकी लोग हैं; वे अमेरिकी हैं, उनके पास अमेरिका की आत्मा है। हम अमेरिकी लोग नहीं हैं, हम मसीही हैं। हम रहते हैं... हमारी आत्मा दूसरे राज्य की है। यदि हमारी आत्मा इस राज्य की होती, तो हम इन बातों के साथ आराधना करते, तब हम इन सारे अश्लील गीतों की आराधना करते और इस रॉक-एंड-रोल की आराधना करते। “जहां भी तेरा खजाना होता है, वहां तेरा हृदय होता है।” और हमारा खजाना ऊपर है। तो इसलिए हम एक राज्य में जा रहे हैं।

26 यह हमारा घर नहीं है, हम तो यहां केवल यहाँ थोड़े समय के लिए प्रवास कर रहे हैं, अन्य नागरिकों को अंधकार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और एक नगर में जा रहे हैं और हो सकता है कि मैं एक शहर-व्यापी अभियान को चलाऊं, बस एक हफ्ते या दस दिनों के लिए मार्ग को बनाऊं, वहाँ एक बहुमूल्य प्राण के लिए; एक, वहाँ केवल एक बैठा हुआ हो।

27 आप कह सकते हैं, “सभा बड़ी सफल रही, पांच हजार लोग वेदी पर आए”; हो सकता है कि उनमें से एक भी न बचे, उनमें से एक भी नहीं। देखा? और हो सकता है... आप वहां सोच सकते हैं, “केवल दो ही लोग वेदी पर आए”; लेकिन हो सकता है उनमें से एक मोती हो। हम केवल छोटी नदी में जाल को डाल रहे हैं। परमेश्वर मछली को चुनता है, वह जानता है कि कौन सी मछली है और कौन सी नहीं।

28 तो, देखिए, हम केवल प्रचार कर रहे हैं। और याद रखें कि आप इस आराधनालय में उसी काम को कर रहे हैं। लेकिन यह हमेशा याद रखना, “मेरी भेड़ें मेरी आवाज को जानती हैं।” और परमेश्वर की आवाज़ उसका वचन है।

29 मैं उस दिन सोच रहा था कि ये लोग किस तरह से कहते हैं कि ना कभी... कलीसियाओ का कोई एक संप्रदाय कहता है, “दिव्य चंगाई सही नहीं थी। ना ही कभी किसी को दिव्य चंगाई का दान दिया गया था, लेकिन संत पौलुस या प्रेरित, वे बारह जो ऊपरी कोठरी में थे। उन्हें दिव्य चंगाई का दान दिया गया था, और बस इतना ही। बस बात खत्म हो जाती है।”

30 लेकिन, आप देखते हैं, इस अद्भुत चार्ट या चित्र के माध्यम से जिसे भाई विली ने यहाँ पर, हमारे लिए इतने बेहतरीन ढंग से ऊपर लगाया है, वह छोटा सी डोर जो पूरी तरह कलीसियाओ होते हुए आ रही है। मैं सोचता हूँ कि वही संप्रदाय कलीसिया के इतिहास के बारे में, आइरेनियस के बारे में, संत मार्टिन के बारे में क्या कहता है? और वे सारे शहीद जो प्रेरितों की मृत्यु के बाद सैकड़ों वर्षों तक, उस युगो में से होते हुए आये, अन्यभाषा में बोले, और बीमारों को चंगा किया, और मरे हुएों को जिलाया, और सारी कलीसिया में अद्भुत कार्य किया करते थे। सोचो उनके बारे में क्या, यदि यह केवल प्रेरितों के लिए ही था?

31 देखा कि यह कितना सकरा है? उनके पास आत्मिक समझ नहीं है, ऐसा ही है। देखना, “अंधे है! पाप और अपराध में मरे हुये!” पाप का अर्थ है “अविश्वास।” हर एक चीज में अविश्वास पाप है। यदि एक व्यक्ति को एक—एक उपाधि मिलती है इतनी लंबी (डी.डी., दुगना एल., पीएच.डी., एल.एल.डी. की उपाधि) और कहता है “दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज ही नहीं है या पवित्र आत्मा के बपतिस्मा जैसी कोई चीज नहीं है,” तो वो पाप में मरा हुआ मनुष्य है। वो बाईबल में सभी प्रकार के रहस्यों की व्याख्या करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उसका वही जीवन (उसकी गवाही) साबित करता है कि वह मरा हुआ है। वह पाप और अपराध में मरा हुआ है क्योंकि वह एक पापी है।

32 पाप अविश्वास है। किसी को भी चाहिए... पाप, ये व्यभिचार करना और सिगरेट पीना और नाचना और—और ऐसे ही करते जाना, ये नहीं होता है। यह पाप नहीं है, यह तो अविश्वास के गुण है। लेकिन एक—

एक विश्वासी... कोई फर्क नहीं पड़ता यदि कोई मनुष्य शराब नहीं पीता, धूम्रपान नहीं करता, इन कामों को न करें, कभी एक बुरा शब्द भी नहीं बोलता हो, सारे दस आज्ञाओं का पालन करता हो, वो फिर भी एक काला पापी हो सकता है, देखो, उतना ही दूषित जितना वह हो सकता है। यदि वह परमेश्वर की सामर्थ के किसी भी चीज से इन्कार करता है, तो वो एक पापी है! पाप शब्द "अविश्वास" है। अब, आप बस देखे, देखें कि यह सही है या नहीं। परमेश्वर के वचन में एक अविश्वासी, वो एक पापी है और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।

33 अब, ओह, मैंने तब आज सुबह सोचा, प्रभु की इच्छा के द्वारा इसे अपने ऊपर लेते हुए, पवित्र आत्मा की आज्ञा से, कि फिर से भवन में आऊं, और हो सकता है कि आप सभी को दो या तीन घंटे तक रोके रखूं। लेकिन मैं जाने से पहले प्रकाशितवाक्य के 4थे अध्याय की किताब को समाप्त करना चाहता हूँ। और अब मैं आशा करता हूँ कि यह आपको नहीं थकायेगा, मैं आशा करता हूँ कि यह—यह आपके लिए महिमा है। मैं आशा करता हूँ कि यह कुछ ऐसा है जो आपके लिये भला करेगा और आने वाले दिनों में आपकी सहायता करेगा।

34 और अब हो सकता है... मैंने बिली को आज सुबह यहां आकर और प्रार्थना कार्ड को देने को कहा यदि हमारे बीच में कोई अजनबी है, क्योंकि हम जा रहे हैं, और... अब, और मैं नहीं जानता कि हम कब वापस आएं। यह तो परमेश्वर ही जानता है। और मैं चाहता था... सोचा हो सकता है अंतिम सभा हो यदि... और जब उसने मुझे फोन किया तो लगभग—लगभग नौ बजे और कहा, "डैडी, वहाँ कुछ लोग हैं जिनके लिए प्रार्थना की जानी है। मैंने उनसे पूछा है, लेकिन" कहा, "यह वे लोग हैं जो—यह वे लोग हैं जो हर समय कलीसिया में आते हैं।"

35 मैंने कहा, "फिर कोई प्रार्थना कार्ड को नहीं देना, देखो।" मैंने कहा, "क्योंकि वो लोग... यदि आज सुबह हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम लोगों को बुलायेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे।" लेकिन मैंने कहा, "यदि यह—यह वे लोग हैं जो आराधनालय में आते हैं जिन्हें हम जानते हैं... नहीं, मैं कुछ अपरिचित लोगो को चाहता हूँ।"

36 और उसने कहा, वह कुछ मिनट पहले वहाँ से बाहर आया था जब वह वहाँ खड़े होकर मुझसे मिला था, कहा, "तो ठीक है, मैंने कुछ प्रार्थना

कार्ड दिए हैं।” कहा, “वहाँ बस कुछ ही, मैंने प्रार्थना कार्ड को दिए हैं।” कहा, “आप जो चाहें कर सकते हैं।”

37 मैंने कहा, “तो ठीक है, हम देखेंगे कि संदेश कैसे आगे बढ़ता है, देखेंगे कि हम कहां हैं, और फिर हम आगे जाएंगे। मैं... ”

38 उसने बोला, “निःसन्देह, बहुत से लोग प्रार्थना कार्ड को चाहते थे, लेकिन” कहा “वह वे लोग थे जो कलीसिया में हैं।” देखा?

39 ठीक है, हम जानते हैं कि परमेश्वर, परमेश्वर है। और, ओह, बस वही चीज़ें जो वो करता है! क्यों, हर समय अलग-अलग बातों के लोगों का ये—ये फोन बजता रहता है, कभी-कभी छोटी-छोटी बातों के लिए, और किस तरह से परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है!

40 मैं सोचता हूँ कि क्या वो छोटी महिला या उसका पति यहाँ है जो न्यू अल्बानी से है, जिन्होंने उस छोटे से बच्चे को लाया था, जिस बच्चे का निमोनिया के कारण दम घुटा हुआ था, उस रात लगभग बारह, एक बजे मेरे घर में आए थे? वहाँ है, तो ठीक है। बालक कैसा है? [एक भाई कहता है, “ठीक है।”—सम्पा।] ठीक है, अच्छी बात है, तो ठीक है।

41 अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखो, कि यह कुछ ऐसा है जिसे आप नहीं जानते होंगे, यह आगे नहीं बढ़ता है जब पवित्र आत्मा बोलता है। फ्रेड सोथमन, हमारे बहुमूल्य भाई, फ्रेड; मैंने उन्हें कहते “आमीन” सुना कुछ समय पहले, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पाया। वो कहाँ पर है? क्या वो यहाँ पर है? यहाँ, ठीक यहाँ पर है, भाई फ्रेड सोथमन। और यह दिखाने के लिए कि यह कितना साधारण है... उनके कुछ मित्र आ रहे थे, मैं मानता हूँ जो कि भाई वेल्च इवांस थे, मैं नहीं जानता। उनके पास वहाँ एक खींची जाने वाली गाड़ी थी; उन्होंने उसके द्वार को बंद कर दिया था और फ्रेड ने चाबी को खो दिया था, और हर कहीं ढूँढ रहे थे और उन्हें कहीं भी नहीं मिली। और भाई वेल्च सीधे ऊपर आ रहे थे। सो वो दिन आया कि वह पहुँचने वाले थे और इत्यादि, उन्हें कहीं भी चाबी नहीं मिली, सो तब उसने घर पर फोन किया, कहा, “भाई ब्रंहम, चाबी कहाँ पर है? हमें वो कहां मिलेगी?”

42 अब, इससे आप में से कुछ लोग चकरा सकते हैं, एक मनुष्य के लिए जो इस तरह का सवाल पूछता है। लेकिन एक मिनट रुकना, याद है कि यिश् के पुत्र खच्चरों को ढूँढ रहे थे? “इसलिए यदि मेरे हाथ में दान होता

था, तो मैं उसे वहां ले जाकर और दिखाता... मांगता, इसे भविष्यव्यक्ता को दे दो, और हो सकता है वह हमें बताता कि वे खच्चर कहाँ पर थे।" यह याद है?

43 और जब वह रास्ते पर चल रहा था, तब वे भविष्यव्यक्ता से मिले। उसने बोला, "तुम उन खच्चरों को ढूँढ रहे हो।" कहा, "वहाँ, तुम घर वापस जाओ," कहा, "वे पहले ही वापस लौट चुके हैं।" क्या यह सही है?

44 मैंने प्रार्थना की। फ्रेड वहां पर चला गया और चाबीयों को उठाया। ऐसा ही है। देखा?

45 भाई एड डॉल्टन, आप कहाँ पर हैं? एड डॉल्टन कहाँ है? मैं जानता हूँ कि वो यहीं कहीं पर है, मैंने उन्हें कुछ समय पहले देखा था। ओह, पीछे... वो वहाँ है। उसने मुझे अंतःसंचार या सार्वजनिक स्पीकर के माध्यम से सुना। एक रात को एक फोन आया और भाई एड गंभीर परेशानी में थे। मैं उनकी सहायता करना चाहता था। "नहीं," उन्होंने कहा, "मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से मांगें।" मैंने प्रभु से उसकी सहायता करने के लिए मांगा। और अगले दिन उसकी पत्नी ने फोन किया, कोई तो उनके बचाव के लिए आ गया। तो ठीक है। क्या ये सही है, भाई एड?

46 देखो, वह न्यायी परमेश्वर है। ऐसा ही है, वह न्यायी परमेश्वर है। देखो, वह बस... यह हर समय न्यायी रहता है हमेशा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सी परेशानी है, वह परमेश्वर है। हम यहाँ-वहाँ जाकर, उन चीजों के बारे में बड़ाई करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बस दाहिने हाथ को मेरा मतलब बाएं हाथ को यह न जानने दें कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है। हम आपस में इस पर बात करते हैं लेकिन हम इसे कहीं बाहर जाकर चिल्ला के नहीं बताते हैं। क्योंकि यह स्वयं पर घमंड करना है, जैसे, "परमेश्वर केवल ऐसा एक व्यक्ति के लिए कर सकता है।" वह इसे किसी के लिए भी करेगा जो—जो उस पर विश्वास करेगा। यह भरोसा है, विश्वास! जो कुछ भी—जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके विचार हैं, उसे परमेश्वर के पास ले जाएं। वो—वो—वो—वो हर एक चीज को प्रदान करता है। क्या यह सही नहीं है? सो वो प्रार्थना का उत्तर देता है। वह एक... परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला पिता है।

47 अब, तो इसलिए... मैंने सोचा, इस अंतिम सभाओं और इत्यादि में बंद करते हुए, जैसा कि हम... जब हम कर रहे हैं, सभा के अंतिम समय में हो सकता है हमारे—हमारे पास कुछ लोगों के हृदय का परखना हो, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो, और हो सकता है सभा के समय दौरान हो। हम बस नहीं जानते कि वह क्या करने जा रहा है। मैं इसे उस तरह से चाहता हूँ। किसी बात को तय न करें, बस उसे ही करने दें जैसा वह करना चाहता है।

48 अब, प्रकाशितवाक्य की किताब के 4थे अध्याय को लेंगे, और घड़ी को रोक दें।

49 [एक भाई, भाई ब्रह्म से बात करता है—सम्पा।] जी हाँ। जी हां, भाई। [भाई बोलना जारी रखता है। टेप पर खाली स्थान।] निश्चित रूप से, मैं यह विश्वास करता हूँ। पूरी तरह से, यह विश्वास करता हूँ।

50 यहाँ, भाई वेल्व इवांस है, मैं सोचता हूँ कि वह वहां ठीक पीछे बैठे हुए हैं। मुझे... जबकि हम प्रकाशितवाक्य 4 की ओर जाते हैं।

51 यहाँ अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, आप सभी ने अखबारों में लुइसविले के इस गिरोह के बारे में सुना और पढ़ा होगा जो इन कारों को चुराता है, वे तुरंत ही उन्हें केंटकी में कहीं तो ले जाते हैं। और केंटकी में आपके पास यहाँ तक एक अधिकार पत्र भी नहीं होगा, वे आपको केंटकी में एक अधिकार पत्र बना कर दे देंगे। तो आप बस... केवल एक चीज जो आपको करना है कि इसे वहां ले जाकर और इसे बेच दे। तो वे इन कारों को ले लेंगे और उन्हें चलाकर और उन्हें फिर से रंग देंगे, और उन कारों को बाहर लाकर और उन्हें बेच देंगे। आपके पास बस आपके ब्लॉक का नंबर होना चाहिए और वे—वे आपको अधिकार पत्र बना कर देंगे। सो वे बस सड़क पर से कार को उठा लेते हैं और उसे तुरंत ही उसे ले जाकर और उसे कहीं तो किसी दुकान में ले कर जाते हैं, बस इसके सारे चीजों को पूरी तरह से बदल देते हैं, देखो, और—और इस पर फिर से रंग लगाते हैं और इत्यादि, इसे बाहर ले जाकर और इसे बेच देते हैं। इसका एक अवैध धंधा है, और विशेष रूप से पूरे संयुक्त राज्य में, और ये केंटकी में एक बड़ा—बड़ा काम है। मैंने इसके बारे में कुछ समय पहले यहां अखबार में एक लेख पढ़ा था।

52 तो ठीक है, बड़े, अच्छे हृदय के, बहुमूल्य भाई इवांस और उनका परिवार, मैकॉन, जॉर्जिया इतनी दूर से गाड़ी चला कर आते हैं, यहाँ हर रविवार को सुसमाचार को सुनने के लिए आते हैं। ओह, वे कितने निष्ठावान और क्या ही सच्चे मित्र! फिर वह मिलर के जलपानघर में जाते हैं जहां...

53 मैं मिलर जलपानघर का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे निश्चित रूप से लगता है कि उन्हें वहां केंटकी में सबसे अच्छा खाना लगता है; जो कुछ भी हो, लुइसविले, केंटकी, में। जहाँ तक... मेरा मतलब आपके निजी घरों से नहीं है, जो मैंने वहां खाया है, अब, मेरा मतलब (आप जानते हैं) बाहर से है। और मैं भी वहीं पर खाता हूँ। मैं अपने परिवार को घर पर खिलाने तुलना में वहां पर सस्ता खिला सकता हूँ। यह सही बात है।

54 तो फिर मैं वहाँ पर जाता हूँ, और वैसे ही भाई इवांस वो वहां पर जाते हैं और वह अपने खाने के लिए कुछ तो लेने गए और अपनी गाड़ी को वहां खड़ा किया। जब वो बाहर आये (उनके सारे कपड़ों के साथ) और परिवार और वे सारे, उसके पास न तो कार थी और न ही कोई भी चीज वहां पर थी। यह सब चला गया था। तो, बेचारे, भाई इवांस हम सब की तरह एक मनुष्य ही है, उसका वहां एक छोटा सा व्यवसाय है, वे कारों का काम करते हैं, वे टूटी-फूटी खरीदते हैं और उन्हें दुरुस्त करते हैं। वो एक गरीब व्यक्ति है, और अपना पैसा यहाँ आने के लिए खर्च करते हैं क्योंकि वह इस प्रकार के सुसमाचार में विश्वास करते हैं। मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर उनके लिए वहाँ एक संदेशवाहक भेज दे, जिससे कि उस देश में उनकी सहायता कर सकें।

55 अब, भाई इवांस वहां आए, सो वो नहीं जानते कि वे क्या करें। उन्होंने पुलिस को सूचित किया था और वे इसे नहीं ढूँढ पाए। तो वो घर पर आये, वो और भाई फ्रेड और वे लोग, हम कमरे में बैठ गए और इसके बारे में बात की। मैंने कहा, "अब..." हम इसी तरह से करते हैं, हम कमरे में बैठते हैं, देखते हैं कि क्या बात जगह लेती है, और फिर हम परमेश्वर के पास जाते हैं। तो जब हमने प्रभु से माँगा, "जिस व्यक्ति के पास कार थी, उसे फेर दीजिये, उसे वापस मोड़ दीजिये और उसे वापस भेज दीजिये, चाहे वह कहीं पर भी हो।"

56 अक्सर वे उन्हें बॉलिंग ग्रीन के आसपास या कहीं और नीचे चलाकर ले जाते हैं, उन्हें यहाँ के संवेदनशील जगह से बाहर निकालते हैं, आप

देखिए, जिससे वे कर सके... जब तक वे उन्हें फिर से रंग नहीं लगा देते और तैयार नहीं कर लेते। यह एक अच्छी कार थी, मुझे लगता है कि वो कार स्टेशन वैगन थी। क्या यह सही है, भाई इवांस? वह एक—एक स्टेशन वैगन कार थी।

57 इसलिए, और तो क्या हुआ, हम नीचे बैठे और प्रार्थना की। और प्रभु ने हमें इस—इस गवाही को दिया, सब कुछ ठीक है, हर एक चीज सही है। सो तब प्रभु की सामर्थ हमारे साथ आ गई। भाई इवांस बाहर निकलकर और उन्होंने चलना आरंभ किया, उन्हें किसी एक रास्ते की ओर जाने की अगुवाही होने लगी।

58 वो यहीं जेफरसनविले में वापस आ गये। उनकी कार लुइसविले में चोरी हो गई थी; यहाँ उनकी कार खड़ी हुई है और उसे चला कर ले जाने के लिए उसमें पर्याप्त पेट्रोल था... ओह, इसमें से, वे चोरी करने वाले इसे लगभग कुछ दूर बॉलिंग ग्रीन की ओर लेकर गये और वापस ले आये। उन्होंने कार को रोका और कार से उतरे, चाबी उसी में छोड़ दी, बस चले गए और उसे वहीं खड़ा छोड़ दिया, ठीक यहीं जेफरसनविले में जहां वह इसे मिल सकी; ना ही लुइसविले में, यहाँ जेफरसनविले में। इसे इतनी दूर से वापस ले आये।

59 आप जानते हैं, परमेश्वर पक्षियों को अपनी आज्ञा को मानने को लगा सकता है, वे मनुष्यों को अपनी आज्ञा को मानने को लगा सकता हैं, वो अपने शत्रु को अपनी आज्ञा मनाने को लगा सकता हैं। वह... जी हाँ, महोदय, वो परमेश्वर है। यहाँ उसकी कार खड़ी थी एक भी चीज उसमें से गायब नहीं हुई, बस लगभग आधा टैंक पेट्रोल भरा हुआ जहाँ वो लगभग बॉलिंग ग्रीन तक पहुँच गया था, और पवित्र आत्मा ने अवश्य ही कहा होगा, “वापस मुड़ो! वहाँ वापस जाओ और उस कार को जेफरसनविले लेकर जाओ। इसे यहीं सड़क पर खड़ी करो, और ठीक यहाँ पर खड़ी करो, (क्योंकि मैं उसे इसे खोजने के लिए ठीक इस रास्ते की ओर और इस रास्ते से ऊपर की ओर भेजूंगा)।” क्या यह सही है, भाई वेल्च? यह सही है। देखना।

60 वो परमेश्वर है! वो प्रार्थना का उत्तर देता है, भाई रॉय। वह बस... यही है, भाई स्लॉटर, यह बस वही बात है, जैसे उसने आपके छोटे से कुत्ते को चंगा किया। और मैं जानता हूँ कि वह चंगा करता है, वह प्रार्थना का उत्तर

देता है, वह अब भी अद्भुत कार्यों को करता है, वह अब भी परमेश्वर है, वह हमेशा परमेश्वर था, वह हमेशा परमेश्वर रहेगा!

वह—वह परमेश्वर जो छत पर है, (यह क्या है, जो भाई यहाँ कलीसिया में गाते हैं?)
 परमेश्वर रसोई घर में है, परमेश्वर बाहर खेत में है,
 परमेश्वर मोटर-वाहन में है, वह परमेश्वर है जो हर जगह हैं,
 वह पूरी—पूरी तरह हर एक पहलू से परमेश्वर है।

61 ओह, कितना अद्भुत! हम कुछ समय बाद प्रचार करेंगे और इस विषय में कभी भी नहीं जा पायेंगे।

तो ठीक है, आइए प्रार्थना के लिए कुछ क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएं।

62 अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र वचन से अधिक प्रेम करते हैं इतना तक कि हमारा हृदय हमारे भीतर जलने लगता है, जब हम जानते हैं, कि आपका आत्मा हमारे बीच में उतरता है, और वहां हम से बातें करता है, और हमारे हृदय आगे बढ़कर और इसे ग्रहण करते हैं। और बस ऐसा लगता है कि हम इस पर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, प्रभु।

63 और इस अंधकार के समय में यह जानना जहां इतनी अधिक गड़बड़ी या उलझन है... जैसे कि नबी ने कहा, "अन्तिम दिनों में अकाल पड़ेगा," कुछ तो इस प्रकार से, "ना ही रोटी और पानी के लिए, लेकिन परमेश्वर के सच्चे वचन को सुनने के लिए; और मनुष्य पूरब से पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर यात्रा करेगा परमेश्वर के सच्चे वचन की खोज करते हुए।" वचन! वचन क्या है? यीशु वो वचन है, "वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया।" परमेश्वर के सच्चे वचन के प्रकटीकरण को देखने के लिए जो वचन के अनुसार प्रकट बना और इसे पूरा किया गया, कि, किस तरह से लोग यात्रा करेंगे और खोजेंगे और इसे खोजने में असफल हों जायेंगे। हे परमेश्वर, हम बहुत ही खुश हैं, इतने खुश कि हमने उसे वर्षों पहले पा लिया, हमारे हृदय के लिए अनमोल है, और इसे देखते हुए कि हम जरा भी उलझे हुए या गड़बड़ी में नहीं हैं।

64 हे परमेश्वर, आपने कहा, "वे जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे उस दिन में अद्भुत कार्य करेंगे।" और यहाँ हम अंत के दिनों में हैं, इन सब बातों

को देख रहे हैं जो यीशु ने कहा, वे बातें पूरी होंगी, जो ठीक हमारे बीच प्रकट हुई हैं। वही चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कार्य किए गये, ठीक उसी तरह इसे करते हुए जैसे उसने किया था। जैसे उसने कहा, "जैसा सदोम के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आगमन पर भी होगा।"

65 और, प्रभु, आपने हमें, पवित्र आत्मा के द्वारा, उस वचन तक पहुंचने और उन सच्ची चीजों को प्राप्त करने दिया और उन्हें वचन के द्वारा कलवरी में जोड़ दिया, और देखने दिया, कि उस में हमारी परिपूर्णता है। और बहुतायत और आशीषें और महिमा और सब कुछ उसी को मिले जो योग्य है, जिसने आकर उस के दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, किताब को ले लिया, और उस पर स्वयं बैठ गया। क्योंकि वह जगत की बुनियाद डालने से लेकर घात किया गया है।

66 हम आज सुबह उसके बारे में बात करेंगे, पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय को आशीष दें। उसकी आत्मा हमारे बीच मंडराए और हमें आशीष दे, और हमारे अनुभव को अधिक बढ़ाये, और हमारे बीच में बीमारों को चंगा करे, और हम पर जय पाने का अनुग्रह दीजिये।

67 और, परमेश्वर, जब मैं विरोधी का सामना करने के लिए कार्य क्षेत्र में बाहर जाऊँ, होने पाए तो मैं महसूस करूँ कि मैं हर घड़ी प्रार्थना से घिरा हुआ हूँ। ओह, मैं किस तरह से उस घेरे पर निर्भर हूँ, शत्रु आता है, लेकिन जानता हूँ कि वो घेरा रोके रखता है क्योंकि माता और पिता, और लड़के और लड़कियाँ, मसीही लोग, अनुभव के साथ फिर से जन्मे हुए, स्वर्ग से बंधे हुए लोग अपने घुटनों पर प्रार्थना कर रहे हैं, "हे परमेश्वर, छुटकारा देना!" और, पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शत्रु की रेखा में आगे बढ़ने देना और हर एक उस कीमती प्राण पर विजय को प्राप्त करें जो प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा करे, प्रभु, और उन्हें अंधकार में से उजियाले में ले आये। क्योंकि हम यह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।

68 अब, प्रकाशितवाक्य की किताब के 4थे अध्याय में। हमने तीसरे अध्याय को समाप्त कर दिया है, और हम एक तरह से आदरपूर्वक रहे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत लंबे समय तक नहीं रोके रखूँ। लेकिन इस 3रे अध्याय में, कलीसिया एक नमूने के रूप में ऊपर चली जाती है, जब यूहन्ना को ऊपर उठा लिया गया। कलीसिया ऊपर चली जाती है, और उस समय से लेकर ये इस्राएल के साथ व्यवहार कर रहा है, उसके

फिर से आने तक। क्या आप नहीं देखते कि यह किस तरह से है? आज लोग, वे किस तरह से कहते हैं, “कोई तो बड़ी बात पूरी दुनिया को और हर एक चीज को हिलाने जा रही है।” यह वचन के अनुसार नहीं है! नहीं श्रीमान। क्रम के अनुसार अगली चीज कलीसिया का जाना है। कलीसिया के युगों में पढ़ें, आप देखते हैं क्या...

69 अब, ये अन्य बातें जो जगह लेनी हैं, विवाह के समारोह के समय के दौरान जब कलीसिया महिमा में होती है। परमेश्वर महान अद्भुत कार्यों के साथ वापस लौटता है ताकि अंतरराष्ट्रीय चमत्कार और चीजों को प्रदर्शित करे, यहूदियों के द्वारा, कलीसिया में बिल्कुल भी नहीं जाता।

70 3रे अध्याय पर कलीसिया युग समाप्त होता है। यह सही बात है। और कलीसिया युग ऐसे छोटे से अल्पसंख्यक लोगों के साथ चला जाता है कि हम पाते हैं... अब यहाँ सुनना। मैंने—मैंने आज सुबह इसे फिर से पढ़ा, इसने मुझे लगभग टुकड़े-टुकड़े कर दिया, वो स्थान और कलीसिया युग के अंत में मसीह की स्थिति, जो प्रकाशितवाक्य 3 के 20वें पद से लेकर 22वें पद तक पाया जाता है। इसके बारे में सोचें मसीह, अंत में, वो कहाँ पर है! कलीसिया युग के अंत में वो कहाँ पर है? उसकी कलीसिया के बाहर है, संप्रदायों और मत-सिद्धांतों के द्वारा बाहर निकाला गया। उसकी स्थिति क्या है? वो वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा है। यह एक दयनीय स्थिति है!

71 तब हम यहाँ पाते हैं, “इन बातों के बाद” उसने एक आवाज सुनी जो उससे बात कर रही थी कि... ओह, यह क्या था? आत्मा ने धरती चला गया। “इन बातों के बाद,” 1ला अध्याय बताता है, मतलब—मतलब 1ला पद:

इन बातों के बाद जो मैं ने दृष्टि की, तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है:...

72 प्रकाशितवाक्य 4:1, कलीसिया के चले जाने के बाद, फिर एक—एक द्वार खुला हुआ था। और हम उस सब बातों में से होकर गए हैं और पाया कि वह मसीह था, वो द्वार था। और वही आवाज जो सोने की सात दीवटों के बीच में चल रही थी यह वही आवाज भी थी जिसे उसने स्वर्ग में यह कहते हुए सुना था, “यहाँ ऊपर आ।” यूहन्ना ऊपर चला गया। यह रेपचर में जाने वाली कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है।

73 यूहन्ना आत्मा में ऊपर गया, स्वर्ग में ले उठा लिया गया और उन सारी चीजों को पहले से देख लिया कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की और चेलों से कहा, “यदि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुम्हें इससे क्या?” उसने प्रभु के आगमन को देखा और क्या बात जगह लेगी। उसने धरती पर देखा कि कलीसिया के रेपचर के लिए धरती पर क्या बात जगह लेगी, और ऊपर उठाया गया और ठीक आगे यहाँ तक बीतने वाली सहस्राब्दी को भी दिखाया। ओह, क्या यह अद्भुत नहीं है?

74 अब, हमने उसे पिछले रविवार को 4थे अध्याय और 4थे पद पर छोड़ा था।

और उस सिंहासन के चारों ओर चौबीस सिंहासन थे: और उन आसनों पर मैं ने चौबीस प्राचीनो को श्वेत वस्त्र पहिने हुए बैठे देखा; और उनके सिरों पर सोने के मुकुट थे।

75 अब, हम पाते हैं कि ये प्राचीन थे। एक प्राचीन को कभी भी किसी दूत या किसी भी जीव पर लागू नहीं किया जाता है। यह एक छुड़ायी हुई मनुष्य जाति है, वे प्राचीन! क्योंकि वे... दूतों के लिए सिंहासन, मुकुट और अधिकार का उल्लेख कभी भी नहीं किया जाता है। लेकिन मुकुट और सिंहासन और इत्यादि मनुष्य जाति से संबंध रखते हैं। और इन प्राचीनो को मुकुट पहनाया गया और उन्हें वस्त्र पहनाया गया और सिंहासन पर बैठाया गया। और हमने उन्हें वचन के अन्य भागों में पाते हैं कि वे बारह प्रेरित थे और वे बारह कुलपिता थे। उनमें से बीस और चार, जिसका अर्थ है “चौबीस”: बारह प्रेरित, बारह कुलपिता।

76 और, हमने पाया, यहाँ तक कि वो नगर भी जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरता है... धरती के नष्ट होने के बाद और सब टुकड़े-टुकड़े हो गया और धरती पर ज्वालामुखी की राख के अलावा कुछ भी नहीं बचा (बस इतना ही बचा रह जाएगा), अब कोई और समुद्र नहीं रहेगा। समुद्र सूख जाएगा।

77 जैसे मैं पिछली रात किसी से बात कर रहा था, या कल, कहीं तो, पृथ्वी एक बार इस तरह खड़ी हो गई, तो ठीक है, सूर्य के चारों ओर, ऊपर और नीचे समान गर्मी है। वहाँ ब्रिटिश बर्फ के मैदानों में, आप वहाँ पांच सौ फिट नीचे विस्फोट कर सकते हैं और खजूर को देख सकते हैं। यह अचानक आकर, उन्हें अब रेफ्रीजरेटर की तरह जमा देता है। जैसे

आपके पानी का सुखना और इत्यादि होता है, और आपका फ्रीज और गहराई तक जमाता है जो स्ट्रॉबेरी को बनाए रखते हैं और चीजों को आने वाले वर्षों और वर्षों और वर्षों तक। समझे? इसी तरह से ये उस समय भी था। शीघ्र ही एक प्रलयपूर्व विनाश आता है और सारी धरती के ऊपर बाढ़ आ जाती है। और जब ऐसा हुआ, तो परमाणु शक्तियों ने उसे उसके कार्य क्षेत्र से हिला दिया, और ये पूरा जम गया और वह वहां पड़ा रहा। देखा? नीचे खुदाई करें और आप उन्हें अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों और इत्यादि के चारों ओर, ताड़ के पेड़ और इत्यादि को पा सकते हैं। दिखाता है कि यह एक समय सुंदर रूप से बसा हुआ था, स्थापित था। लेकिन अब यह वापस हिल गया है।

78 अब, जहाँ मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर के पास वो पानी था, जब उत्पत्ति आरंभ होती है, उत्पत्ति 1, "पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, और पानी गहराई पर था। परमेश्वर का आत्मा पानी पर मंडराया और कहा, 'वहाँ उजियाला होने दो।'" परमेश्वर ने भूमि और जल को अलग किया, जिससे पृथ्वी बनी। लेकिन पूरी पृथ्वी ढकी हुई थी। अब, उसने क्या किया, उसने बस... वातावरण में से होते हुए, वो बस... वातावरण... वातावरण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और इत्यादि से भरा हुआ है। तब उस ने उसे धरती पर से उठाकर अलग कर दिया। तब धरती पर समुद्र नहीं था। परमेश्वर ने धरती को पानी दिया, यहां तक बारिश भी नहीं हुई थी। उसने इसे झरनों और इत्यादि के सिंचाई के माध्यम से पानी दिया। फिर जब वो... केवल एक चीज जो उसने तब की...

79 जब मनुष्य ने इसे अपनी कक्षा या क्षेत्र से बाहर एक तरफ उड़ा दिया, तो क्या घटित हुआ? इसने इसे वापस... यहाँ नीचे गर्मी, और वहाँ ऊपर ठंड को फेंक दिया। और गर्म और ठंडा, क्या मिश्रण है? इसे अभी यहां उन खिड़कियों पर महसूस करें, यहां अंदर गर्म और बाहर ठंडा। पसीने को देखा? और बारिश और कुछ नहीं है लेकिन पसीना, पसीने आने की प्रक्रिया है। और पानी राख है। और इसलिए जब यह...

80 मुझे वो गीत पसंद है:

आपने अपने हाथ को रखा, बहुमूल्य प्रभु, घास के बड़े
मैदानो पर,
अपने अद्भुत हाथ को सीमा पर रखा;

प्रभु, आपने झरने को उँडेल दिया,
पहाड़ को ऊपर उठाया,
हे प्रभु, अपने बहुमूल्य हाथ को मुझ पर रख।

आपने बादल बनाए, बादल को तैयार किया, जिनसे
वर्षा हुई,
वर्षा से समुंद्र बना,
समुद्र से बादल आ गये,
जिससे कि हमें बहुतायत सा जीवन दे;
आप पृथ्वी और आकाश को अपनी आज्ञा से थामे
रखते हैं, प्रभु,
ओह, कृपया अपना बहुमूल्य हाथ मुझ पर रखें। (ओह,
कितना महान! जी हाँ, स्वर्ग का परमेश्वर।)

81 फिर इस महान समय में, यह अब इस तरह वापस झुक रहा है, और उसने हमसे एक प्रतिज्ञा की है, “अब कोई पानी नहीं, लेकिन इस बार आग!” बजाए इसे दूर करने के... उन्होंने पृथ्वी को सूरज से दूर कर दिया, अवश्य ही, यह ठंडी हो गयी। यदि आप इसे सूर्य में फेंकते हैं, तो यह जल जाएगी। और जैसे उस ने जल से नाश किया, और मेघधनुष को आकाश में रखा, वो “अब और ऐसा नहीं करेगा,” अब, वो एक प्रतिज्ञा को देता है जिसे वो करेगा “इसे जला दो!” तो वहाँ आप आते हो जहाँ पाप और सारी चमक-दमक और सारी गंदगी...

82 और ज्यादा समय नहीं हुआ मैं घास के मैदान से होकर नीचे उतर रहा था। एक छोटे लड़के के नाई मैं अक्सर सोचता था, अपनी इतिहास की और भूगोल की किताबों को लेता और बड़े पश्चिमी घाटियों के बारे में सोचता। “किसी दिन,” मैंने कहा, “मैं वहाँ शांतिपूर्वक और चुपचाप से रहूँगा जहाँ कोई पाप नहीं है, और मैं खेतों में यहाँ-वहाँ घूमूँगा और इंडियन की तरह शिकार करूँगा। और मैं—मैं वहाँ अपने जीवन के हर एक दिन एक शांतिपूर्ण जीवन को जीयूँगा।” लेकिन अब यह... श्वेत मनुष्य वहाँ गया है। जहाँ श्वेत मनुष्य जाते हैं, पाप उसके साथ होता है। वो धरती पर सभी लोगों में सबसे बड़ा हत्यारा और घात करने वाला है, वो है एक श्वेत मनुष्य। वह सभी रंगों में से विश्वासघाती है!

83 यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ अखबार में (भाई थॉम यहाँ, अफ्रीका से है), मैंने दो हफ्ते पहले अखबार के एक लेख में देखा था, मैं सोचता हूँ कि यह था, और उसने कहा... उन्होंने कहा, “यदि अमेरिका के लोगो को अभी भी अफ्रीका जाने की अनुमति मिलती है, अब से दस वर्षों में वो बड़ा अफ्रीकी शेर, हाथी, पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे।” विश्वासघाती कहीं भी गोली को चला सकते हैं। उसमें एक घायल नर को पकड़ने की कोशिश कर रहे दो बड़े पुरुषों की तस्वीर थी। ऐसा दिख रहा था जैसे उनकी आंखों से आंसू बह रहे हों। वे नहीं चाहते... नर नहीं चाहते थे कि मादा मर जाए। और हर एक उस मादा को इस प्रकार से उसके किनारे को पकड़े हुए था, कि उसे नीचे गिरने से बचाने के लिए... जमीन पर। उसे बस गोली से टुकड़े कर दिया। एक मनुष्य जो इस तरह से किसी को भी गोली मारता है, उसके हाथ में बंदूक रखने के योग्य नहीं है। यह सही बात है। आपके पास इसे संभालने के लिए पर्याप्त सहज बुद्धि नहीं है।

84 अब, कुछ वर्ष पहले, मेरे अच्छे मित्र, भाई रॉय रॉबर्सन के पास, बारहसिंघा के कुछ झुंड को लेकर जाने की कोशिश कर रहा था और वे वहाँ वापस आ गए, जब मैं कोलोराडो में लेकर जा रहा था; जानता था कि हमारे पास एक अच्छा झुंड था। जेफ और मैंने उन्हें वर्षों और वर्षों तक वहाँ रखा था, झुंड में लगभग अस्सी बारहसिंघा थे। उन्होंने इन कार्यालय के कुछ लोगों को डेनवर से वहाँ बाहर आने दिया जो इन घुटने तक पैट पहने हुए, और आधे पैरो में लेस लगे हुए। वे शिकारी थे। हम्म! यहाँ पर वे ऊपर आते हैं, एक झुंड इस तरह से जीपों और इत्यादि में, हमारे क्षेत्र में वापस आ पहुंचे।

85 और मैं इन बारहसिंघो को लेकर जा रहा था पहाड़ के उस ओर उनके पीछे, लगभग एक या दो मील, और वे साथ-साथ-साथ झुण्ड में चल रहे थे। आपको उन्हें बारीकी से रखना होगा, बड़े पुराने बैल और इत्यादि; यदि आप नहीं करते हैं, तो आप अपने झुंड को तोड़ देते हैं। उन्हें बस गाय-पशुओ या किसी को भी पालने-पोसने की तरह हैं। वन्य जीवन हमारे लिए समान होना चाहिए। ये एक लक्ष्य नहीं है। यदि आप लक्ष्य को गोली मारना चाहते हैं उन्हें उन पर गोली चलाने के लिए यहां से बंदूक चलाने की दूरी मिल गई थी। यह सही बात है। इस तरह की चीजों को हत्या करना शर्मनाक बात है। ये पाप से भरा है, यह अधर्म है!

86 और मैंने मशीनगनों में से निकली एक सौ तेईस गोलियों को गिना, जैसे, जिसे उनके कंधों से गोली को चलाया गया था। और अगली सुबह, भाई बैंक्स वुड यहाँ मेरे साथ थे, हम पहाड़ पर चढ़कर गए, मैंने गिनती की उन्नीस लहलुहान बिछे पड़े हुए थे। वे शिकार के बारे में कुछ नहीं जानते; आप इस तरह के एक बड़े जानवर को गोली मार सकते हैं, आप उसे मारने के लिए काफी गहरा प्रहार कर सकते हैं। और वे बस छोड़ देते हैं, "बैंग बैंग बैंग," एक को गोली मारते हैं, फिर दूसरे को मारते हैं। इसलिए, वे मर जाएंगे। और क्या... उनमें तापमान चढ़ जाने के बाद, यदि आप उन्हें पाएंगे कि वे ठीक नहीं हैं, वे तुरंत ही सड़ने लगते हैं; और मुर्दों को ढूँढनेवाले, भेड़िये, और इत्यादि उन्हें खा लेते हैं। उन्नीस लहलुहान पड़े हुए, बड़े बैल, जिनके खुर जो ऐसे बड़े-बड़े हैं, और दो पांवाँ से लहू निकल रहा है, जहां पर इसे उन बंदूकों से इस प्रकार छेदा गया था। उन्हें उस तरह के विश्वासघाती लोगों को अपने हाथ में बंदूक रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह सही बात है। उसके पास बंदूक संभालने का सहज बुद्धि नहीं है। ओह, इसे इस तरह से करना जबरदस्त पाप से भरा है।

87 यह भयानक बात है, लेकिन यही अमेरिकी लोग हैं। केनडा, आप केनडा के बहुमूल्य लोग! यदि अमेरिका ऐसा ही करता रहा, तो केनडा कुछ समय बाद अमेरिका की तरह अशिष्ट हो जाएगा। केनडा की सीमाओं के आसपास कहीं भी जाए, और आपको वो अमेरिकी वातावरण मिलता है। यह अमेरिका राष्ट्रों की वेश्या है। बिल्कुल ठीक यही है वो, और वह अब पहले से भी और बदतर होने जा रहा है। वह अपने अंत में आ रहा है! बाईबल उसके विनाश के लिए बोलती है, ये बताती है कि वह किस तरह से होगा। अमेरिका: अशिष्ट, सड़ा हुआ, गंदा, जिसमें कोई अच्छाई नहीं है। यह बिल्कुल सही है। वह एक बड़ा राष्ट्र रहा है। उसने सुसमाचार के संदेश आगे को लेकर आया था। जिस तरह से वो है उसे क्या बात ऐसा बनाता है? क्योंकि उसने सुसमाचार के सन्देश से मुंह फेर लिया है, और सच्चाईयों को तुकरा दिया है। वो भयानक है। वह आ रहा है, चिंता मत करो। मैंने इसे दर्शन में देखा **यहोवा यों कहता है** की नाई! ये आ रहा है। वह अपने पाप का भुगतान करेगा।

88 जब अमेरिका, अमेरिका था, तब वह एक महान राष्ट्र था। इस्राएल के बाद से दुनिया में अब तक सबसे बढ़कर अमेरिका को जाना गया था, लेकिन उसने निश्चित रूप से अब खुद को दूषित कर लिया है। उसने संदेश

को अस्वीकार कर दिया है। उसने बस कुछ भी नहीं लिया सिवाय... अब वह खुद को... आप देख सकते हैं कि वह अब कहां पर है। हर एक जन यह जानता है कि पिछला चुनाव दिखाता है कि उनकी आत्मिक स्थिति कहां पर है। हूँ-हुंहा। वह नहीं जानता।

89 अब ये प्राचीन लोग अपने मुकुट के साथ सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अब, 5वां पद, हम आरंभ करने जा रहे हैं:

और उस सिंहासन में से बिजलियां... गर्जनायें... आवाज़ें निकलती हैं और सिंहासन के साम्हने आग के सात दीपक जल रहे हैं, ये परमेश्वर की सात आत्माएं हैं।

90 ओह, मुझे यह पसंद है! क्या आपको पसंद नहीं? ओह, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरा कोट मुझ पर फिट बैठता है, आप जानते हैं। मैं बस... जब... ओह, मेरा मतलब आत्मिक कोट में है, निश्चित रूप से, आप जानते हैं। तो ठीक है।

91 “सिंहासन में से।” आइए अब कुछ मिनटों के लिए इस सिंहासन के बारे में बात करें। यह दया का सिंहासन नहीं था। दया का सिंहासन समाप्त हो गया है; कोई और दया नहीं, यह बिना दया के है। हम किस तरह से जा रहे हैं... किस तरह से न्याय का आसन मसीह का न्याय का आसन होने जा रहा है, न्याय का आसन, सफेद न्याय का सिंहासन? क्या तब वहां पर दया होगी? वहां पर कुछ भी दया को बढ़ाया नहीं जायेगा। न्याय के सिंहासन पर आप चिल्ला सकते हैं “दया” तब आप अब और चिल्ला भी नहीं सकेंगे, और ऐसा है, आप बस वैसे ही हो सकता है कहीं तो हवा में चिल्लाते रहे, क्योंकि अब और कोई दया नहीं है।

92 अभी, ये दया का दिन है! अब, आइए हम यहाँ पुराने नियम में जरा सा पीछे जायें और देखें कि दया क्या है। पीछे जाकर और देखें कि इस सिंहासन का क्या हुआ। यह सिंहासन, निश्चित रूप से, ये—ये न्याय का आसन है। और... आज दया होने का कारण यह है कि दया के आसन पर एक प्रायश्चिता का छिड़काव किया जाता है। लहू का! और जब तक लहू न्याय के आसन पर है तब तक यह न्याय नहीं होता है, यह दया होती है, क्योंकि न्याय को रोके रखने के लिए कोई तो मर गया। यदि आप इसे देखते हैं, तो “आमीन” कहे। [सभा कहती है, “आमीन।”—सम्पा।] जब तक लहू दया के आसन पर होता है, दिखाता है कि न्याय को थामे रखने के

लिए कोई तो मर गया। लेकिन जब कलीसिया का रेपचर किया जाता है, तो दया का आसन न्याय का आसन बन जाता है!

93 वहां पर, आप जानते हैं, यहाँ नए नियम में भी, “और वो पवित्र स्थान।” यही है जहां वो—वो न्यायी... पवित्रस्थान में, पवित्रस्थान के आसन पर न्यायी है। अब, पवित्रस्थान का न्याय आसन धुएँ से भर गया है। यह क्या था? जैसे की सिनय पर्वत, न्याय! दया ने उस—उस परमेश्वर के सिंहासन को छोड़ दिया था। परमेश्वर बिना दया के संसार का न्याय करेगा। यह कितने लोग जानते हैं?

94 उस दिन वो केवल एक ही चीज को पहचानेगा, वह क्या है? लहू। केवल यही एक चीज है जो क्रोधित परमेश्वर को शांत करती है।

95 आदम और हव्वा ने बस उसी तरह का पैबंद बनाया जैसे कोई भी मेथोडिस्ट, बैपटिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, या पेंटेकोस्टल बना सकते हैं, इसने उनकी नग्नता को ढँक दिया। लेकिन परमेश्वर इसके माध्यम से देख सकता था, सो उसने किसी चीज को मार डाला और उसकी मृत की खाल को ले लिया—खाल मरे हुए जानवर की और इसे ढँक दिया। लहू को इसके स्थान को लेना था। इससे उसका क्रोध थम गया, उसने लहू को देखा और उससे पीछे हट गया, क्योंकि किसी ने उसके जीवन को बहाया था। हे परमेश्वर!

96 इस पर सोचे! केवल एक चीज जो परमेश्वर को पीछे हटा देती है वो है लहू। और केवल एक ही लहू है जिसमें से वह वापस आएगा, और यह उसके अपने पुत्र का लहू है। जब वह देखता है कि यह उसके अपने पुत्र का लहू है, तो वो वापस पीछे हट जायेगा। क्योंकि यही वो उपहार है जिसे... परमेश्वर ने अपने पुत्र को उन्हें छुड़ाने के लिए दिया है, जिन्हें वह पहले से जानता था, और यह परमेश्वर को उसके न्याय से वापस लाता है। लेकिन जब वह लहू को हटा दिया जाता है, और वो हर एक जन जिसे पहले से जानता था, उसे बहुमूल्य शरीर के अंदर बुलाया जाता है, उसकी कलीसिया बनकर तैयार हो जाती है और ऊपर उठाई जाती है, तब लोगों पर परमेश्वर का कोप आता है।

97 ओह, भाई, मैं वहाँ कभी भी खड़ा नहीं होना चाहता! मुझे मशीन गन के सामने खड़ा होने दो, मुझे टुकड़े-टुकड़े कर दो, मुझे इंच दर इंच आरे से काटने दो, कुछ भी होने दो (जैसे कोलंबस के शूरवीरों ने शपथ ली), उन्हें

मेरे पेट को फाड़ने दो, और गंधक और हर एक चीज को मुझ में जलने दो, और मेरे हाथ और पैर काट दिए जाएं, ये कुछ भी हो, लेकिन मुझे कभी भी उस सफ़ेद न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा नहीं होने दो।

98 ओह, मैं यहाँ इस छोटे से सिंहासन को लूं मसीह के आसन के सामने और उसके लहू को स्वीकार करूँ। मेरे अपने हाथों में कुछ भी नहीं जो मैं लाऊँ, प्रभु।

मैं कोई और सोता नहीं जानता,
कुछ भी नहीं, सिवाय यीशु के लहू के। (यही है जिसके
बारे में मैं जानता हूँ।)

यही मेरी आशा और सहारा है,
कुछ भी नहीं सिवाये यीशु के लहू के।

99 कोई आश्चर्य नहीं एडी पेरोनेट... उसके गीतों से मुंह मोड़ लिया गया। जब वह एक मसीही था, एक कट्टर मसीही, वे उसके गीतों को नहीं खरीदना चाहते थे। एक दिन उसने कहा, "मैं एक गीत लिखूंगा, और किसी दिन... कि वे स्वीकार करेंगे।" (और लोग धार्मिक गीतों में कुछ और अधिक आधुनिक ढंग को चाहते हैं।) एक दिन वहाँ पवित्र आत्मा ने नियन्त्रण लिया, और उसने कलम को लिया और उसने लिखा:

पूर्ण रूप से यीशु के नाम की सामर्थ की जय हो!
वे दूत गिरकर दंडवत करें;
शाही मुकुट को सामने लाओ,
और उस प्रभुओं के प्रभु को मुकुट पहनाओ।

क्योंकि मैं मसीह पर, जो मजबूत चट्टान है, मैं खड़ा हूँ;
अन्य सारी भूमि धंसती हुई रेत हैं,
अन्य सारी भूमि धंसती हुई रेत हैं।

100 चाहे ये कलीसिया हो, चाहे ये मित्र हो, चाहे ये शत्रु हो, चाहे ये राष्ट्र हो, चाहे ये बहुतायत धन हो, चाहे ये गरीबी हो, चाहे ये अच्छा हो, या ये जो कुछ भी हो, अन्य सारी भूमि धंसती हुई रेत है! केवल यही एक चीज है, ये अतः चली जाएगी। लेकिन:

... मसीह, वो ठोस चट्टान, मैं खड़ा हूँ;
अन्य सभी भूमि धंसती हुई रेत है। (इसे मन में रखें।)

101 ध्यान दे! आइए हम लैव्यव्यवस्था 16 को देखें, और पीछे की ओर पढ़ें, अब बाईबल में पीछे की ओर बहुत पहले, लेवीय नियमों में, और लैव्यव्यवस्था—लैव्यव्यवस्था के 16वें अध्याय को यहाँ पर देखें। और 16वें अध्याय के 14वें पद से आरंभ करते हुए। ओह, मुझे—मुझे इन चीजों पर अपना समय को लेना अच्छा लगता है, इन्हें बाहर लाना। लैव्यव्यवस्था चौथा... या लैव्यव्यवस्था 16:14।

और तब वह बछड़े के लोहू में से कुछ ले कर इसे दया के आसन पर अपनी उंगली से छिड़के (दया के आसन पर! देखो, हम थोड़ी देर बाद इसमें से लेने जा रहे हैं।)... पूर्व की ओर; ...

102 उस शब्द को मत भूलना “पूर्व की ओर”! यीशु कहाँ से आ रहा है? पूर्व, महिमा के बादल में। एस-यू-एन सूरज कहाँ से उगता है? पूर्व से। एस-ओ-एन पुत्र कहाँ से ऊपर आएगा? पूर्व से। दया का आसन कहाँ रखा था? पूर्व की ओर। मैंने आप सभी को पूर्व की ओर इस तरह क्यों बैठाया है? क्यों? वेदी पूर्व की ओर होता है। हम इसे थोड़ी देर बाद देखेंगे, कितनी सुन्दरता से, मैं इसका चित्र बनाने जा रहा हूँ। मैंने बहुत से लोगों को कागज और इत्यादि लाने के लिए कहा, जिससे कि कुछ ही मिनटों में इन मानचित्र को उतारे। तो ठीक है:

... इसे छिड़कें... पूर्व की ओर; और दया के आसन के साम्हने वो छिड़के... उसकी उंगली से सात बार लहू को छिड़के।

103 ओह, क्या वह सुंदर नहीं है? “सात बार पूर्व की ओर।” यह क्या है? सात कलीसिया युग लहू के द्वारा ढंके हुए होंगे। हाल्लेलुय्या! यीशु मसीह का लहू उतना ही इस में पर्याप्त है, कल, आज और युगानुयुग, और हर एक युग के लिए, हर एक पापी को बचाने के लिए, हर एक बीमार को चंगा करने के लिए, हर एक अद्भुत काम के लिए, हर एक चिन्ह को पूरा करने के लिए। “सात बार,” पुराने नियम में मसीह के आने से बहुत पहले चौदह सौ नब्बे वर्ष पहले का समय। इस पर सोचे! चिन्ह, “सात बार... ”

फिर वह उस पापबलि के बकरे को... जो साधारण जनता के लिये होगा, बलिदान करके उसके लहू को... बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, ... अर्थात् उसको दया के आसन के ऊपर, और उसके साम्हने छिड़के।

और वो पवित्रस्थान के लिये प्रायश्चित्त करे, क्योंकि... वो...
और वह इस्त्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता, और
अपराधों, और उनके सब पापों के कारण; और मिलापवाला
तम्बू जो उनके संग उसके लिये भी वह वैसा ही करे, जो उनकी
भांति-भांति की उनकी अशुद्धता के—के बीच रहता है।

104 यह क्या था? “दया का आसन।” अब वे कहां पर हैं? और वहाँ सन्दूक के अंदर क्या था? वो नियम। और नियम, एक आज्ञा के उल्लंघन करने पर दया के बिना मरना था। लेकिन इसलिये कि तुम पर दया की जा सके, उस लहू को वेदी पर रखना था। वे दया के आसन पर छिड़कते थे। और दया का आसन वो वेदी है जहां आप घुटनो को टेकते हैं और दया के लिए मांगते हैं। परमेश्वर ना करे कि हम इसे कभी हमारी कलिसियाओ से ना हटाये, पुराने समय की वेदी जहां लोग घुटने टेक सकते थे और परमेश्वर से दया की पुकार कर सकते थे। और दया भरपूर होती है, और प्रभु यीशु के लहू से आजादी से बहती है। अब, यही वो दया भी है। यही दया का आसन है।

105 लेकिन आप यहाँ ध्यान दें, यह दया का आसन नहीं था, क्योंकि वहाँ “बिजलियां और गर्जन और आवाजें” थी। दया पर बिजलियां और गर्जनायें नहीं होती है। यह न्याय है।

106 आइए हम निर्गमन में जाये, निर्गमन के 19 अध्याय और 16वें पद को निकाले। निर्गमन, निर्गमन का 19वां अध्याय, और आइए हम 16वें पद से आरंभ करें:

और ये ऐसा हुआ...

सुनना क्या... जब परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतरा:

और ये ऐसा हुआ तीसरे दिन जब भोर हुई, बादल गरजने...
और बिजली चमकने लगी, और पर्वत पर काली घटा छा गई,
फिर तुरही का शब्द बड़ा हुआ; (तुरही की आवाज क्या है? ये
प्रधान दूत हैं।) और जितने लोग थे... (सुनना!)... जितने लोग...
छावनी में थे कांप उठे थे।

107 “न्याय!” व्यूह! वे वहाँ से निकल गए थे और परमेश्वर ने उन्हें वहां से होकर यात्रा करने के लिए अनुग्रह दिया था, लेकिन उन्होंने एक नियम की मांग की थी। वे... परमेश्वर उनसे चाहता था कि वे अंतरसंप्रदाय हों;

वे इसमें से एक संप्रदाय बनाना चाहते थे, कुछ तो ऐसा जिसके बारे में वे वाद-विवाद कर सके, बजाय इसके कि वे केवल परमेश्वर का अनुसरण करें और उसके अधिकार क्षेत्र के नीचे रहे, उसकी सामर्थ के नीचे रहे। अनुग्रह ने एक भविष्यव्यक्ता को प्रदान किया था, अनुग्रह ने एक प्रायश्चिता को प्रदान किया था (एक मेम्ना), अनुग्रह ने इन सारी चीजों को प्रदान किया था, और फिर भी उन्होंने न्याय को चाहा। वे कुछ ऐसा चाहते थे जिसे वे कर सकें।

108 परमेश्वर ने कहा, “उन्हें एक साथ एकत्र करो, मैं उन्हें बताऊंगा कि यह क्या है। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि यह क्या है।” समझना! सुनना! और तुरही की आवाज़ तेज और तेज होती जाती है जब तक ये धरती को हिला नहीं देती। आप देखो न्याय क्या होता है। मुझे यह नहीं चाहिए। मुझे दया दो!

109 [भाई फ्रेड सोथमैन कहते हैं, “भाई ब्रंहम? —सम्पा।] और... [भाई ब्रंहम? ”] हाँ? [“वो—वो अंतिम वचन क्या था जो आपने पढ़ा? ”] वह निर्गमन था, वो—वो—वो 19वां अध्याय और 16वां पद था, भाई फ्रेड। निर्गमन 19:16।

110 अब, 17वें पद पर ध्यान दें:

और तब मूसा लोगों को छावनी से निकाल ले गया ताकि... परमेश्वर से भेट करे; (ओह, प्रभु! मैं उससे शांति में मिलना चाहता हूँ, ना ही इस तरह।) और वे पहाड़ की निचले भाग की ओर खड़े हुए। (बहुत दूर।)

111 याद रखना, उस पर्वत के चारों ओर रेखाएँ खींची गई थीं। यहाँ तक यदि एक गाय उस पहाड़ को छू भी ले, तो उसे ठीक वहीं मरना था, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता। और परमेश्वर... “और मूसा ने लोगों को आगे लाया।”

112 अब, 18वाँ पद, अगला पद:

और इस कारण समस्त पर्वत... धुएँ से भर गया, क्योंकि यहोवा जो आग में हो कर इसमें उतरा... (बस धुआँ और भट्टी की तरह जल रहा था।)

113 वह किस में उतरा? ना ही उसकी तेजोमय महिमा में, लेकिन उसके न्याय के प्रकोप में।

... और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। (भाई, मैं वहाँ नहीं रहना चाहता!)

और जब तुरही की आवाज़ ज्यादा हो गयी, और बहुत बढ़ने लगी, और बढ़ने लगी, मूसा बोला, और परमेश्वर ने उसे एक आवाज़ के द्वारा उत्तर दिया। (मूसा बोला; ना ही लोग, वे कांप रहे थे।)

और—और यहोवा नीचे सीनय पर्वत के ऊपर उतरा, पर्वत की चोटी पर; और प्रभु ने मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया; और मूसा ऊपर गया।

और तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसें, और उन में से बहुत नाश हो जाएं।

114 [टेप पर खाली स्थान—सम्पा।] लोग कलीसिया में पीछे बैठते हैं और किसी को अन्य जुबान से बोलते हुए देखकर हंसते हैं, या आत्मा में नाचते हुए देख; खत्म, वो पवित्र आत्मा की निन्दा कर चूका, हमेशा के लिए छाप लग गयी! “जो कोई भी पवित्र आत्मा के विरुद्ध एक शब्द भी बोलता है उसे इस जगत में कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, न ही आने वाले जगत में।” इसे टकटकी लगाकर मत देखो! इससे दूर रहे या नहीं तो इसे स्वीकार करे!

115 बेहतर होगा कि हम उस वचन को छोड़ दें। इसका आगे का पढ़ें, इसके बाकी का, देखो परमेश्वर ने क्या कहा। और लोगों ने कहा, “ओह, मूसा, तुम बोलो। परमेश्वर अब और ना बोले! काश अब हमने इसके लिए नहीं कहा होता।” देखा? “मूसा, तू हम से बात कर। गर परमेश्वर बोलता हैं, हम सब मरेंगे।” देखो, परमेश्वर ने एक प्रायश्चिता को बनाया था।

116 अब, “सिंहासन की आवाज।” ध्यान देना इस सिंहासन में, “सिंहासन से सामने सात तारे थे,” तारों की आवाज। “आवाज़ें,” आप देखो। यहाँ प्रकाशितवाक्य 4 या 5 में और भी बहुत कुछ था, हम देखते हैं, “और सिंहासन से बिजलियां, गर्जनार्यें और आवाजे निकली।” ना ही एक आवाज; “आवाजें,” बहुवचन। ये क्या था? परमेश्वर कलीसिया से बात कर रहा हैं, सात आत्माओं के जरिये से खुद को प्रतिबिंबित कर रहा हैं। जब परमेश्वर का सच्चा अभिषिक्त बोलता है, तो वह परमेश्वर की आवाज

होती है! इसे अस्वीकार करना धुपदान को हटाना है। देखा? “आवाजें,” सात कलीसिया युगो की आवाज (यहां पर कोने में), गर्जना और बिजली के साथ बोलती हुई आवाजें।

117 इन दिनों में वे ऐसा कहते हैं, “तो ठीक है, हम पुलपीट पर ‘नरक’ कहने में विश्वास नहीं करते।” ओह, दया! बिल्कुल बेकार की बात! हम्म! हमें परमेश्वर के लोगों की आवश्यकता है, ऐसे पुरुष जो पीछे नहीं हटेंगे!

118 अब, हर कोई प्रचारक नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास एक आवाज है। और यदि आप लोगों को उपदेश नहीं दे सकते हैं... यदि आप एक प्रचारक हैं, तो आपको उपदेश देने के लिए पुलपीट में बुलाया जाता है। यदि आप नहीं हैं, तो भी आप एक प्रचारक हैं, लेकिन लोगों के लिए एक प्रचार के रूप में जीते हैं। अपने प्रचार को जीवित रहने दें, और यह परमेश्वर की आवाज है जो इसे अस्वीकार करने वालों को दोषी ठहरायेगी। वे कहते हैं, “कोई भी उस पुरुष के या स्त्री के जीवन पर उंगली नहीं उठा सकता। वे मधुर हैं, जी रहे हैं... वे... यदि कभी कोई परमेश्वर का मनुष्य रहा था, तो यही वो पुरुष है या वो स्त्री है।” देखो, अपने प्रचार को जीयें। यदि आपको प्रचारक बनने के लिए नहीं बुलाया गया है तो उन्हें प्रचार करने का प्रयास न करें; आप किसी भी तरह सबको मिश्रित कर देंगे, और गड़बड़ कर देंगे, और आप लोगों को उलझा देंगे, और आपको पता नहीं चलेगा... तो, आप—आप उन्हें और खुद को भी नष्ट कर देंगे। केवल अपने प्रचार को जीयें!

119 प्रचारक को उसके प्रचार को करने के लिए, और उसे जीने के लिए भी बुलाया गया है। यदि आप इसे नहीं जी सकते हैं, तो आप इसका प्रचार करना बंद कर दें। लेकिन आपको अपने उपदेशों को जीना चाहिए।

120 तो ठीक है, यहाँ “आवाजें” थी। ओह, हमें किस तरह से जेफरसनविले में हजारों जीवित आवाजों की आवश्यकता है, मधुरता और पवित्रता, शुद्धता, निर्मल जीवन में परमेश्वर की गर्जना गर्जनाओ को करते हुए, बिना किसी दोष के आज धरती पर यहाँ वहाँ चलते हुए। जी हाँ, श्रीमान, सच्चे मसीही, यही शत्रु के विरुद्ध गर्जन है। शैतान इसकी परवाह नहीं करता कि आप कितनी जोर से चिल्ला सकते हो; शैतान परवाह नहीं करता कि आप कितना कूद सकते हैं या आप कितना ये कर सकते हैं या चिल्ला सकते हैं। लेकिन शैतान को पवित्र, निर्दोष जीवन जो परमेश्वर के प्रति समर्पित

है, इसे देखकर उसे तकलीफ होती है; उसे कुछ भी कहो, उसे कुछ भी बुलाये, बस जितना मधुर हो सकता है वो होता है और आगे बढ़ जाता है। ओह, प्रभु! वह उसे दूर फेंक देता है, यही वो गर्जन है जो शैतान को हिला देती है।

121 बिलकुल जैसे, “तो ठीक है,” आप कहते हैं, “क्या वो बिली ग्राहम या ओरल रॉबर्ट्स की तरह प्रचार कर सकता है, या कोई तो, एक महान प्रभावशाली बोलने वाला, वह हो... ” ओह, नहीं! कभी-कभी शैतान बस उस पर हंसता है। वह उस पर उसके बाद कुछ भी ज्यादा ध्यान नहीं देता है। आप सभी धर्मज्ञान—धर्मज्ञान को प्राप्त करते हैं जो आप चाहते थे और सभी धर्म विद्यालय के प्रशिक्षण को लेते हैं, और शैतान बस पीछे बैठ कर और उस पर हंसता है। लेकिन जब वो उस जीवन को देखता है!

122 वहाँ पर उन चेलों की ओर देखे, उस पागल बालक को जो उस दिन मिर्गी के साथ था, और वे कह रहे थे, “उसमें से बाहर आ, शैतान! उसमें से बाहर आ, शैतान! उसमें से बाहर आ, शैतान!”

123 वहाँ बैठे हुए शैतान ने कहा, “अब, क्या तुम अपने आप को बहुत अधिक लज्जित नहीं कर रहे हो? अब, तुमने देखा कि तुम क्या कर रहे हो? यीशु ने तुम से कहा था, उस ने तुम्हें आज्ञा दी, कि मुझे बाहर निकालो। तुम में से कोई एक भी नहीं कर सकता।”

124 लेकिन, भाई, जब वे उसे आते देखते हैं, वो एक चुपचाप चलता हुआ आता है। हूं-हूं। ओह, परमेश्वर! उसे कुछ भी नहीं कहना था। ठीक तभी वो शैतान पहले से ही डरा हुआ था। वो जानता था कि उसे ठीक तभी छोड़कर जाना था, सही है, क्योंकि वहाँ पर एक जीवन आ गया; न केवल एक उपदेश, लेकिन एक जीवन। कहा, “उसमें से बाहर आ।” ओह, प्रभु! इसने इसे किया! चुपचाप से; वह जानता था कि वह किस विषय में बात कर रहा था, वह जानता था कि वह क्या कर रहा था।

125 अब, “आवाज़ें,” सात तुरहियों की आवाज़ें, वे सात तारे, सात संदेशवाहको की आवाज़ें थीं। लेकिन अब यहां देखना:

... और... सात दीवट... सिंहासन के साम्हने, ये परमेश्वर की सात आत्माएं हैं।

126 “सात दीवट।” आइए यहां थोड़ा सा चित्र बनाएं, सिंहासन, पवित्र स्थान, सभा के लोग। और ठीक यहाँ (एक, दो, तीन, चार, पांच, छह,

सात) सात तारे, सात दीवट, सात संदेशवाहक, सात आत्माएं थीं; पूरी तरह से इसका अर्थ नहीं है कि परमेश्वर सात आत्माओं में है, लेकिन "एक ही पवित्र आत्मा के सात प्रकटीकरण।"

127 पवित्र आत्मा कहाँ है? यहाँ सिंहासन पर, हर एक कलीसिया युग में से चमकते हुए। इस कलीसिया का युग वापस इस प्रकार से प्रतिबिम्बित कर रहा है, परमेश्वर की आवाजों को, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। देखो, सात, वहाँ "आवाजें" थी। "और सात दीवटो पर आग थी," सात आत्माएं, "जो परमेश्वर की सात आत्माएं हैं।"

128 याद है दो रविवार पहले, हमने इसे लिया था, वो बड़ा हीरा? लेकिन इसे कई अलग-अलग तरीकों से काटा जाता है जिससे कि ये प्रतिबिम्बित करें और इसमें से प्रकाश निकले। इसी तरह से, "यीशु मसीह परमेश्वर की सृष्टी का आरंभ होना है," प्रकाशितवाक्य 1। क्या यह सही है? तब परमेश्वर की सृष्टी कब हुई थी? वो परमेश्वर की सृष्टी का आरंभ है। और परमेश्वर अनंत है। क्या यह सही है? लेकिन जब परमेश्वर की सृष्टी हुई थी... जब एक छोटा बालक जो एक माँ की गर्भ में गर्भधारण हुआ था, एक कुंवारी के। और वो इस छोटे से बालक को जन्म देने के लिए अपने भीतर इन कोशिकाओं को विकसित करना आरंभ करती है, यह परमेश्वर की सृष्टी का आरम्भ था, "क्योंकि परमेश्वर देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया, और इम्मानुएल बन गया, 'परमेश्वर हमारे साथ,' परमेश्वर की सृष्टी का आरम्भ।"

129 फिर उस महान रत्न में जो मिट्टी से आता है... क्योंकि वह मिट्टी से बना था। क्या यह सही है? वह खाना खाता है जैसे मैं खाता हूँ, वह खाना खाता है जैसे आप खाते हैं। जो कि, शरीर की मिट्टी, वो कैल्शियम, पोटैश, पेट्रोलियम, लौकिक प्रकाश बन जाता है, लेकिन उसमें अनंत प्रकाश ने वास किया। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्ञानी पुरुषो ने तारे से कहा, "अपने सिद्ध प्रकाश की ओर हमारा मार्गदर्शन कर।"

130 वे बस एक सिद्ध प्रकाश के प्रकाश को प्रतिबिम्बित कर रहे थे। और वहाँ वह था, परमेश्वर का सिद्ध प्रकाश, परमेश्वर की सृष्टि का आरम्भ। अब, वहाँ वो था...

131 ज्ञानी पुरुषों के उसे आकाश में देखने के बाद, वह धरती के उसके तारों को वापस कैसे प्रतिबिम्बित कर सका था, और वे यहाँ धरती पर सेवकाई

करने वाली आत्मायें बन गये? “वो हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ (बड़ा हीरा, काटा गया), हमारे अधर्म के लिए कुचला गया था, उस पर हमारी शान्ति के लिए ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए।” यह क्या कर रहा था? प्रतिबिंबित!

132 कोई भी मनुष्य जो परमेश्वर का सेवक होने का दावा करता है, जो दिव्य चंगाई और उसकी सामर्थ का इनकार करता है, उसे उस हीरे से उसका प्रकाश नहीं मिल रहा है, उस सिंहासन से उसका प्रकाश नहीं मिल रहा है। क्योंकि यह उसे कल, आज, और युगानुयुग के लिए प्रतिबिंबित करता है उन सात तारों और सात कलीसिया के युगों में से होते हुए।

133 ओह, परमेश्वर की स्तुति हो! मान लो कि ये एक सेवक के लिए पुलपीट से परमेश्वर की आराधना करना उचित है, धन्यवाद देते हुए और स्तुति और आदर और शक्ति के साथ। ओह, कितना वास्तविक, यह मेरे प्राण को उत्तेजित कर देता है इतना तक मैं महसूस करता हूँ जैसे कि मैं चिल्ला सकता हूँ, और दौड़ सकता हूँ और जितना ऊंचा उछल सकता हूँ उतना उछलूँ, क्योंकि मेरे अंदर कुछ तो है जिसने जो मैं था उसमें से बदल दिया है। मैं वह नहीं हूँ जो मुझे होना चाहिए, और वह नहीं जो मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं उससे बदल गया हूँ जो मैं हुआ करता था। कुछ तो हुआ है, कुछ तो बात ने जगह ली है!

134 और यहाँ खड़े होकर और इस अनंत वचन को देखें यही है जो हर एक तूफान को हिलाता है! जब उन्होंने बाईबल जलाने की कोशिश की और इत्यादि, इसने ठीक बस उसी तरह से हिला दिया, क्योंकि इसने कहा, “आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन न टलेगा।”

135 अब यहाँ शिकागो के पास, और एक—एक बाईबल कलीसिया के पुलपीट रखी हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध से बहुत पहले की बात है, ये एक मिशनरी के पास बाईबल थी और एक मनुष्य परिवर्तित हुआ था, और वह उस मिशनरी को अपनी बाईबल देना चाहता था, पर उसने कहा, “मैं आपको यह नहीं दे सकता, मेरी माँ ने मुझे इसे दिया था।” कहा, “मैं, जब मैं घर पहुंचूंगा, तो मैं आपको एक बाईबल भेजूंगा।”

136 वह वापस समुद्र के पार जाने लगा और एक जर्मन पनडुब्बी संचालक ने उस—उस जहाज को उड़ा दिया। उन्हें इसका एक टुकड़ा कभी नहीं मिला। और दो वर्ष के बाद, दूर तट पर की ओर, उन्होंने एक बक्से को तैरते

हुए देखा। उनमें से कुछ ने सोचा कि यह कुछ ऐसा हो सकता है जो डूब गया हो, तब उन्होंने उस बक्से को बाहर निकाला और उसे खोला, और दो लोगो ने साथ-साथ चलते हुए। और वहां, इसकी केवल एक चीज बची थी, वह थी वह बाईबल जिसे वो मिशनरी को वापस भेज रहा था। यह आज शिकागो के पास एक मेथोडिस्ट कलीसिया में एक पुलपीट पर रखी हुई है। “आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन न टलेगा।”

137 यहां 1937 में बाढ़ के समय के दौरान, इस छोटी सी पुरानी कलीसिया में, जब मिट्टी का फर्श और इत्यादि जो उसमें था, हम यहां इस एक—एक नाव के ऊपर चढ़ पाए। बाढ़ ऊपर बढ़ने लगी। और, ठीक है, उस रात जब मैंने सुसमाचार का प्रचार किया था और अपनी बाईबल को पुलपीट पर खुला छोड़ दिया था जब मैं घर गया था; भविष्यवाणी कर रहा था कि बाढ़ आएगी, मैंने कहा, “मैंने उसे यहाँ नीचे देखा स्प्रिंग मार्ग पर बाईस फुट की माप पर था।”

138 बुजुर्ग भाई जिम वाइसहार्ट और वे मुझ पर हँसे। आपको यह याद है, भाई जॉर्ज? मैंने कहा.... उसने—उसने कहा, “ओह, बिली, 84 में स्प्रिंग मार्ग पर ये केवल लगभग छह इंच था।”

139 मैंने कहा, “मैंने एक मनुष्य को आकाश से उतरते देखा, और एक नाप की छड़ को लेकर और उसे स्प्रिंग मार्ग पर बाईस फुट पर चिपका दिया और कहा बाईस फुट।”

उसने कहा, “आप बस उत्तेजित हो गए हैं।”

मैंने कहा, “मैं उत्तेजित नहीं हूँ! **यहोवा यों कहता है!**”

140 उनसे पूछें कि स्प्रिंग मार्ग के ऊपर कितना फुट था। बाईस फुट के उस—उस इंच तक! बिल्कुल।

141 और वो पुरानी बाईबल जहां उस रात प्रचार किया गया था... उसने बारिश को आरंभ किया, बाढ़ और ऊपर बढ़ने लगी थी, और यह पुरानी कलीसिया... कुर्सियां सीधे छत तक चली गयी थीं, बाईबल सीधे छत तक गयी थी, उस सारा पानी इसे यहाँ से साफ़ करते हुए जो इसे ऊपर उठा रहा था। पुलपीट सीधा ऊपर चला गया। बाद में वे सीधे नीचे आ गये; और हर एक कुर्सी ठीक उसी स्थान पर वापस आ गयी और बाईबल ठीक उसी स्थान पर वापस रखी हुई थी, और वो सारा पानी था, और फिर भी बाईबल खुली हुई थी, वही अध्याय उसी स्थान पर।

142 “आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा।”

143 कैसे वह बाईबल उस खारे पानी में दो वर्ष तक तैरती रही, यहाँ तक कि उस पर के शब्द भी खराब नहीं हुए थे! परमेश्वर के वचन सत्य हैं। आमीन।

144 मुझे याद है उसके बाद, बुजुर्ग भाई जिम वाइसहार्ट इससे बहुत संतुष्ट हुए थे, हर बार उनकी बांह में दर्द होता है... उनके साथ किसी तरह का कुछ तो गलत हुआ जब वे लगभग पचहत्तर वर्ष के हुए, तो उन्हें गठिया रोग हो गया। दर्द यहाँ पर उन्हें तकलीफ देने लगता, वह दौड़ कर बाईबल को लेते, और इसे खोलते, वहाँ पर रख देते, यहाँ एक और दर्द होता। मैं एक दिन वहाँ गया और उनके ऊपर बहुत सारी बाईबल रखी हुई थी कि मैं भाई जिम को नहीं देख सकता था, उनके ऊपर बस बहुत सी बाईबल रखी हुई थी! उसने कहा, “यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है!” बस ऐसा ही है।

145 “आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी न टलेगा।”

146 याद रखना वो बुजुर्ग व्यक्ति अक्सर मुझसे मिलने आया करता था। और उसके लोगों में से कोई भी यहाँ नहीं है, मैं नहीं सोचता। और मैं साथ ही अक्सर उसकी थोड़ी मदद किया करता था, क्योंकि वे बुजुर्ग थे और उन्हें पैसे की आवश्यकता थी और वह वहाँ आते थे। उसने कहा... एक दिन मैं केनडा के लिए निकल रहा था, पीछे मुड़ा, बस गेट से बाहर निकला, और उसने कहा, “बिली, मेरे बेटे, इन दिनों में से एक दिन तुम वापस आओगे और बूढ़े अंकल जिम अब इस सड़क पर यहाँ-वहाँ अब और पैर घसीटता हुआ नहीं होगा।” यह आखिरी बार था। जब मैं केनडा में था, मुझे एक टेलीग्राम मिला; वो ठीक वहीं बहन मार्गन के हाथों में ही चल बसे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, और वे उन्हें जल्दी से अस्पताल ले गए, उनकी ओर देखा और उनकी मृत्यु हो गई।

147 बहन मार्गी, क्या वो आज सुबह यहाँ पर हैं? वह अक्सर अंदर होती है। आप सभी जानते हैं। कैंसर के बड़े मामलों में से एक जहाँ बैपटिस्ट अस्पताल में वह सत्रह वर्ष से मर चुकी थी, वहाँ पर मेडिकल क्लिनिक जो वहाँ के रिकॉर्ड पर है, “कैंसर से मरती हुई,” सत्रह वर्ष पहले। वह 412 नॉब्लोच एवेन्यू में रहती हैं, यहाँ के अस्पताल में नर्स का काम करती हैं। ओह, अद्भुत अनुग्रह, कितना मधुर सा लगता है!

148 लुइसविले में एक वकील है जिम टॉम रॉबर्टसन, और हम सभी जिम टॉम को जानते हैं। यही है जो उसे इस संदेश में विश्वास करने के लिए लेकर आया, वह वहां पर गया। और उसके पिता अस्पताल में उन कर्मचारियों के प्रमुखों में से एक हैं। उसने वहां पर जाकर और इसे ढूंढा, ये देखने के लिए कि क्या यह सच है कि वह कैंसर से मर रही थी, और उसे छोड़ दिया गया था और घर भेज दिया गया, और सोचा जहाँ तक वे जानते थे कि वह मर चुकी थी। और उसके पिता ने इसके बारे में पता लगाया, और यह सच है। और जिम टॉम ने कहा, “यह झूठ है; वह ठीक अभी यहाँ बैठी हुई है, मैं आपको उसके पास ले जा सकता हूँ।”

149 ओह, ओह, वो—वो एक सच्चा परमेश्वर है, क्या वो नहीं है? मैं बहुत खुश हूँ कि वह हमारी गलतियों को देख सकता है, क्या आप खुश नहीं है? हमें हमारे पूरे हृदय से उससे प्रेम करने को लगाता है।

150 सिंहासन, बिजलियां... क्या? “सात दीवट,” या दीवट, या सात तारे, जिन्हें “सात आत्माएं,” कहा जाता है, इसका अर्थ वो—... पवित्र आत्मा के सात प्रकटीकरण जो लोगों के लिए दया के आसन पर सात कलिसिया युग है। यहाँ ये हैं: दया के सात आसन, सात आसन, सात कलिसियायें, सात तारे, सात प्रगटीकरण, सात आत्मायें, सात दीवट। ओह, प्रभु, परमेश्वर कितना सिद्ध है! हर एक...

151 बाईबल के अंकों में वहाँ रखा हुआ है; बाईबल के अंक धरती पर सबसे उत्तम चीज है। आप उत्पत्ति से प्रकाशितवाक्य तक, बाईबल के अंकों में एक भी दोष नहीं पा सकते। ना ही साहित्य का दूसरा टुकड़ा लिखा गया है कि आप एक दोष पा नहीं पा सकते हैं इससे पहले तीन पदों को पढ़े; लेकिन ना ही बाई—...

152 वे दो सौ से भी अधिक वर्षों से प्रभु की प्रार्थना में एक वाक्य को जोड़ने, या उसमें से एक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिद्ध है! अब और ना ही जोड़ सकते हैं या इसमें से अब और ना ही निकाल सकते हैं। वे सोच रहे थे कि वे प्रार्थना को थोड़ा सा बेहतर बनायेंगे। वे इसे इसमें मिलाने की कोशिश करेंगे, और इसे इसमें डालेंगे, या इसे इसमें से निकालेंगे; यह बस ठीक नहीं है। देखो, ये तो सिद्ध है! परमेश्वर के सारे मार्ग सिद्ध हैं।

153 इसलिए हम असिद्ध हैं, लेकिन उसने कहा “इसलिए तुम वैसे ही सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है।” हम कैसे सिद्ध बन सकते हैं? यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, कि हमारे अपने आप को भूल कर और केवल उसी में जीये। आप यहां हो। ये कितना बहुमूल्य है!

154 तो ठीक है, 6वा पद अब यदि हम इसमें जाए। “सात दीवट।”

और उस सिंहासन के साम्हने... मानो बिल्वौर के समान कांच का सा समुद्र है; और सिंहासन के बीच में, और सिंहासन के चारों ओर चार प्राणी हैं, जिन के आगे पीछे आंखे ही आंखे हैं। (ओह, प्रभु! इसे देखना!)... प्राणी हैं जिनकी आंखे ही आंखे हैं—आंखे ही आंखे हैं, आगे और पी—... (अब, रुकना।)... सिंहासन के साम्हने... मानो बिल्वौर के समान कांच का सा समुद्र है: और सिंहासन के बीच में, चार... और सिंहासन के चारों ओर... चार प्राणी हैं, जिन के आगे पीछे आंखे ही आंखे हैं।

155 अब “कांच का सा समुद्र।” आप जो... मैं... इसका यहाँ बहुत अधिक प्रतिरूप नहीं है, लेकिन मैं इसे एक मिनट के लिए मिटाना चाहता हूँ। अब, अब हम यहाँ थोड़ा सा अध्ययन करना चाहते हैं। पुराने मंदिर में कांच के समुद्र का प्रतिरूप है, क्योंकि मूसा को धरती पर मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर से आज्ञा मिली थी जैसे उसने इसे स्वर्ग में देखा था। हर एक जन यह जानता है। तो ठीक है।

156 और अब मैं बस थोड़ा सा चित्र यह कहते हुए बनाता हूँ, कि यहाँ पुराने नियम में यह सन्दूक था, तो ठीक है, अगली बात, जिसे “परम पवित्र स्थान” कहा जाता था। और यहाँ अगला स्थान वेदी थी, जो “पवित्र स्थान” कहलाती थी। और ठीक पहले यहाँ इसे “पीतल का समुद्र,” कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसा स्थान था जहाँ बलिदान... बलिदानो को धोया जाता था—यहाँ धोया जाता था इससे पहले कि उन्हें गया था... वेदी पर; पीतल की वेदी पर या पीतल के समान वेदी पर जहां बलिदान को जलाया जाता था।

157 अब, हम इसे अभी देखना चाहते हैं ये कहाँ... यह कहाँ पर था। और अब—अब, इस कांच के समुद्र में... जो सिंहासन के साम्हने और पवित्र स्थान के साम्हने था। बस... अब याद रखना, सात सुनहरे धुपदान यहाँ इस तरह से रखे हुए हैं, और एक हौद में आता है। समझे? अब, यही वो एक

है जो पवित्र स्थान से यहाँ पर प्रकाश को चमकाता है। अब, यदि आप... नहीं, आपको इसे तब तक लिखने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि आप बस ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन यह... मेरे पास यहां कुछ और भी है, मैंने खुद चित्रित किया है, जिसे मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। लेकिन अब, आप देखो, यह पीतल का समुद्र कहलाता है; यह बहुत बड़ा नहीं था, इसे मंदिर में लगभग उपयुक्त स्थान में स्थापित किया गया था। यह यहाँ लगभग इस तरह से स्थापित किया गया था, जो पीतल का समुद्र था, ये पीतल में से बना हौद था, जिस में वे बलिदानों को धोते थे। बलिदानों को जलाने या स्वीकार करने से पहले, उन्हें धोना पड़ता था।

158 ओह, क्या ये ठीक अभी एक उपदेश नहीं को नहीं बनाता, डॉक्टर। ओह, प्रभु! क्या यह बस—क्या यह बस नहीं... ये मुझे अभी ताजा मिला, “उन्हें धोया जाता है।” कोई भी बलिदान परमेश्वर के लिए स्वीकार करने से पहले, उसे पहले धोया जाना है। कैसे? ना ही भावनात्मक रूप से, लेकिन वचन के द्वारा धोया जाता है। अब, हम पीछे जाकर और इसे लें सकते हैं जहाँ यह यहूदी रब्बी को... जब मैं अलगाव के जल के उस उपदेश का प्रचार कर रहा था, लाल बछड़ा, जो जल रखा हुआ था, जिसे उन्होंने अलगाव का जल बनाया था। और इससे पहले कि हम कभी भी सच्चे विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आ सकें, हमें सबसे पहले अलगाव के जल में से होकर आना होगा। जी हां, श्रीमान। आपको किस में से होकर आना है? वचन!

159 ओह, मैं अब देखूंगा कि क्या मैं बस ऐसे बात कर सकता हूँ कि आप... हर एक जन इसे पकड़ ले। अब, अपने आत्मिक विचार को पहन ले। युद्ध के टोप को उतार दे और अब अपने आत्मिक विचार को पहन ले, क्योंकि यहाँ कुछ तो आ रहा है। “वेदी पर ग्रहण करने से पहले धोया जाता है,” इसे पहले अवश्य ही अलगाव के जल के द्वारा धोया जाना है।

160 अब, मेरे साथ जल्दी से इफिसियों 5 को निकाले, बस अपनी जगह बने रहे और पीछे की ओर पलटे, बस कुछ पन्ने पीछे, इफिसियों के 5वे अध्याय की ओर और 26वां पद:

कि वो उसे शुद्ध और पवित्र बना सके... (कलीसिया, वो इसके विषय बोल रहा है।)

161 देखिए, अब, मैं उससे कुछ थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आप लगभग पीछे 21वें पद में वापस जाएं, जब आप देखते हैं:

परमेश्वर के भय में अपने आप को एक दूसरे के अधीन कर दो।

162 “अपने आप को अधीन करें।” सभा के लोगों, अपने आप को अपने पास्टर के अधीन कर दो। पास्टर, अपने आप को अपनी सभा के लोगों को अधीन कर दो। यदि एक छोटा गुट उठ खड़ा होता है, तो दोनों ओर ना रहे, अपने आप को सारी सभा के लोगों के अधीन कर दो। सभा के लोग, यदि आप एक गुट को आरंभ करते हैं, तो परमेश्वर के भय में अपने आप को अपने पास्टर के अधीन कर दें। समझे? ओह, भाई! हम्म!

*हे पत्नियों, अपने आप को अपने पति के ऐसे आधीन करो,
जैसे प्रभु के, (क्योंकि वो तुम्हारा स्वामी है।)*

163 आप महिलाओं में कितने लोग यह जानते हैं? यह बिल्कुल सही है। बाईबल आरम्भ में ऐसा कहती है। यह अभी भी उसी तरह से है।

*हे पत्नियों, अपने आप को अपने पति के ऐसे आधीन करो,
जैसे प्रभु के।*

*क्योंकि पति पत्नी का सिर है यहाँ तक जैसे कि मसीह
कलीसिया का सिर है: और आप ही देह का उद्धारकर्ता है।*

164 वैसे ही पति है। आप सभी यह जानते हैं, आप जो विवाहित लोग और वयस्क लोग हैं, या बच्चे जो जीवन के तरीके को जानने के लिए पर्याप्त उम्र के हैं। तो ठीक है।

... जैसे प्रभु के।

*क्योंकि पति पत्नी का सिर है यहाँ तक जैसे कि मसीह
कलीसिया का सिर है: और आप ही देह का उद्धारकर्ता है।*

*पर जैसे कलीसिया मसीह के आधीन है, वैसे ही पत्नियां भी
हर बात में अपने अपने पति के आधीन रहें।*

*हे पतियों अपनी-अपनी पत्नियों से प्रेम रखो जैसा मसीह ने
भी कलीसिया से प्रेम करके, और अपने आप को उसके लिए दे
दिया; (उसके ऊपर रोब ना जमाये! यदि आप ऐसा करते हैं, तो
आप पति होने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यह सही है!)*

जिससे कि वह...

सुनना, यहाँ है ये! अब इसे पकड़ना:

जिससे कि वो उसे शुद्ध और पवित्र बनाए, किसके जल के स्नान के द्वारा... [सभा कहती है, "वचन के।" —सम्पा।] हम्म!

165 तब, हर एक आराधना करने वाला जो कभी भी इस तक पहुँच को पाता है, उसे वचन के द्वारा आना होता है। नहीं तो वहाँ बहुत से आते हैं। मैं छोटी-छोटी कहानियों और बातों में विश्वास करता हूँ, इस विषय में कि "माँ बहुत वर्ष पहले मर गई और वह स्वर्ग में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है," यह सब तब अच्छा लगता है जब वचन को लागू किया जाता है। बहुत से लोग वेदी पर इसलिए आते हैं क्योंकि वे अपनी माँ से स्वर्ग में मिलना चाहते हैं। यह सब ठीक है, आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन यह वो वजह नहीं है कि आप वेदी पर आये। आप अपने पापों को अंगीकार करते हुए वेदी पर आये क्योंकि मसीह आपके स्थान पर मरा, वचन के द्वारा!

166 फिर, कोई भी बलिदान जो वचन के अनुसार नहीं आता है, तब इसे अस्वीकार्य किया जाता है। क्या यह सही है? (ओह, भाई, मैं इसे कहना पसंद नहीं करता हूँ। ओह, मुझे यह कहने से घृणा है। मुझे इसे कहने के लिए क्षमा करें।) यही कारण है कि प्रेरितों के काम 19 बाईबल में है, "क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया जब से तुमने विश्वास किया?"

उन्होंने कहा, "हम... नहीं कि क्या वहाँ है या नहीं..."

कहा, "फिर, तुम्हारा कैसे बपतिस्मा हुआ था? तुमने यहाँ क्यों नहीं मिला?"

167 वे वचन को छोड़ किसी और तरीके से आये थे! कहा, "ओह, हम उस विधि से होकर गये हैं, हमने बपतिस्मा लिया था... यूहन्ना का।"

उसने कहा, "यह काम नहीं करेगा। यूहन्ना ने केवल मन फिराव के निमित्त बपतिस्मा किया, पापों की क्षमा के लिए नहीं।"

168 और जब उन्होंने यह सुना, तो उन्होंने फिर से बपतिस्मा लिया था। क्यों? वचन के द्वारा! "वचन के जल से धोये गए।" वचन ने कहा, "यीशु मसीह के नाम में।" कोई भी चीज़ जो उस पर किसी और चीज़ को थोपती है यह गलत है!

169 अब, मेरे बहुमूल्य भाई, मैं जानता हूँ कि यह टेप भी हो रहा है। अब, उत्तेजित मत हो जाना। मैं इसे ईश्वरीय प्रेम के साथ कहूँगा, वह घड़ी आ

पहुंची है जहाँ मैं इन चीजों पर और अधिक रोके नहीं रख सकता, आगमन के बहुत नजदीक है। समझे? “त्रिएकतावाद शैतान का है!” मैं इसे कहता हूँ **यहोवा यों कहता है!** देखो यह कहाँ से आया है। यह निसियन परिषद से आया है जब कैथोलिक कलीसिया का शासन काल बन गया था। वो शब्द “त्रिएकता” यहाँ तक बाईबल की पूरी किताब में इसका उल्लेख भी नहीं है। और जहाँ तक *तीन* परमेश्वरो की बात है, यह नरक से है। एक ही परमेश्वर है। यह बिल्कुल सही है।

170 अब, फिर क्या आप कहते हैं, “क्या आप यह विश्वास करते हैं कि ये सभी लोग जो—जो त्रिएकतावादी है वे नरक से हैं?” नहीं, श्रीमान। मैं विश्वास करता हूँ कि वे मसीही हैं। लेकिन वो समय आ रहा है, भाई, जहाँ वे सचमुच से गलत हैं।

171 कोई भी मनुष्य, कहीं भी, कभी भी, जो इस विषय पर बात करना चाहता है, मेरे पास आये; कोई भी सेवक, बिशप, आर्कबिशप, चाहे आप कोई भी हों। और इसे टेप किया गया है, ये दुनिया भर में जाएगा। मैं भाईचारे के प्रेम में निमंत्रण देता हूँ, दुनिया भर में किसी भी व्यक्ति के लिए जो मुझे इस टेप पर सुनता है, वह मेरे पास आए और मुझे किसी भी एक वचन के लेख या किस भी इतिहास में से एक परिच्छेद को दिखाए (उसमें से जो प्रामाणिक इतिहास है) जहाँ किसी भी व्यक्ति को कभी भी “पिता, पुत्र, और पवित्र आत्मा” के नाम से बपतिस्मा दिया गया था जब तक वे कैथोलिक कलसिया के साथ संगठित नहीं हुए थे, तो मैं अपने सिद्धांत को बदल दूंगा। हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया था! और मेरे बहुमूल्य भाइयों, आपकी आंखें इन बातों के लिए अन्धी हो गयी हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको उजियाला दे!

172 अब, यदि आपके पास इसका समर्थन करने के लिए वचन है, तो मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ या आपके फोन को सुनने के लिए रुका हुआ हूँ। आप हो... आप... इस टेप के बाद, यदि आप मुझे उस पर चुनौती नहीं देते हैं, तो आप जानबूझकर आत्मिक अज्ञानता में चल रहे हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रकाश क्या है और अंधकार क्या है, तो आइए परमेश्वर से पूछें। याद रखना, मैं कहता हूँ कि **यहोवा यों कहता है!** यदि आप मुझे उसका सेवक होने का विश्वास करते हैं... और यदि यह वचन के अनुसार नहीं होता था, तो यह गलत होता। फिर यदि यह वचन के अनुसार नहीं है,

तो यह आपका कर्तव्य है कि आप मुझे ठीक करें, उह-हुह, देखे कि क्या होता है। उह-हुह। यह एक गलती है!

173 मेरा मानना है कि तीन परमेश्वरो में विश्वास करने वाले हजारों त्रिएकतावादी लोग बचाए गए हैं, क्योंकि वे कुछ भी अंतर नहीं जानते। हम संदेश में उस पर आगे ले लेंगे।

174 अब, आप सभी अपने टेप को बंद करके और भवन से बाहर नहीं चले जाना, आप त्रिएकतावादी भाईयों; इसे सुनना। लेकिन आप बस कुछ ही मिनट के लिए शांत बैठें। आपको इसे अपने आप के लिए लेना है। आपको इसे अपने सभा के लोगो के लिए देना है। समझे? इसे टेप में लेना बंद न करें, बस इसके साथ बने रहें। इसे शब्द दर शब्द पता लगाये और देखें कि क्या यह सही है। बाईबल ने कहा, “सारी बातों को साबित करो।”

175 मैं जानता हूँ कि यह लोकप्रिय नहीं है, ऐसा ही यीशु था, ऐसा ही हमेशा संदेश रहा है। आपने मुझे प्रेम किया जब मैंने आकर और आप लोगों में से बीमारों और पीड़ित लोगों को चंगा किया। आपने सोचा था कि यह बहुत ही बहुत ही भीड़ थी और कलीसिया का निर्माण हुआ। अब, यीशु ने वही काम किया जब तक कि एक दिन वो सत्य की ओर नहीं उतरा। और जब उसने ऐसा किया, तो यहाँ तक सत्तर लोगों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। और वह बाकी के बारह की ओर फिरा, और कहा, “तुम भी जाओगे?”

और पतरस ने उन याद रखने वाले शब्द कहे, “प्रभु, हम किसके पास जाये, क्योंकि अनंतता के वचन केवल तेरे पास ही हैं?”

176 और केवल परमेश्वर का वचन ही अनंत है! और मुझे कहीं भी ढूँढकर कर बताओ कि परमेश्वर ने कभी किसी को “पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा,” के नाम से बपतिस्मा दिया था।

177 आप मत्ती 28:19 को जायें, “पिता, पुत्र, और पवित्र आत्मा,” जहाँ मत्ती ने कहा, “इसलिए तुम जाओ, और सारे राष्ट्रों को शिक्षा दो, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो”? और कोई भी यह सोचता है कि “पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा” एक नाम है, तो यह दर्शाता है कि उनकी शिक्षा में कुछ तो गलत है। (अब, सातवीं कक्षा के छात्र के लिए इसे उन बिशप लोगों से कहना जो इसे सुन रहे हैं।) *पिता* कोई नाम नहीं है, *पुत्र* कोई नाम नहीं है, और *पवित्र आत्मा* कोई नाम नहीं है। वे तो

शीर्षक हैं जो (पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा) के नाम पर जाते हैं, जो कि यीशु मसीह है।

178 याद रखें, यह क्रोध में नहीं कह रहा हूँ, यह प्रेम और ईश्वरीय आदर में कहता हूँ, मसीह के पूरी देह के लिए प्रेम और सोच-विचार के साथ जहां मुझे मेरे त्रिकतावाद के भाइयों के द्वारा आमंत्रित किया गया है (और पूरी दुनिया में) कि आकर और उनके सभा के लोगों को प्रचार करूं। लेकिन जब मैं आपके बीच होता हूँ तो मैं इसका कभी भी उल्लेख नहीं करता। मैं चाहता हूँ... जब तक आप मुझसे खुद नहीं पूछेंगे, और मैं आपके साथ पास्टर के कक्ष में जाकर और आपके साथ इस बारे में बात करूंगा। लेकिन आपके सभा के साम्हने, यह उन्हें हिला देगा। प्रकाशन को लेकर और अपने झुंड को सिखाने के लिए ये आपका स्थान है, आप झुंड के चरवाहे हैं। मैं सेवकों से बात कर रहा हूँ। यदि आपको नहीं समझता है तो आओ, हम बैठकर और एक साथ सोच-विचार करें। बाईबल ने कहा, "सारी बातों को साबित करो, और जो लाभ की है उसे पकड़े रहे।"

179 "कांच का समुंद्र," जहां बलिदान धोया जाता था... और हम धोए जाते हैं... ओह, इसे मत भूलना, हम थोड़ी देर बाद उस पर वापस आ रहे हैं, "वचन के जल से धोया गया।" तब आपको वचन सुनना होगा इससे पहले आप वहां प्रवेश कर सके, क्योंकि केवल एक ही तरीके से आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं, वह है विश्वास के द्वारा। क्या यह सही है? "विश्वास सुनने से आता है, सुनना वचन से होता है," हमारे विवेक को धोता है। ना ही एक मनुष्य से मिलना, ना ही पिता से मिलना, ना ही माँ से मिलना, ना ही बालक से मिलना (ये सब सच है, हम ऐसा करेंगे) लेकिन पहली चीज़ जिसमें हमें आना है वह है परमेश्वर के विधि का मार्ग; जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हम धोये जाते हैं।

180 हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। अनुग्रह, "परमेश्वर ने आपके लिए जो किया है।" यह सही है। आप परमेश्वर का विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं; और जैसे ही आप खेदित होते हैं, आपको पहले ही क्षमा किया जा चूका है।

181 जब मैं कल एक भाई से बात कर रहा था, तो इस पर कुछ उलझ गया, और मैंने कहा, "देखो भाई, यदि आपने अपनी पत्नी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ कहा है, तो आप तुरंत उसके लिए खेद महसूस

करोगे, आप खेदित होते हैं आपने ऐसा किया, आप पहले ही अपने हृदय में पछतावा कर चुके हैं। यह सही बात है। लेकिन आपको उसे इसके बारे में बताना होगा। आपको जाकर और कहना है, 'प्रिय मुझे—मुझे क्षमा करना कि मैंने ऐसा कहा।' तब आपने पूरी तरह से पश्चाताप किया है।" अब, परमेश्वर के साथ इसी तरह से है।

182 एक मनुष्य जो जाकर और कहेगा, "मैंने उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे कहूँगा कि मुझे क्षमा करें, लेकिन वास्तव में मैं खेदित नहीं हूँ," तुम एक ढोंगी हो। समझे? यह सही बात है। यह परमेश्वर के द्वारा कभी भी ग्रहण नहीं किया जायेगा।

183 आपको अपने पापों के लिए पूरी तरह से खेदित होना चाहिए। फिर जब आप जानते हैं कि आपको अपने पापों के लिए खेद है, और फिर "पश्चाताप करे, और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, और तुम क्षमा को पाओगे, पवित्र आत्मा को पाओगे।" देखो, यह बिलकुल साधारण सा है, परमेश्वर ने इसे बहुत ही साधारण बनाया है।

184 यहां वो... हम यहाँ ध्यान देते हैं "कांच का समुद्र," इसकी तुलना बिल्लौर या कच्चे हीरे से की गई थी। अब, कांच के समुद्र का प्रतिरूप है, जिसे पीतल के समुद्र के द्वारा नमूना बताया गया है। यह स्वर्ग में कांच का समुद्र है। मूसा ने इसे कांच के समुद्र के नाई देखा और बना हुआ जिसे "पीतल का समुद्र," कहा जाता था एक पीतल के समान वेदी, पीतल का बलिदान... मेरा मतलब एक पीतल के समान वेदी।

185 आप जानते हैं कि पीतल बाईबल में किस बारे में बताता है? न्याय को। उसने पीतल के सर्प को बनाया। सर्प का क्या अर्थ है? सर्प के प्रतीक का अर्थ होता है "पाप का न्याय किया जा चुका है," अदन के बगीचे में, जब, "तेरी एड़ी उसके सिर को कुचल डालेगी; उसका सिर एड़ी को डसेगा।"

186 और पीतल "दैविक न्याय," का प्रतिनिधित्व करता है पीतल की वेदी, जहाँ बलिदान को जलाया जाता था; पीतल सा हौद, जहाँ इसे वचन के जल से धोया गया था। समझे? मू... एलिय्याह ने, उसके दिनों में बाहर जाकर और ऊपर की ओर देखा, और कहा, "आकाश पीतल जैसा दिखता है।" (एक ठुकराए गये राष्ट्र पर दैविक न्याय।) ओह, प्रभु! पीतल, पीतल सा!

187 अब हम “हौद” में है। और आपने देखा कि यह हौद खाली था और बिलौर या शीशे की तरह साफ था। क्यों? कलीसिया को पहले ही छुड़ाया गया था!

188 अब, अब, हम कुछ देर बाद देखते हैं, हालांकि, जब महासंकट के संत आगे आते हैं, हम इसे फिर से आग से भरा हुआ देखते हैं। क्या आपने जाना... क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? आइए अब प्रकाशितवाक्य 15वे अध्याय, 2रे पद की ओर चलते हैं, और पढ़ेंगे जहाँ हम इस पीतल की आग को फिर से देखते हैं। तो ठीक है:

और मैंने एक और दूत को देखा... मैंने स्वर्ग में एक और चिन्ह देखा, (ठीक है।) बड़ा और अद्भुत चिन्ह अर्थात् सात दूत जिन के पास... सातों पिछली विपत्तियां थीं; क्योंकि उन में परमेश्वर के प्रकोप के साथ भरा हुआ है,

अब परमेश्वर का “क्रोध।” देखो:

और मैं ने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा था: (अब, देखना।) और वे जो उस पशु पर, और उस की मूरत पर, और उसके नाम के अंक पर जयवन्त हुए थे, और उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को... लिए हुए खड़े देखा।

और उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा का गीत गाया,...

189 ओह, क्या आप इसे देखते हैं? “महासंकट काल।” ओह! क्या आप जल्दी में हैं? [सभा उत्तर देती है, “नहीं।” —सम्पा।] तो ठीक है, सुनना, आइये यहाँ कुछ बात को देखेंगे।

190 हम कैसे आते हैं? हमें आना ही है (इस अन्यजाति कलीसिया को) इस वचन के लिए, जो कांच का समुद्र, जल, वचन का जल है (क्या यह सही है?), वचन को जिस तरह से इसे लिखा गया है, उसे पहचानें। तब बलिदान ग्रहण किया जाता है और अंदर से पवित्र आत्मा से भर दिया जाता है, उस युग के प्रकाश के जरिये से चमकते हुए। यहाँ से... यहाँ यह पवित्र स्थान से यहाँ इसके अंदर आता है, तारे से निकलकर यहाँ इसके अंदर आता है। इसे पकड़ा?

191 ध्यान दें, अब, इस युग के अंत में, यूहन्ना, जब उसने वहाँ पीतल का समुद्र देखा, तो यह “बिलौर या शीशे सा साफ़,” था। ये क्या था? वचन

को धरती पर से उठा लिया गया था, कलीसिया में रेपचर हो गया था, और यह "बिलौर या शीशे सा साफ़," था अब और लहू नहीं, कलीसिया का युग खत्म हुआ था।

192 अब, प्रकाशितवाक्य 15 में, स्त्री के बीज के अवशेष, जो कि महासंकट के संत थे जो महासंकट में से होकर गुजरे थे, वहां पाए गए (देखो!) इस समुद्र पर खड़े थे। और ये आग, लहू, लाल जीभ सी उठती हुई लपटे, परमेश्वर की आग से भर गया। उन्होंने पशु (रोम) पर, उसकी संख्या पर, उसके नाम के अक्षर पर विजय को पा लिया था, और उसकी छवि पर (कलिसियाओ के संगठन), और बाहर आ गयी थी। और मूसा और एलिय्याह के प्रचार के द्वारा, वे दो भविष्यव्यक्ता जो इस्राएल को बाहर निकालने के लिये प्रगट होंगे, ... लोगों का यह झुण्ड, वे महासंकट काल के संत, जो उस समय में वापस लाए जाएंगे, जो...

193 देखो, कलीसिया का अब रेपचर किया गया है, लेकिन याद रखें कि पत्नी सिंहासन पर बैठी है। महासंकट काल... राज्यों में रहते थे, बाहर, और उनके सभी राजाओं को, और उनका आदर और महिमा को नगर के अंदर ले आए। जब हम प्रकाशितवाक्य 22 में जाते हैं, तो आप इसे देखेंगे। यदि आप इसे लिख रहे हैं और इसे पकड़ कर रखते हैं, जब हम इस बात को ले लेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा क्या मतलब है। हमारे पास हर छोटी चीज को पकड़ने और उसे यहाँ और वहां से लेने का समय नहीं है, लेकिन इसके मुख्य स्थानों में से ले लेंगे। फिर किसी दिन, हो सकता है, प्रभु की इच्छा हुई तो, हमारे पास इसके बारे में बात करने के लिए बहुत समय होगा।

194 अब, ये महासंकट काल के संत जो सामने आए, वे बड़े क्लेशों में से होकर गुजरे थे। (कलीसिया महासंकट में से होकर नहीं जायेगी! क्या आप देखते हैं कि वे पहले से ही महिमा में थे?) और यहाँ पर महासंकट के संत, वे जो पवित्र लोग हैं जिनके पास... यह मेरी और आपकी गलती होने के वजह से उन्होंने कभी भी वचन नहीं सुना था। यदि उन्होंने इसे सुना है और इसे अस्वीकार कर देते हैं, तो वे नरक में चले जाते हैं; उन्हें बाहरी अन्धकार में डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने वचन को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन यदि उन्होंने इसे कभी नहीं सुना होगा, तो परमेश्वर न्यायी हैं, महासंकट काल उनके लिए आता है।

195 अब, बस एक मिनट ध्यान देना। संतों को उसी वचन के द्वारा धोया जाता है, क्योंकि यह वही वेदी है, यह वही कांच का समुद्र है और वही वचन है। प्रकाशितवाक्य 2:5, प्रकाशितवाक्य 15: (या मेरा मतलब) : 2 से लेकर :5 तक। ध्यान दें, बस एक मिनट। अब, हम कभी भी उनके पास वचन को लेकर नहीं गए, यही कारण है कि वे—वे इस तरह से थे। हम कभी भी उनके पास वचन को नहीं लेकर गये, हमें इसका जिम्मेदार ठहराया जायेगा। इसलिए हम सारे लोगों को नहीं पकड़ सकेंगे; कलीसिया नहीं करेगी (इस युग में) जिसे सत्य मिला है। क्योंकि वे क्लेश में से होकर जायेंगे, वे संत नहीं हैं जो बहुत पहले कलीसिया के युगों में मर गए, क्योंकि उसने कहा “वे उस बड़े महासंकट में से बाहर आते हैं,” और कलीसिया के घर जाने के बाद बड़ा महासंकट अभी भी आगे वाला है।

196 ओह, वहाँ आप हैं! ओह, मैं इसे पसंद करता हूँ! सुनना! आइये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार का वचन सुना। अब, आइए फिर से 15वें अध्याय के दूसरे पद पर आरंभ करें।

*और मैं ने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा था:
और जो उस पशु पर जयवन्त हुए थे, ... उस की मूरत पर, ...
उसकी छाप पर, ... और उसके नाम के अंक पर, उन्हें उस कांच
के समुद्र के निकट... परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े
देखा।*

197 अब, देखो, उन्होंने कभी भीतर प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उन्होंने वचन को सुना था। उन्होंने वचन को सुना था। अब, सुनो, देखो उन्होंने किस तरह के सिद्धांत को सुना, देखें कि क्या यह अब कलीसिया के साथ तुलना करता है।

*और उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा का गीत गाया, (अर्थात्
मूसा के उस पार जाने के बाद।) और मेम्ने का गीत जो कहता
है, कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े, और अद्भुत
हैं; (वो मेमना कौन है?) सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर; हे संतो के
राजा, तेरे मार्ग ठीक और सच्ची है।*

198 देखा कि उन्होंने उसे किस तरह से पहचाना? ना ही त्रिएकता में कोई तीसरा व्यक्ति, लेकिन “प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, संतों के राजा!” सुनना! क्या आप तैयार हैं? 4था पद:

हे प्रभु, कौन तुझ से न डरेगा, (बड़ा अक्षर एल-ओ-आर-डी, एलोहीम) और महिमा करें... कौन बचा है जो तुझसे न डरेगा, ... और तेरे नाम की महिमा न करेगा? ...

199 वे उसी जल के द्वारा धोए गए थे, जिससे आप अब धोये जा रहे हो, वचन को सुनते हुए, और यीशु मसीह के सर्वशक्तिमान होने का विश्वास और सामर्थ। यह आरंभ से ही संपूर्ण प्रकाशन है। पूरी बात इस प्रकाशन में लिपटी हुई है कि यीशु मसीह कौन है, “परमेश्वर हमारे बीच देहधारी हुआ!”

... तेरा नाम महान और अद्भुत है, ...

कौन तुझ से न डरेगा... और तेरे नाम का आदर न करेगा? तू... ही... क्योंकि केवल तू ही पवित्र है; क्योंकि सारी जातियां आकर तेरे साम्हने दण्डवत् करेंगी; क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रगट हो गए हैं।

200 दूसरे शब्दों में: हम देखते हैं कि इसे स्वीकार न करने का क्या अर्थ है, आपके न्याय प्रकट किए जा रहे हैं। सो यहाँ हम खड़े हैं, हम अभी धोए गए हैं, हम महासंकट काल में से होकर आने के बाद जल के द्वारा धोए जा रहे हैं। हमने आपके लिये अपना पक्ष रखा है और हमने आप पर विश्वास किया है, और अब हम कांच के समुद्र पर खड़े हैं, और हम आपके पवित्र आत्मा के प्रतिबिंब के नाई आपका आदर और महिमा करते हैं। और तेरे धुपदान सच्चे हैं और तेरे न्याय सच्चे हैं।

201 ओह, प्रभु! हम उस बात पर एक सप्ताह बने रह सकते हैं। “पवित्र आत्मा का बपतिस्मा,” आइये अब ठीक यहाँ पर कुछ चित्रित करते हैं, बस एक मिनट, मुझे कुछ ऐसा मिला है जिसे मैं चित्रित करना चाहता हूँ। अब आइये... क्यों न हम उसे ठीक वहीं ले जाएं जहां हम हैं।

202 अब, यदि हम ध्यान दें, तो यहां एक बड़ी तस्वीर है। अब, यहाँ परम पवित्र स्थान है। तो ठीक है। यहाँ पवित्र स्थान है। और यहाँ पहला है, वहाँ पर आने से पहले, ये—ये समुंद्र है।

203 तो ठीक है, अब ध्यान दें। हम परमेश्वर के पास कैसे पहुँचते हैं? “विश्वास सुनने से आता है, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है,” यही है जो युग के सन्देशवाहक के अंदर परम पवित्र स्थान से प्रतिबिम्बित हो रहा है।

204 वापस अंदर, और वह... सुलैमान के मन्दिर में, यह प्रतिबिंब को देता है, उन धुपदानो ने उसके उजियालो को उस पीतल की हौद में प्रतिबिंबित किया। तो, *यहाँ*, कलीसिया युग का दूत उस जल में प्रतिबिंबित कर रहा है वो व्यक्ति जो *यहाँ* पर है, उसकी दया को, उसके वचन को, उसके न्याय को, उसके नाम को प्रतिबिंब कर रहा है। यहां सब कुछ प्रतिबिंबित होता है जहां आप इसे विश्वास करने के द्वारा अलग हुए हैं। क्या आपने इसे समझा?

205 ध्यान दें कि यह यहाँ पर कितना सुंदर है, हम उस दिन इस पर बात कर रहे थे। यहां देखें, *यहां*, "इस तरह से धर्मी ठहराया जाता है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है।" तो ठीक है, *दूसरा स्थान*, धोए जाने के बाद, "पवित्रीकरण।" और फिर, "पवित्र आत्मा से भरा जाना।" धर्मीकरण, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा! आपने इसे देखा? उसका संदेश कैसा था? सुनने के द्वारा धर्मीकरण; पवित्रीकरण वो है जो आप करते हैं; और उसके संबंध में आपने उसकी सराहना करते हुए जो कुछ किया, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंद किया।

206 अब, आप, मेरे बैपटिस्ट भाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं, "अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करने के अलावा और क्या कर सकता था? और परमेश्वर ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना।"

207 यही है सब जो वो कर सकता था, ठीक *यहाँ*, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। लेकिन परमेश्वर ने उसके विश्वास को स्वीकार करने के लिए, उसे खतने की मोहर को देकर उस पर मोहर लगायी, ये दिखा रहा है कि परमेश्वर को—... उसके विश्वास को स्वीकार किया। और यदि आप परमेश्वर में विश्वास का दावा करते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा कभी भी मोहर नहीं किये गये हैं... इफिसियों 4:30, यदि आप इसे लिखना चाहते हैं, इफिसियों 4:30, "परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम पर मोहर लगाई गई है।" और आपको तब तक मोहर नहीं किया जाता है जब तक आप पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर लेते।

208 ये कब तक रहेगा? क्या अगली बेदारी होने तक? "हमारे छुटकारे तक, छुटकारे के दिन तक।" इससे अलग होने का कोई जरिया नहीं है। आप इससे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि यह आपसे अलग नहीं होगा। समझे? "क्योंकि तुम्हें छुटकारे के दिन तक तुम पर मोहर लगाई गई है।"

“वहां ना कोई भविष्य, ना ही कोई वर्तमान, संकट, भूख, प्यास, मृत्यु, या कुछ भी नहीं है, जो हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकता है जो मसीह में है।” पौलुस ने कहा, “मैं इसके लिए पूरी तरह से यकीन करता हूँ!” आप वहां हो! आप वहां हैं, आपको आपके छुटकारे के दिन तक मोहर किया गया है।

209 ध्यान दें, जो फिर से पिछले—पिछले रविवार तक लाएगा। क्या मेरे पास समय है? मैं बस... देखो, इसे देखना, आत्मा... आत्मा, प्राण, और शरीर। तो ठीक है, देखो: शरीर, प्राण, आत्मा।

210 अब, मैं इसे मिटा देता हूँ और यहां आपके लिए कुछ तो बनाऊंगा। अब, मैं यहाँ कुछ तो चित्रित करने जा रहा हूँ, मुझे पिछले रविवार को इसे चित्रित करने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैंने इसे पीले कागज के इस टुकड़े पर खुद यहां पर चित्रित किया है। मैं ऐसा चाहता हूँ जिससे कि आप इसे चिह्नित कर सकें और आप देख सकें कि मेरा क्या मतलब है, अब आप अपनी कलम को उठा ले। अब यह शरीर है; और यह प्राण है; और यह (बड़ा अक्षर एस-पी-आई-आर-आई-टी) आत्मा, पवित्र आत्मा है। तो ठीक है। अब, यही है हम इसी के बने हुए हैं।

211 यदि आप यहाँ पर ध्यान दें, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान; यहाँ वेदी, पवित्र स्थान; और यहाँ समुद्र—समुद्र, यही है जहाँ आप वचन को सुनते हैं, “विश्वास सुनने से आता है, वचन के सुनने से,” अलगाव, अलगाव का समुद्र, अलगाव करने वाला समुद्र। अब, इस पर ध्यान दें। अब, यहाँ आने के लिए केवल एक ही प्रवेश द्वार है, और यही है आपको पहले यहाँ आना होगा। क्या यह सही है?

212 अब, मैं सोचता हूँ मेरे पास जगह होती, मैं यहाँ डाल देता, “वो—कुंवारियां।” जब वो... “विवाह का भोज,” एक ओर। देखें कि यह मनुष्य यहाँ विवाह के भोज में कैसे आया, और वह किसी और रास्ते से आया? यहाँ द्वार था। यीशु ने कहा, “मैं द्वार हूँ।” और यह विवाह की मेज यहाँ रखी हुई थी और चारों ओर लोग बैठे हुए थे, और यहाँ ऊपर एक मनुष्य था जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। और जब राजा भीतर आया, तो उसने कहा, “तुम यहाँ कैसे आए, मेरे मित्र? तुम यहां कभी किस तरह से पहुंचे?” इससे पता चला कि वह इस द्वार से नहीं आया। वह एक खिड़की

से अंदर गया या पीछे के रास्ते से आया, या किसी मत-सिद्धांत या संप्रदाय के जरिये से। वो द्वार से नहीं आया था!

213 क्योंकि पुराने पूर्वी देश में उनके पास अब भी वही चीज़ होती है, जिस दूल्हे का विवाह होने वाला होता है, वह निमंत्रण को देता है और उसके द्वारा आमंत्रित हर एक व्यक्ति को वस्त्र प्रदान किया जाता है।

214 ओह, जब मैं यह सोचता हूँ तो मेरा हृदय किस तरह से गोल-गोल और गोल-गोल घूमता है! "कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जब तक मेरा पिता उसे पहले निमंत्रण नहीं देता, और वे सब जिसे पिता ने मुझे दिया है, मेरे पास आएगा।" हमें कैसे बुलाया गया? जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे नाम मेमने की जीवन की किताब में डाले गए थे, उस उजियाले को देखने के लिए, पवित्र आत्मा को पाने के लिए, उसमें चलने के लिए। हमारे नाम (जब मेमना घात किया गया था) उसी समय किताब में डाल दिए गए थे जब मेमने का नाम वहां डाला गया था। बाईबल, हम इसे थोड़ी देर बाद ले लेंगे, इसने कहा, "उसने धरती पर सबको भरमाया जिनके नाम मेमने की जीवन की किताब में जगत की बुनियाद के समय से लेकर नहीं लिखे गए हैं।"

215 ध्यान दें, तब यदि वह... दूल्हा स्वयं, जब वो द्वार पर खड़ा था। और वो व्यक्ति निमंत्रण लेकर आया, और कहा, "ये रहा।"

216 "धन्यवाद।" उसने निमंत्रण को लिया, उसे यहाँ रख दिया, और उस पर एक वस्त्र को डाल दिया जिससे कि वे सभी एक जैसे दिखें। मैं यह पसंद करता हूँ! देखा? परमेश्वर की सामर्थ में, जीवित परमेश्वर की कलीसिया में, धनी, निर्धन, बधुंवा, आजाद, काला, गोरा, भूरा, पीला, सभी एक जैसे दिखते हैं क्योंकि वे उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ के वस्त्र को पहने हुए होते हैं। देखा?

अब, यह दिखाता है कि वो द्वार से नहीं आया था।

217 अब, यहाँ ध्यान दें। ओह, यदि एक मनुष्य ने परम पवित्र स्थान में जाने की कोशिश की (कोई तो, कोई बाईबल का शिक्षक मुझे बताये), यदि कोई इस परम पवित्र स्थान के अंदर जाने लगता है *यहाँ* से होकर आये बिना, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हारून के बेटे ने एक दिन अजीब सी आग को लिया, कुछ सांप्रदायिक आग को (जब कि यह सांप्रदायिक आग नहीं थी), और वे द्वार पर मर गए। क्या यह सही है? या ये एली के पुत्र थे, मैं

सोचता हूँ। एली के पुत्रों ने उन्हें अंदर ले लिया, जब इसने हारून के पुत्रों का प्रतिनिधित्व किया जो याजक था।

218 अब, अब, देह के अंदर आने का एक ही तरीका है। यह शरीर कैसे नियंत्रित होता है? अब, अब ध्यान से देखें और आप अपने कलम को तैयार रखें। यहाँ इस तरफ वह फाटक है जो देह के अंदर जाता है: एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब, आपने इसे चित्रित कर लिया? अब, यहाँ पर पहला फाटक है: देखना, सूँघना, सुनना, और चखना, और स्पर्श करना या महसूस करना (या दोनों में से एक इसे लिखना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता)। अब, यही देह की चेतनायें हैं। क्या यह सही है? कितने लोग यह जानते हैं? छह चेतनायें देह को नियंत्रित करती हैं। अब, आपके पास एक प्राण है आपके इसमें से होकर जाने के बाद। चेतनायें बाहर हैं, यह बाहरी पद्धति है।

219 अब, यहाँ प्राण में एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच गुण हैं। अब, आप उन्हें लिखना चाहते हैं? पहली है कल्पना, कल्पना। दूसरा एक विवेक है। और तीसरा एक याददाश्त है। और चौथा एक तर्क है। और पांचवां एक है स्नेह।

220 अब, क्या आपने उन सबको समझ लिया? यदि आप नहीं समझे हैं, तो मुझे अभी बताएं। आपने उन सब को लिख कर ले लिया? देखना, चखना, महसूस करना, सूँघना और सुनना; शरीर, यही शरीर के लिए खुला है।

221 प्राण कल्पना, विवेक, याददाश्त, तर्क और स्नेह है, ये चेतनाये है या गुण हैं, जैसे प्राण की चेतनाये। और प्राण उस आत्मा का स्वभाव है यही जो भीतर है, क्योंकि प्राण केवल आपके अंदर जो कुछ है बाहर उसका वातावरण बनाता है। ये पवित्रीकरण के स्थान को लेता है, जो प्राण है, वहां उसी वर्ग में रख देता है। तो ठीक है, अब, हर एक... सबने लिखकर ले लिया? तो ठीक है।

222 अब, इस द्वार के लिए केवल एक, एक द्वार है, जिसे कहा जाता है "खुद की इच्छा।" आप वहां के मालिक होते हैं जो वहां चलता है। और यह क्या करता है? यह क्या है? अवश्य ही शरीर को धोया जाना है, हौद में; पवित्रीकरण, यहाँ पर; पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यहाँ, और यह फिर से परमेश्वर का न्याय आसन बन जाता है, जहाँ परमेश्वर आपके हृदय में

बैठता है, और यदि आप कुछ गलत करते हैं, कहते हैं, “ओह, प्रभु, मैंने गलत किया।”

223 कुछ लोग कहते हैं, “यह मुझे दोषी नहीं ठहराता कि—कि मैं छोटे बालो को रखूँ,” जो महिलाएं हैं। “यह मुझे मैनीक्योर या मेकअप, या जो कुछ भी है, इसे करने के लिए दोषी नहीं ठहराता है। यह मुझे नाचने को जाने के लिए दोषी नहीं ठहराता है। यह मुझे थोड़ा सफेद झूठ बोलने के लिए दोषी नहीं ठहराता है। यह मेरी ताश के पत्तों की पार्टों में ताश खेलने के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराता है।” आप जानते हो क्यों? आपके पास दोषी ठहराने के लिए कुछ भी नहीं है। “यह मेरे विवेक को ठेस नहीं पहुंचाता।” आपके पास विवेक नहीं है जैसे सांप के पास कमर हो। तो आप बस... आपके पास कोई विवेक नहीं है, आपको ठेस पहुंचाने के लिए वहां कुछ भी नहीं है। आप संसार के हो!

224 लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूँ कि यीशु मसीह को *यहां* आने दें और एक बार इसे करने का प्रयास करने दें! भाई, आपको इतना दोषी ठहराया जायेगा कि आप पीछे हटकर और उस चीज़ से अपने सिर को हिलायेंगे ठीक उतना ही निश्चित रूप से जितना मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि वो पवित्र है। सुनना, मैं वचन का हवाला दे रहा हूँ, “यदि तुम उन चीज़ों से प्रेम करते हो जो संसार हैं, संसार की चीज़ें हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आप में है ही नहीं।”

225 यह कैसे किया? खुद की इच्छा। आप इसे क्यों ‘खुद की इच्छा,’ कहकर बुलाते हैं, भाई ब्रंहम? ” क्योंकि ये आदम और हव्वा की तरह अदन की वाटिका में एक पुरुष और स्त्री को फिर से वापस रख देता है। किस बात पर? दो पेड़! खुद की इच्छा, यह एक मृत्यु है। यह एक जीवन है, खुद की इच्छा। अनैतिक... स्वतंत्र नैतिक अधिकार! परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम और हव्वा को ठीक यहाँ स्वतंत्र नैतिक अधिकार के स्थान में रखा। वह आपको उसी स्थान पर रखता है। और केवल इसी तरह से आप इस चीज़ को *यहां* निर्धारित कर सकते हैं, ये है आपकी खुद की इच्छा। हाल्लेलुय्या! आपकी खुद की इच्छा! आपके पास परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की इच्छा होनी है। परमेश्वर की इच्छा को अंदर लेने के लिए आपको अपनी इच्छा को निकालना होगा, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जो हृदय की ओर ले जाता है।

226 ओह, आप कलीसिया में जुड़ सकते हैं, आप जो बैपटिस्ट और प्रेस्बिटेरियन हैं। और आप मेथोडिस्ट और पिलग्रिम होलीनेस पवित्रीकरण तक आ सकते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की इच्छा को लेना होगा, खुद की इच्छा, पवित्र आत्मा को यहाँ पर अंदर आने दे, ताकि इसे प्रकट करे। “ये चिन्ह उनके पीछे जायेंगे वे जो विश्वास करते हैं। मेरे नाम से वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे। वे नई-नई भाषाओं में बोलेंगे। वे बीमारों पर हाथों को रखेंगे, या घातक चीजों को उठा लेंगे, और इत्यादि। ये चिन्ह उनके पीछे-पीछे जायेंगे जिन्होंने उनकी इच्छा को मेरी इच्छा होने दिया है, और जो काम मैं करता हूँ वे भी करेंगे।” मैं आशा करता हूँ कि आप इसे नहीं चुकेंगे। वहाँ एक परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की इच्छा है। आपने समझ लिया मेरा क्या अर्थ है?

227 यहाँ देखो, पवित्र स्थान, उस हौद के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर वे उजियाले हैं, धुपदान (एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात), उनमें से हर एक के पास एक उजियाला है। उन्हें उनका उजियाला कहाँ से मिल रहा है? उनका उजियाला कहाँ प्रतिबिंब होता है, ये कहाँ पर प्रतिबिंबित होता है? यह यहाँ किसी संप्रदाय पर एक कोने में प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है। यह यहाँ पर पीछे वचन को प्रतिबिंबित कर रहा है! यह अलगाव का जल है। व्यूह!

228 “पश्चाताप और पापों की क्षमा के लिए” (लूका 24:49) “यरूशलेम से आरम्भ करके सारे राष्ट्रों में उसके नाम से अवश्य ही प्रचार किया जाना चाहिए।” किस तरह से यरूशलेम में पश्चाताप और पापों की क्षमा की शिक्षा दी गई थी? कितनी दूर? इसे सारे संसार में जाना है। “तुम पश्चाताप करो,” पतरस ने कहा, प्रेरितों के काम 2:38 में, “और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें।” यह सन्देश सारे जगत में जाना है, और उसके बाद अन्त आ जाएगा। तब अंत हो जायेगा, जब यह सन्देश सारे संसार भर में चला जाएगा।

229 कैसे, ये धुपदान यहाँ पर उजियाले को प्रतिबिंब कर रहे हैं कुछ मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, या पेंटीकोस्टल संप्रदाय पर? खैर, निश्चित रूप से नहीं!

230 यह यहाँ प्रतिबिंब होते हैं “मैं हूँ” की नाई ना ही “मैं था।” ना ही तीन या चार अलग-अलग व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ अपने आप को

स्थापित करते हुए उन हर एक कलीसियाओ में से प्रतिबिंबित कर रहा है। वहाँ पीछे मुड़कर देखें और देखें कि उन्होंने क्या किया (हम अभी इतिहास में से होते हुए आये हैं), उन्होंने उसे वैसा ही प्रतिबिंबित किया जैसा वो था, जैसा वह है, और जैसा वह हमेशा रहेगा।

231 “वह जो था... ” जैसे ही यूहन्ना को इसकी पहली झलक मिली, उसने कहा, “वह जो था, जो है, और आने वाला है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परमेश्वर की रचना, अल्फा, ओमेगा, आदि और अंत।” यही सच्चा उजियाला है जिसे प्रतिबिंबित किया जाना है। क्या आप इसे देखते हैं? आमीन! व्यूह!

232 बारह बजे के बाद, और मेरे—मेरे पास... सुनना, आइये अब जल्दी करें ताकि आप इसकी नकल उतार कर बना सकें। मैं बस पसंद नहीं करता कि आपको बहुत देर तक रोके रखूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं आपसे फिर से कब मिलूंगा। समझे? और मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझ ले, मित्रों, यह जीवन है। अब, देखो, मेरा मतलब यह नहीं है क्योंकि इसे मैं कह रहा हूँ। यदि मैं—यदि मैं प्रतिबिंबित कर रहा हूँ उस प्रकार... तो मैं... आपने—आपने मेरे हृदय को गलत समझा है। मैं प्रतिबिंबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, “ओह, यह तो बस... आप कुछ भी नहीं है।” मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यदि आपने उजियाले को नहीं पाया है, तो मैं आपको यहाँ पर एक की ओर संकेत करने की कोशिश कर रहा हूँ। ना ही यहाँ एक जो पुलपीट पर है, वो एक जो वहाँ उस सिंहासन पर है। और वह सिंहासन अवश्य ही आपके हृदय में होना चाहिए, तब आप ठीक उसी चीज को देखोगे जैसा इसने यहाँ प्रतिबिंबित किया है।

233 यह यहाँ ऊपर क्या है? ये इसे प्रतिबिंबित कर रहा है। और यह ये है, वो वचन। वचन के जल के द्वारा धोए गए, वचन के द्वारा; धोये गये (अलगाव के जल में से होते हुए) संसार—संसार की चीजों से, वचन के द्वारा। वचन कहता है कि वो कल और युगानुयुग एक सा है। यह ऐसा नहीं कहता, “वो पेंटीकोस्ट युग में ऐसा है, वहाँ पीछे चेलों के समय में, और फिर अगले युग में वो बदल गया।” नहीं, वो एक सा है! देखा? आप इसे और कुछ भी नहीं कह सकते। हम उन बातों में से एक बात पर घंटों तक बने रह सकते थे, लेकिन मैं आशा करता कि आप इसे अब पकड़ रहे हैं।

परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप इसे पकड़ लेंगे। मेरा यही विश्वास है। तो ठीक है, श्रीमान।

234 अब, ये क्या है? धर्मिकरण, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा; प्राण, शरीर, आत्मा; सब एक समान। अब, दीवट वचन को प्रतिबिम्बित कर रहा है। सच्चा वचन किसे प्रतिबिंब करता है? यह दीवट क्या होगा, यदि यह इस तेजोमय महिमा से उसके प्रतिबिंब को प्राप्त कर रहा था? यह तजोमय महिमा को प्रतिबिंब करेगा। क्या ये सही है?

235 यदि आपको आपका उजियाला धर्म विद्यालय में मिला हैं, आप धर्म विद्यालय को प्रतिबिंबित करेंगे। आपको ये मेथोडिस्ट धर्म विद्यालय में मिला है, आप मेथोडिस्टवाद को प्रतिबिंबित करेंगे। आप प्रतिबिंबित करते हैं! यदि आपने इसे पेंटीकोस्टल धर्म विद्यालय में पाया हैं, तो आप पेंटीकोस्टलवाद को प्रतिबिंब करते हैं। लेकिन यदि आपने इसे परमेश्वर की महिमा में पाया है, जलती हुई झाड़ी के द्वारा...

236 क्योंकि, जब मूसा उसकी उपस्थिति में से बाहर आया, तो उसे अपने चेहरे के ऊपर कुछ डालना था, इसलिए, लोग उसे यहाँ तक देख भी नहीं सकते थे। क्या यह सही है? वो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ था।

237 स्तिफनुस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ मनुष्य। उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि, यह एक तेज हवा के दिन पर एक घर को आग में बुझाने की कोशिश करने जैसा था; इसमें से आग बुझाना... और तेज हवा के दिन घर में आग लग जाती है। ओह, जितना अधिक वे—जितना अधिक उन्होंने इसे फूँका, उतना ही ये तेज होता गया। क्योंकि, आप उसे रोक नहीं सकते। सीधे-सीधे, जब उन्होंने उसे महासभा के न्यायालय के सामने रखा, तो बाईबल ने कहा, “वह वहां खड़ा हुआ, एक दूत की तरह दिख रहा था।”

238 अब, मैं नहीं सोचता एक “दूत” का बस अभिप्राय ऐसा है कि वो कोई एक जीव था जो वहां खड़ा था; लेकिन, एक दूत ठीक-ठीक जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वैसे किसी भी दूत को, कलीसिया युग के संदेशवाहक को, वापस पीछे जाने की आवश्यकता नहीं होती है और जाकर ये देखे कि धर्म विद्यालय क्या सोचते हैं। वह जानता है कि परमेश्वर ने अपनी बाईबल में क्या कहा है, और वह सामर्थ जो यह साबित करने के लिए प्रतिबिंबित हो रही है कि वह कल, आज और हमेशा के लिए एक

सा है। वह डरता नहीं है, वह बिल्कुल वही बता रहा है जो वो जानता है कि यह सत्य है। और परमेश्वर ठीक वहां खड़ा होता है, और वहां इसका समर्थन करता है उसी प्रकार के चिन्हों और अद्भुत कार्यों के साथ, और उसी वचन के साथ। यही एक दूत है!

239 स्तिफनुस वहां खड़ा था, उसने कहा, "मैं जानता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ।" कहा, "तुम हठीले और हृदय और कानों के खतनारहित लोगों, तुम हमेशा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे पूर्व पिताओं ने किया, वैसा ही तुम भी करते हो!" कहा, "तुम्हारे पूर्व पिताओं में से किस ने भविष्यद्वक्ताओं को मारकर और फिर उनकी कब्रें नहीं बनाईं?"

240 तुम जो संप्रदाय हो, तुम में से किसने उसी काम को नहीं किया? देखा? सफेद बड़ी दीवारों वाले किले और मुर्दाघर और चीजों को यहाँ पर बनाते हो, और फिर परमेश्वर के बारे में बात करते हो! तुम वही वो एक हो जिसने उसे मुर्दाघर में डाला था, तुम वही वो एक हो जिसने उसे कब्र में डाला था। बिल्कुल यही वह चीज है जिसने उसे वहां पहले कब्र में डाला था, जो एक बड़ा सफेद किलाबंद चर्च था, वो संप्रदाय, फरीसी और सदूकी लोग जो उसे वहां डालते हैं और फिर उसके लिए एक स्मारक बनाने की कोशिश करते हैं।

241 मुझे आपको बताने दो कि मसीह एक जीवित अस्तित्व है। वो कुछ तो ऐसा नहीं है कि मरा हुआ है, वह कुछ ऐसा है "जो मरे हुएओं में से जी उठा और हमेशा के लिए जीवित है।" ओह, भाई! यकीनन! ये क्या करता है? यह किसे प्रतिबिंब करता है? यह यहाँ से प्रतिबिंबित हो रहा है, यह क्या होगा? यह होगा—... उसका सच्चा प्रतिबिंब क्या है? तब वो पहली चीज जो ये प्रतिबिंबित करेगा, ये उसका नाम होगा। क्या यह सही है? यह उसके नाम को प्रतिबिंबित करेगा। अगली चीज प्रतिबिंब करती है, जो उसकी सामर्थ होगी। देखा मेरा क्या मतलब है? यह वो सब कुछ प्रतिबिंबित करेगा जो वो है।

242 तो यदि यह इस युग को यहाँ प्रतिबिंबित कर रहा है जो वो था, फिर तो वो एक सा है! व्यूह, महिमा! महिमा! यह क्या है? यह उसे प्रतिबिंबित कर रहा है जैसे वो था, जैसा वह है, जैसा वह हमेशा रहेगा, क्योंकि यह सीधे परमेश्वर के सिंहासन से आ रहा है; यीशु मसीह कल, आज और

युगानुग एक सा है; वही परमेश्वर, वही सामर्थ, वही महिमा, वही हर एक चीज। वो कल, आज और युगानुग एक सा है। ओह, भाई!

243 आइये हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब, आइये इस 6वें पद के शेष भाग को यहाँ पर लेते हैं, उस 4थे अध्याय के। मैंने उस पर यहाँ कुछ समालोचना को लिखा है, और मैं जल्दी करना चाहता हूँ और इसे ले लूँगा यदि मैं कर सकता हूँ। अब वो—वो बाकी का, इस छोड़ने के बाद—... इस पद को छोड़ने के बाद, यह बस ऐसे ही बस घूमता रहता है, बताते हुए कि उन्होंने क्या किया। आइये देखते हैं कि क्या हम वहाँ इसे ले सकते हैं।

... कांच... कांच का समुद्र... (अब, हम जानते हैं कि यह क्या था।) सिंहासन के बीच में, ... चार जीवित प्राणी, वे पशु...

244 अब, अब, कितने लोगों के पास बाईबल का फिर से छपा हुआ संस्करण है? आपके फिर से छपे हुए संस्करण में, यह कहता है "जीवित प्राणी।" तो ठीक है, मैंने सोचा कि कैसे इस किंग जेम्स ने यहाँ जीवित कहा... जो चार "पशु" थे? खैर, मैंने एक यूनानी—यूनानी शब्दकोश को लिया, और वापस बाईबल शब्दकोश में गया और पता लगाया कि इसका क्या अर्थ है। अब, यहाँ है जो यह कहता है। अब, और ध्यान से देखना। यहाँ जिस शब्द का अनुवाद किया गया है, अब आप इसे चिह्नित कर लें जिससे कि आप इसे देख भी सकते हैं, सुनिश्चित करने के लिए। देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ उसे चिह्नित कर ले, और... यदि आप कर सकते हैं और चाहते हैं। तो ठीक है, फिर से छपा हुआ संस्करण इस में "जीवित प्राणी," कहता है। अब, देखें:

और... वहाँ... चार पशु थे जिन के आगे पीछे आंखे ही आंखे हैं।

245 और ये आगे बढ़ता है और इसका वर्णन करता है "पशु," जिस पर हम एक मिनट में जायेंगे। अब, यहाँ पशु ने प्रतिनिधित्व किया। क्या आपने आपकी बाईबल में पशु के ऊपर—ऊपर किनारे पर लिखी हुई बातों को पढ़ा है? यदि आपके पास ये है, किनारे पर लिखा होता है उसे पढ़े। मैंने देखा कि डॉक्टर स्कोफिल्ड बाईबल ने यहाँ इसे उसके बाईबल में चिह्नित किया है। उन पशुओं का मतलब है, वो यहाँ पर लिखता है, कहता है, "जीवित प्राणी।" ओह, प्रभु! अब, देखो। वहाँ यूनानी शब्द, "जेड, दो बार ओ, एम," है... या, "जेड, दो बार ओ, एन" है यह है, "जेड, दो बार ओ,

एन," है। अब, युनानी में—में, इसे जून कहा जाता है जिसका अर्थ होता है "एक प्राणी।"

246 अब, ये ऐसा नहीं है... यदि आप इसे अब पढ़ना चाहते हैं। हमारे पास समय नहीं है। मैं इसे पढ़ने जा रहा था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। प्रकाशितवाक्य 11, 13, और 17 को लिख कर ले ले। अब, जहां पर पशु है, वहां प्रकाशितवाक्य 11, 13, और 17 वे अध्याय में, ये उसी प्रकार से पशु कहलाये जाते हैं; लेकिन वहाँ पर पशु, इसका अनुवाद है "टी-एच-ई-आर-आई-ओ-एन," जंगली पशु। वो शब्द, यूनानी शब्द थेरियन, जिसका अर्थ होता है "एक जंगली, अदम्य पशु।" थेरियन, जिसका अर्थ है "एक जंगली, अनियंत्रित पशु।"

247 लेकिन जून का अर्थ है "एक प्राणी," देखो, "चार जीवित (जून) प्राणी।" ना ही वे पशु "जंगली" है, थेरियन; लेकिन, "जून, जीवित प्राणी।"

248 और थेरियन "जंगली, होता है अनियंत्रित खूंखार।" दूसरे शब्दों में, यदि आप 11वां अध्याय देखेंगे, "रोम का पशु।" 13वां अध्याय, "संयुक्त राज्य।" 17वां अध्याय, "संयुक्त राज्य अमेरिका और रोम दोनों," कैथोलिकवाद के साथ संगठित सांप्रदायिक कलीसियायें उन्हें एक अपरिवर्तित, सुसमाचार के लिए अनियंत्रित बनाता है। व्यूह! अनियंत्रित!

249 "परमेश्वर धन्य हो, हम बड़ी मेथोडिस्ट कलीसिया, बैपटिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटीकोस्टल संप्रदाय से आये हैं। हम जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं! कोई नेतृत्व नहीं कर... हमें कोई नहीं बतायेगा!" आप वहां हो। अनियंत्रित! अपरिवर्तित! स्वाभाविक दया के बिना है! क्षमारहित! झूठे दोष लगाने वाले! असंयमी! और जो भले हैं उनके बैरी! भेष तो धरते है...

250 [टेप पर खाली स्थान—सम्पा।]... अब इसमें से होकर जाये। और मुझे बस उस बात को अलग-अलग करना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं... सो यह किसी भी तरह से इस टेप पर जायेगा। लेकिन हमारे पास ऐसा करने का समय नहीं है। अब आप समझते है। कितने समझते हैं? कहे "आमीन।" [सभा कहती है, "आमीन।"] देखो, ये जो हैं...

251 जून क्या है, दो बार-जेड ओ-एन क्या है? जीवित प्राणी। इसका उच्चारण जून, किया जा सकता है जेड, दो बार ओ, एन। आप इसका उच्चारण कैसे करेंगे, "जून"? "जून," मैं कह सकता हूँ।

252 और थेरियन, है टी-एच-ई-आर-आई-ओ-एन, थेरियन, देखो। तो इसका अर्थ है कि "अनियंत्रित पशु, जंगली, खूंखार।" यही है वे पशु... आप अपना... अपनी यूनानी शब्दकोश को ले और ठीक वापस जाकर और देखें कि क्या यह वही शब्द नहीं है। आप वहां उसमें खोजें और देखें। अपनी—अपनी यूनानी पाठ्यपुस्तक को ले, अपनी एम्पैटिक डायग्लॉट के अनुवाद को ले। अब, इसमें देखें कि क्या यह सच नहीं है, कि यह सच है, कि इसका अर्थ "एक अनियंत्रित पशु," है, प्रकाशितवाक्य 11, 13, और—और 17 में।

253 और यहाँ प्रकाशितवाक्य 4 में, इसका अर्थ है "एक जीवित प्राणी," ना ही पशु; लेकिन इसे "पशु" कहा जाता है लेकिन ऐसा नहीं है। यह जकेल 1:8 में वही बात है, 1 से लेकर :28, ये है। हो सकता है इसे ले लेंगे एक मिनट में।

तो ठीक है, "अनियंत्रित, अपरिवर्तित, जंगली पशु।" अनियंत्रित!

254 लेकिन ये "जीवित प्राणी" है। वे क्या हैं? वे दूत नहीं हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या, आइए हम प्रकाशितवाक्य 5 में पढ़ें, ठीक पूरे पन्ने पर। प्रकाशितवाक्य 5, और 11वां पद:

और मैंने देखा, और... बहुत से दूतों की आवाज को सुना ("वे दूत," बहुवचन) लगभग सिंहासन के चारों ओर ("और" एक जोड़ को देता है।) और पशु और... प्राचीन:...

255 देखो, "और," एक और को जोड़ता है। देखा? वे दूत नहीं थे, न ही वे प्राचीन थे, वे "जीवित प्राणी" थे उस सिंहासन पर। ओह, क्या आप इसे पसंद नहीं करते हैं? जीवित प्राणी! वे दूत नहीं हैं, क्योंकि यह ठीक यहाँ इसे साबित करता है, देखो:

... मैंने देखा, और... दूतों की आवाज को सुना सिंहासन के चारों ओर और पशुओं और प्राचीनो को:...

256 अब यहां तीन अलग-अलग वर्ग हैं। मैं आशा करता हूँ कि अब आप यहाँ सभी ने इस क्रम को लिख लिया होगा। अब, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।

वहां इसके तीन अलग-अलग वर्ग हैं, तीन अलग-अलग प्रजातियां (अब, देखना।) सिंहासन के चारों ओर।

257 यहाँ पर सिंहासन है। अब, इस सिंहासन पर पहले चार जीवित प्राणी हैं। उसके बाहर चौबीस (बस इसी तरह से) प्राचीन हैं सिंहासन पर बैठे हुए, उनके—उनके सिंहासन पर, उनके छोटे-छोटे सिंहासन है। और इसके चारों ओर, सिंहासन के चारों ओर दूतों का बड़ा समूह हैं। समझे मेरा क्या अर्थ है? वे हर एक, एक दूसरे से भिन्न हैं, एक उस दूसरे एक से भिन्न हैं। वहां वे दूत हैं; यहाँ प्राचीन हैं; और यहाँ जीवित प्राणी है।

258 अब आइए इसे कुछ मिनट के लिए न छोड़ें। आइए इसे कुछ मिनट के लिए पकड़े रखेंगे, “जीवित प्राणी।” यदि वे दूत नहीं हैं तो वे क्या हैं, वे छुड़ाए गए मनुष्य नहीं हैं? वे क्या हैं? क्या आप जानना चाहेंगे? यहाँ पर मेरा अनुवाद है। मैं आशा करता हूँ कि यह सही है; मुझे विश्वास है कि ऐसा ही है। वे परमेश्वर के पहरा देने वाले हैं उसके सिंहासन के। अब, हम इसे जरा सा इसमें मिटाने जा रहे हैं। अब, आप देखिए, वे—वे न तो दूत हैं और न ही मनुष्य। वे ना ही जंगली पशु हैं। वे प्राणी हैं, “जीवित प्राणी।”

259 अब, यहाँ परमेश्वर का सिंहासन है। और ये उसके रक्षक हैं। अब आइए उसमें से थोड़ा सा पढ़ें और कुछ ही मिनटों में देखेंगे। देखो, वे परमेश्वर के दूत या परमेश्वर के पहरा देने वाले हैं उसके सिंहासन के, और वे... आइये लेंगे... बस—बस एक मिनट में फिर से, आइए हम यहजेकेल पर वापस जाएं। मैंने—मैंने इन बातों को यहां लिखकर रखा है, और मैं बस उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना पसंद नहीं करूंगा, मैं जानता हूँ कि यह एक... [टेप पर खाली स्थान—सम्पा।] आइए यहजेकेल के 1ले अध्याय को वापस लेंगे, और आइए 12वें से 17वें पद के साथ आरंभ करेंगे, बस एक मिनट।

और वे सीधे अपने अपने साम्हने ही चलते थे:...

260 अब, हम कुछ ही मिनटों में देखने जा रहे हैं... और आपको यह 7वाँ पद यहाँ याद होगा, अब, देखो वे यहाँ पर कैसे दिखे प्रकाशितवाक्य के उसी अध्याय के 7वें पद में, “चार।”

और पहला पशु सिंह की नाई था, ... दूसरा पशु एक बछड़े के नाई था, ... तीसरा पशु एक चेहरा था... था... एक मनुष्य का, और चौथा पशु जैसे... उड़ता हुआ उकाब... चौथा पशु... उड़ते हुए उकाब की नाई था।

261 अब, जब यहजेकेल ने परमेश्वर की महिमा को देखा, उसने वही देखा जो यूहन्ना ने देखा था। आपको याद है कि पिछले रविवार को हमने किस तरह से “परमेश्वर की महिमा,” पर लिया था और उस तस्वीर को लिया जहां उसने इसे हमारे साथ लिया था? आपको यह याद है? “परमेश्वर की महिमा,” वही चीज जो यहजेकेल ने देखा, वही चीज जो यूहन्ना ने देखा, वो आज यहां पर है। यहजेकेल के समय में यीशु मसीह को एक सा बनाता है, वही चीज यहाँ धरती पर थी, वही परमेश्वर जो आज हमारे साथ है; वही कल, आज और हमेशा एक सा है; वह जो था, जो है, और जो आने वाला है; प्राण, शरीर और आत्मा का प्रवेश द्वार; पीतल सा समुद्र (वचन), हमारे प्राण को पवित्र करनेवाला, और पवित्र आत्मा से भरने वाला। वही चीज, देखो, बिल्कुल वही!

262 अब, इसे देखें। तो ठीक है:

... और जिधर आत्मा... जाना चाहती थी, ... उधर ही वे जाते; ... अब... वे जाते, और जब वे गए, तब वे न मुड़े।

263 वे मुड़ नहीं सके। यदि वे इस ओर जाते थे, तो ये एक मनुष्य के जैसे जा रहे थे; इस ओर जाते, तो एक उकाब के जैसे जा रहे थे; इस ओर जा रहे थे, तो बैल के जैसे जा रहे थे; इस ओर जा रहे थे, तो वे सिंह की जैसे जा रहे थे। वे पीछे की ओर नहीं जा सकते! जहाँ वे गए उन्हें हर कहीं आगे की ओर जाना था, पशुओं में से हर एक को। अब, बाईबल में पशु का क्या अर्थ है? सामर्थ। तो ठीक है, मतलब “एक सामर्थ।”

264 अब:

और जीवित प्राणीयों का रूप अंगारों और जलते हुए पलीतों के समान दिखाई देते थे, और जैसे... वह... आग जीवित प्राणीयों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई; बड़ा प्रकाश देता रहा; और आग तेज थी, और उस आग से प्रकाश निकलता था।

यही परमेश्वर है। आग से निकलता प्रकाश; अब ना ही जगत संबंधी प्रकाश, वो अनंत प्रकाश।

और जीवित प्राणी दौड़े और घुमे (आइए देखें)... जीवित प्राणी दौड़कर और लौट आए, और बिजली की चमक की नाई दिखाई दिए।

अब जब मैं जीवित प्राणियों को देख ही रहा था, तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार, एक, एक पहिया था।

पहियों का रूप और... उनके बनावट ऐसे... फीरोजे रंग... के से थे; और चारों का एक ही रूप था; और उनका रूप और बनावट ऐसी थी... जैसे एक पहिये के बीच दूसरा पहिया हो।

265 “भाई ब्रंहम, यहाँ पर यह किसका प्रतीक है? यह क्या है?” इसका अर्थ है कि ये रक्षक—ये रक्षक परमेश्वर के सन्दूक... जब यहजेकेल ने उन्हें देखा, तब वे पहिये पर गोल-गोल घूमते हुए यात्रा कर रहे थे; लेकिन जब यूहन्ना ने उन्हें देखा, वे स्वर्ग में उनके सही स्थान के अंदर आ चुके थे। परमेश्वर का सन्दूक धरती पर था, पहियों पर गोल-गोल घूमता हुआ, जब वे इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, इसका अर्थ था कि यह यात्रा में था, वे इसे उस वहां जंगल में से होते हुए लेकर गये और वहां से होते हुए मन्दिर और इत्यादि के अंदर ले गए; लेकिन अब इसे ग्रहण किया गया है क्योंकि कलीसिया का युग समाप्त हो गया है, और इसे महिमा में ग्रहण किया गया है। देखा? यह अब स्वर्ग में स्थिर है, सारे दूत और इसके चारों ओर उन के साथ है। हम उन्हें उनके मुकुट उतारते हुए पाते हैं और उनके मुंह के बल गिरते हुए और उसे महिमा देते हुए। समझे? यह मन्दिर, सन्दूक के, परमेश्वर के रक्षक थे।

266 अब, याद रखे सन्दूक के परमेश्वर के रक्षक, या दया के आसन के। अब, याद रखना। कितनों को, यूहन्ना ने कितनों को देखा? चार को। उसने कितनों को—कितनों को देखा? उसने भी चार को देखा, चार जीवित प्राणियों को। अब, देखो, उन दोनों ने एक ही दर्शन को देखा।

267 और चार पृथ्वी की संख्या है। क्या आप यह जानते थे? अब कितने लोग जानते हैं इससे पहले हम इसके अंदर जाये, चार एक धरती की संख्या है? निश्चय ही! जैसे चार इब्रानी... यह एक पृथ्वी है—... यह पृथ्वी की एक संख्या है, “छुटकारे, छुटकारे,” की। अब, इसे अपने मन में रखें, “छुटकारा,” क्योंकि मैं इस बात को कुछ ही मिनट में लेने जा रहा हूँ, बहुत ही स्पष्ट रीति से। देखो, “छुटकारा!” अब, वहां तीन इब्रानी बच्चे धधकते हुए भट्टी में थे, लेकिन चौथा एक आया, ये छुटकारा था। लाजरस तीन दिन तक कब्र में था, लेकिन जब चौथा आया तो वह छुड़ाया गया। चार

परमेश्वर की संख्या है “छुटकारा,” तो ये दिखाता है कि ये प्राणी धरती के विषय में अवश्य ही कुछ तो रहे होंगे।

268 मैं आशा करता हूँ कि अब आपको बहुत भूख नहीं लगी हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपकी आत्मिक भूख अब स्वाभाविक भूख से थोड़ी—थोड़ी ऊपर है। देखा? तो ठीक है।

269 अब, ध्यान दें, “उनके पास आंखें हैं” (यहाँ यहजेकेल में) “आगे और पीछे और भीतर।” आइये अब इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर नजर डाले, देखो। आप यहाँ पर देखें, मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने यहाँ से होकर बात की थी, “वे पशु,” चार मुख, एक उकाब के जैसे, और पंख, आंखें ही आंखें बाहर, भीतर। यहाँ देखना:

और वे चार पशु और उन में से प्रत्येक के छह पंख उसके चारों ओर थे;...

270 “और वे उड़ गए,” और इत्यादि, “और उसकी आँखें थी बाहर, भीतर और पीछे की ओर।” यह उनके बुद्धिमत्ता के विषय बताते हैं। वे जानते थे कि जो था, जो है और जो आने वाला है; क्योंकि वे ठीक उस आसन पर थे, इतने निकट यहाँ तक कि वे इंसान भी नहीं थे। मंदिर के रक्षक, या, मंदिर के रक्षक नहीं (मंदिर के रक्षक, एक लाख चौवालीस हजार।), लेकिन यह दया-आसन के रक्षक है, सिंहासन के रक्षक, वो सिंहासन, जो ठीक परमेश्वर के पास ही में, “जीवित प्राणी,” है परमेश्वर के बगल में, वहाँ खड़े हुए हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, वे जानते हैं कि जो था, जो है, जो आने वाला है। उनके पास “बाहर आँखे,” थी दिखा रहा था कि वे क्या देख सकते थे, क्या आने वाला था; “आँखे भीतर,” अब हर एक चीज जानता है; और “पीछे की तरफ आँखें,” जो जानता था कि क्या था। जो था, जो है, जो आने वाला है, कलीसिया के युगों में से प्रतिबिंबित हो रहा है “वो जो था, जो है, और आने वाला है; यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है।”

271 उन्हें अब पकड़े रहना। हम कुछ ही मिनटों में उस चीज़ को ब्लैकबोर्ड के जरिये से समझने जा रहे हैं। इस पर देखे। अब, बस एक मिनट।

272 उनकी बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है, और इसने दिखाया कि वे जानते थे, पता हैं। वे सारे भविष्य और वर्तमान और भूतकाल को जानते थे, और इसके बारे में सब कुछ पता था!

273 और उनके... वे थकानरहित थे। वे कभी भी थके नहीं। उनका मनुष्य से कुछ भी संबंध नहीं हो सकता, मनुष्य थक जाता है। लेकिन वे थकानरहित थे, उन्होंने गाया “पवित्र, पवित्र, पवित्र! पवित्र, पवित्र, पवित्र! पवित्र, पवित्र, पवित्र, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान! पवित्र, पवित्र, पवित्र!” हर युग में से होते हुए सारे दिन और सारी रात। “पवित्र!”

274 आइये बस एक मिनट पीछे चलते हैं। आइये पीछे चलते हैं, मेरे मन में एक वचन आया है, यशायाह 6, अब जल्दी से। देखो! यशायाह ने बिल्कुल ठीक उसी चीज को देखा।

275 प्रभु का हर एक दर्शन... यही है जो मैं कहता हूँ। यदि हमारे पास आज जो दर्शन हैं, वे वास्तव में बाईबल के दर्शन नहीं हैं, तब वे गलत हैं। यदि वे प्रतिबिंबित करते हैं, या, कोई भी प्रकाशन जो परमेश्वर कुछ भी दिखाता है, इसके अलावा कि वह हमेशा से क्या था, तो यह एक गलत प्रकाशन है। सारी कलीसिया इसी पर बनी है, मत्ती 17।

276 आइए देखें, यशायाह, 6ठा अध्याय। यह युवा भविष्यव्यक्ता उस भले राजा के हाथों पर झुका हुआ था, और उसने उसके लिए हर तरह के अच्छे वस्त्रों को लाया था। और वह एक भविष्यव्यक्ता था, और वह हर जगह साथ-साथ गया... लेकिन एक दिन राजा की मृत्यु हो गई, इसलिए उसे—उसे अपने लिए उपाय करना था। सो वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गया। इसलिए वो वहां से निकलना आरंभ करता है, जहां पर राजा का स्थान था। फिर, ऐसा करने के लिए... अच्छा बूढ़ा राजा एक भला पवित्र व्यक्ति था। परन्तु वह बाहर निकला और देखा कि लोग कैसे जी रहे हैं, इसलिए वह मंदिर में चला गया। अब सुनना।

जिस वर्ष वो उज्रिय्याह राजा मरा, उसी वर्ष मैंने प्रभु को सिंहासन पर बैठा हुआ भी देखा, बहुत ही ऊंचे पर, और उसके वस्त्र के से घेरे से मंदिर भर गया।

277 महिमा! “उसका घेरा” क्या है? वो रहा, “दूत, वे जीव,” उसके घेरे जो उसके पीछे-पीछे आये थे। घेरे के पीछे क्या आता है, देखा?

... उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया।

और उस से ऊंचे पर साराप दिखाई दिए; और उन हर एक के पास छह-छह पंख थे; दो पंखों के साथ वे अपने मुंह को ढांपे थे और दो के साथ अपने पांवों को, और दो से उड़ रहे थे।

और वे एक दूसरे से पुकार पुकारकर कह रहे थे: सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र, पवित्र है; सारी पृथ्वी उसके महिमा से... भरपूर है।

और जब पुकारने वाले की आवाज़ से डेवढियों की नेवें डोल उठीं, और भवन धुँए से भर गया।

278 मेरे प्रभु! ओह, प्रभु! यह उन दर्शनों को दर्शाता है कि उन पुरुषों में से प्रत्येक के दर्शन बिल्कुल एक से हैं। “पवित्र, पवित्र, पवित्र!” वे थकते नहीं हैं, दिन और रात, “पवित्र, पवित्र, पवित्र, प्रभु के लिए!”

279 आइए अब बस एक मिनट पीछे जाते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमने इन लोगों को सही लिया है। पहली बार जब इन रक्षकों का उल्लेख किया गया था, ये उत्पत्ति में है। अब, याद रखें, जो कुछ भी हम प्रचार करते हैं इसे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशितवाक्य तक आना है। जब भी आप सवाल को पूछना चाहते हैं, आकर मुझसे पूछें। समझे? यह अवश्य ही पूरी बाईबल में होना है, ना ही बस इसका कुछ भाग, क्योंकि परमेश्वर नहीं बदलता है! वो जो उत्पत्ति में था, वह आज है, और वो युग के मध्य में था। वह हमेशा एक जैसा होता है! देखा? अब, उत्पत्ति में, जब ये करुब... इसी तरह से मैं उन्हें देखता हूँ, मुझे यह पता लगाने के लिए पीछे जाना था कि वे आरंभ में क्या थे।

280 आइए उत्पत्ति 3:24 की ओर जाये, अब कुछ क्षण के लिए। उत्पत्ति, 3रा अध्याय और 24वा पद। आप इसे पसंद करते हैं? [सभा कहती है, “आमीन।”—सम्पा।] तो ठीक है। अब, आइए लगभग 22वें पद से आरंभ करें। मैं—मैं बस इसे पसंद करता हूँ! यह कुछ तो ऐसा है जिसे मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा अतिरिक्त, लेकिन यह हो सकता है किसी दिन बहुत कुछ अच्छा करेगा।

और प्रभु... ने कहा, देख, पुरुष हम में से... एक के समान हो गया है,...

281 अब, मेरी प्रिय और बहुमूल्य और प्यारी बहनों (मुझे इसे इस तरह से रखने दें।), यह मत सोचना कि मैं नारीत्व की उस—उस वफादारी और शालीनता, बहुमूल्य रत्न के ऊपर एक निंदा को उछाल रहा हूँ। मैं यहाँ यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक महिला क्या है... कृपया करके! और टेप पर, आप महिलाएं जो इस टेप को सुन रही होंगी, मैं आपका तिरस्कार

करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल एक प्रभु का सेवक हूँ ताकि प्रकाश को लाऊँ। पृथ्वी पर सबसे गिरी हुई और अनैतिक और सबसे बुरी चीज एक महिला है जब वह बुरी होती है। और सबसे बहुमूल्य रत्न जो एक पुरुष के पास है, उसके उद्धार के अलावा, एक भली महिला है। और मैं उस गिरी हुई, अनैतिक, अपमानित के लिए बात कर रहा हूँ। और मैं आपको ठीक यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, जब कि हम इस पर है, बस आपको यह भी दिखा सकता है कि मैं क्यों... कि बाईबल स्त्रियों के लिए सिखाती है कि वो प्रचारक न बने, पास्टर, शिक्षक, या कलीसिया में कुछ भी न बने। अब, जरा इसे सुनना:

और प्रभु... ने कहा, देख, पुरुष हम में से... एक बन गया है, (अब, उसने कभी नहीं कहा कि महिला एक बन गई है, "पुरुष एक बन गया है")... और भला और बुरा जानता है:... (महिला नहीं जानती; उसे भरमाया गया था। क्या आप इसे देखते हैं?)

282 अब, पौलुस ने कहा, "और मैं कहता हूँ, कि स्त्री न उपदेश करे, और न अधिकार चलाए, लेकिन... क्योंकि आदम को पहले बनाया था और फिर हव्वा को। और आदम नहीं भरमाया गया था, लेकिन स्त्री को भरमाया गया था।" इसलिए वो परमेश्वर में से एक नहीं बनी। वो कोई कभी फर्क को नहीं जानती थी, उसे भरमाया गया था। क्या आपने इसे समझा? यदि आप "आमीन," कहते हैं, तो मैं... [सभा कहती है, "आमीन।"—सम्प्रा।

... प्रभु... ने कहा, देख, पुरुष हम में से एक... बन गया है, भला और बुरा जानकर: और जानकर... और अब ऐसा न हो, कि वह हाथ बढ़ा कर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे:

तब यहोवा ने... उसको अदन की बाटिका में से निकाल दिया, कि वह उस भूमि पर खेती करे जिस में से वह बनाया गया था।

इसलिये आदम को उसने निकाल दिया; और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिये अदन की बाटिका के पूर्व की ओर करुबों को, और चारों ओर एक घूमने वाली ज्वालामय लहराती तलवार... को भी नियुक्त कर दिया, (चार पशुओं को देखें? वहां आप केवल चार रास्ते देख सकते हैं, देखो: पूर्व, उत्तर, पश्चिम

और दक्षिण। इन करुबों के पास वाटिका के द्वार पर एक जलती हुई तलवार थी...) *जीवन के वृक्ष के मार्ग को पहरा देने के लिए।*

283 क्योंकि यदि मनुष्य को कभी जीवन के वृक्ष की पकड़ मिल जाए, तो वो हमेशा के लिए जीवित रह सकता है।

284 और इन करुबों को, जिनका पहले उल्लेख किया गया था, उन्हें वाटिका के पूर्वी फाटक पर रखा गया था, जो चार दिशाये जाती है। मुझे इसे उससे थोड़ा सा अलग बनाना चाहिए था; मैं परमेश्वर के क्रम को और इस तरह की चीजों को सही रूप से नहीं कर सकता, लेकिन मैं—मैं बस... जिससे कि आप जान सकें कि मेरा क्या मतलब है। *वहां* अदन की वाटिका है। और ठीक *यहाँ* पर फाटक है, *यहाँ* पर खुलता है, बाहर की तरफ खुलते हुए, और इस फाटक पर वे करुब थे। वे करुब! और, याद रखें, यह नहीं कहता “एक करुब,” इसने कहा “करुबो।” *वहाँ* करुबों को किस बात के पहरे के लिए रखा गया था? जीवन के पेड़ के लिए। यही वह था जिसकी उन्हें रक्षा करनी थी, जीवन के वृक्ष के मार्ग की। मार्ग, मार्ग कौन है? [एक भाई कहता है, “यीशु।”—सम्पा।] यह कहाँ से प्रतिबिंब होता है? *यहाँ* पवित्र स्थान है, *यहाँ* वे करुब हैं।

285 अब, देखो, इन सबको नीचे रख दो। *यहाँ* पवित्र—पवित्र... यह परम पवित्र स्थान है, परम पवित्र स्थान, यह पवित्र स्थान है, और यहां समुद्र है, और *यहां* जलते हुए दीवट है, सात यही है जो *यहाँ* से प्रकाश को प्रतिबिम्बित करते हैं, *यहाँ* पर, *यहाँ* पर, *यहाँ* पर, *यहाँ* पर, *यहाँ* पर, *यहाँ* पर। देखा? वे क्या प्रतिबिम्बित कर रहे हैं? वे परमेश्वर की आग से जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा कर रहे हैं और प्रतिबिम्बित कर रहे हैं। देखो, ये *यहाँ* प्रेस्बिटेरियन धर्म विद्यालय या पेंटीकोस्टल धर्म विद्यालय से नहीं आ सकता है, इसे *यहाँ* से आना है, प्रकाश को प्रतिबिम्बित कर रहे है। ठीक है।

286 आप ध्यान दें, ये—ये करुब जिन्हें यूहन्ना ने *यहाँ* देखा था अवश्य ही वे जीवन के वृक्ष को पहरा रखने में रुचि रखते होंगे, इसलिए उन्हें अवश्य ही मनुष्य जाति में रुचि लेना है। या उत्पत्ति पढ़ें, फिर से उत्पत्ति की ओर वापस जाते हुए, “उन्होंने जीवन के वृक्ष की चौकसी रखा, उसकी रक्षा की, जीवन का मार्ग की।” वो जीवन का मार्ग! मार्ग किस तरह से है? यीशु ने कहा, “मैं वह मार्ग हूँ। मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आती

है। यदि कोई मनुष्य इस रोटी को खाता है, तो वह हमेशा जीवित रहेगा।” अब वहां उस जीवन के पेड़ की ओर वापस जाने का मार्ग है। आपने इसे समझ लिया?

287 अब, इस पर, मैं अब दिखाना चाहता हूँ और इसे सुनिश्चित करना चाहता हूँ: यह एक वेदी है। अब, यह अवश्य ही अदन की वाटिका में एक वेदी रही होगी। मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्या आपको याद है कि कैन और हाबिल दोनों यहाँ आराधना करने आए थे? सो यह दिखाता है कि परमेश्वर की वेदी को हटाकर और यहां अदन की वाटिका में स्थापित किया गया, और अदन की ओर वापस जाने का एकमात्र मार्ग वेदी है। आप यहाँ फिर से हैं, देखो, वेदी में से होते हुए अदन की ओर वापस। और उन्हें वहीं पर चौकसी करना था, और उसका पहरा देना था, कि जब तक यह वेदी लहू से लथपथ न हो जाए, तब तक वे वहां वापस न जा सकें।

288 हे परमेश्वर, क्या लोग इसे नहीं देख सकते हैं? देखो, लहू के आलावा कुछ भी नहीं! वहाँ एक प्रायश्चिता, एक दया का आसन होना है, यह न्याय की वेदी अवश्य ही प्रायश्चिता का आसन बनना है; और जब यह वेदी, यदि लहू को उठा लिया जाए, तो उस न्याय के दिन परमेश्वर के क्रोध की आग खड़ी होगी ताकि उस वृक्ष की फिर से रक्षा करे। अदन के इस फाटक में फिर से केवल एक ही चीज प्रवेश करेगी, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा होगा। आपने इसे देखा?

289 अब, ध्यान दे। जी हाँ, अब कैन... ओह, यहाँ पर कैन है; और यहाँ पर हाबिल है, हाबिल। तो ठीक है। अब दोनों लड़के इस द्वार पर आराधना करने आते हैं। क्या यह सही है? तो यह अवश्य ही परमेश्वर की वेदी रही होगी। क्या यह सही है? और इस वेदी के आगे उन्होंने एक और प्रतिस्थापन वेदी बनाई। यहाँ पर परमेश्वर की सच्ची वेदी है, ये मनुष्य के हृदय में है। उसके बाद यहाँ नीचे एक और वेदी है, जो पवित्र स्थान में परम पवित्र स्थान का प्रतिनिधित्व कर रही थी।

290 ओह! ओह! मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे अन्य जुबान में बोलूँ। ओह, प्रभु, महिमा हो... क्या आप नहीं देख सकते यह एकदम सिद्ध है? बस ध्यान दें! ओह, मेरा ऐसा कहने का कारण, क्योंकि मैं अपनी अंग्रेजी बोली में पर्याप्त शब्दों को नहीं पा सकता हूँ ताकि मेरी भावना को व्यक्त करूँ। देखिए, कुछ तो व्यक्त करना है।

291 भाई रोवे के जैसे, राष्ट्रपति के राजनीतिज्ञ... जो लगभग चार या पांच अलग-अलग राष्ट्रपतियों के थे, उन्होंने कहा, "ओह, भाई ब्रंहम, एक रात मैं सभा में आया।" उसने कहा, "मैं नहीं जानता था कि क्या करना है," उन्होंने कहा, "मैं वहाँ बाहर खड़ा था।" और उन्होंने कहा, "ओह," कहा, "मैंने जीवन भर प्रभु से प्रेम किया है।" उसने बोला, "मैं एक" (मैं सोचता हूँ) "एपिस्कोपेलियन।" उसने कहा, "और मैंने सोचा कि मैं प्रभु को जानता हूँ।" उसने कहा, "और एक रात को मैंने यहाँ वहाँ देखा, मैं नहीं जानता था कि क्या करना है।" कहा, "मैं—मैं बिना किसी भी बात के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन" कहा, "मैंने वचन को आगे आते हुए सुना। ओह, यह आना आरंभ हुआ।" उसने कहा, "मैं तंबू के बाहर ऊपर-नीचे चलना आरंभ किया, आगे-पीछे चलने लगा," और कहा "तुरंत ही मैं दरवाजे तक जाने का इंतजार भी नहीं कर सकता था, जब वेदी की पुकार हुई, तब मैं इसके नीचे धीरे-धीरे चलने लगा, और वेदी की ओर दौड़ा और नीचे गिर पड़ा, कहा, 'प्रभु, मैं एक पापी हूँ!'" और कहा, "तब उसने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया।"

292 और कहा, "मैं आठ अलग-अलग भाषाएं बोल सकता हूँ," क्योंकि वो एक राजनीतिज्ञ है। देखा? वह एक... वह एक उसमें... वो—वो एक—एक राष्ट्रपति का एक राजनीतिज्ञ है, और... वुडरो विल्सन से लेकर अब तक के जितने भी है। वह हमारे प्रत्येक राष्ट्रपति के लिए एक राजनीतिज्ञ रहे हैं, विदेशी राजनीतिज्ञ, कोई भी विदेशी भाषा को बोल सकते हैं। उसने कहा, "मैं व्यावहारिक रूप से संसार की हर ज्ञात लिखित भाषा को जानता हूँ।" लेकिन कहा, "मैं इतनी महिमा से भरा हुआ था कि मैं उनमें से किसी भी भाषा का भी उपयोग उसकी स्तुति करने के लिए नहीं कर सकता था, इसलिए प्रभु ने मुझे उसकी स्तुति करने के लिए स्वर्ग से एक नयी भाषा को दिया है।" ओह! ओहह! आप वहाँ हो।

293 "इस फाटक का पहरा देना।" कैन और हाबिल यहाँ आराधना करने के लिए आये। सो यह अवश्य ही एक वेदी रही होगी जिसका वे पहरा देते हैं। क्या यह सही है, ये करूब?

294 एक और बात, यहाँ एक और प्रमाण पर ध्यान दें। कैन... देखो अब बाईबल को देखें! मैं चाहता हूँ कि आप इसकी ओर मुड़ें, लेकिन यह... कोई बात नहीं, आपको ये उत्पत्ति में मिलता हैं। तो ठीक है, देखो। कैन

चला गया, कैन प्रभु की उपस्थिति से वाटिका के फाटक से बाहर चला गया। तो प्रभु की उपस्थिति अवश्य ही वेदी पर रही होगी, और वेदी फाटक पर थी। महिमा! ओह! तो ठीक है। यह परमेश्वर का वास करने का स्थान है, उसकी वेदी पर। अब, कैन इस स्थान से, प्रभु की उपस्थिति से चला गया। आप इसे लिख कर रखना चाहते हैं? उत्पत्ति 4:16, यदि आप इसे लिखना चाहते हैं। अब, अब, आपने यह सब लिखा है, क्या आपने लिख दिया है?

295 अब, मेरे पास कुछ और भी है जिसे मैं यहाँ केवल एक मिनट में चित्रित करना चाहता हूँ। मैं बस आशा करता हूँ कि आपकी कोई भी फली की सब्जी नहीं जल जायेगी, या आप पर कुछ भी नहीं होगा... अब, ध्यान दे... उन्हें जलने दो, इसमें कोई बात नहीं, वे वैसे भी सड़ जाएंगे। आइये— आइये हम यहाँ इस विषय में सोचते हैं, यह—यही वह चीज है यही—यही वास्तविक है।

296 मूसा को स्वर्ग में उठा लिया गया था, मूसा को धरती पर से ऊपर स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की वेदी को देखा। क्या यह सही है? मैं यहाँ अपने तथ्य को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप नहीं जानते? तो ठीक है। वह परमेश्वर की उपस्थिति में ऊपर चला गया। और जब वह परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे उतरा, उसने कहा, मू—... परमेश्वर ने मूसा को बताया, “धरती पर हर एक चीज को स्वर्ग के अनुसार नमूने के रूप में बनाओ।” क्या यह सही है? तो ठीक है।

297 अब, जब उसने ऐसा किया, जब उसने वाचा का सन्दूक बनाया, तो उसने सन्दूक के पहरे के लिए दो करूबों को रखा। देखा कि यह क्या है? यह मंदिर था... ये वेदी थी, सिंहासन के पहरेदार। वे दो करूब, उसने कहा “उन्हें पीतल में से बनाओ, और उनके पंखों को इस तरह से छूते हुए रखो,” क्योंकि बिल्कुल ठीक इसी तरह से उसने स्वर्ग में देखा था।

298 ठीक यही है जो यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा, ये चार करूब स्वर्ग में सिंहासन के सन्दूक के चारों ओर हैं। वे सन्दूक को पहरा दे रहे थे। करूब, दया के आसन पर पहरा दे रहे थे।

299 यदि आप उस वचन को पढ़ना चाहते हैं (हमारे पास उस पर जाने का समय नहीं है), तो निर्गमन 25:10 से लेकर 22 लिख कर ले ले।

300 अब, वे दया के आसन को पहरा देते हैं जब परमेश्वर अपनी तेजोमय महिमा में होता है। तेजोमय महिमा कहाँ थी? दया के आसन पर। क्या यह सही है? वे उस तेजोमय महिमा का पहरा देते हैं। हम्म! व्यूह! सुनना, मित्रों! उसके बाद यह दिखाता है कि हर एक दुष्ट या चालबाज वहां नहीं आ सकता और उसे नहीं ले सकता है। इसकी उपस्थिति के अंदर आने से पहले आपको तैयार होना होगा।

301 नमूने के रूप में हारून को देखें। इससे पहले... अब, याद रखें, उन दिनों के सभा के लोग यहाँ तक किसी भी आचरण या ढंग से इसके अंदर नहीं पहुँच सकते थे। लेकिन जब हारून अंदर गया... उसे इसके अंदर कितनी बार जाने के लिए मिलता था? वर्ष में एक बार। उसके पास कैसे... ? उसे विशेष वस्त्रों को पहनना होता था, जिसे किसी विशेष हाथों से बनाया गया था, एक अनोखे तरह के वस्त्र। उसे इस तरह से वस्त्र पहनने होते थे। उसके पास उसमें कुछ अनारदाने और कुछ घंटी लगी होती थी, जो हर बार उसके चलने पर ये बजती थी "पवित्र, पवित्र, पवित्र, प्रभु के लिए।" वह लहू के साथ दया के आसन के निकट पहुँच रहा था।

302 और उसे एक विशेष तेल से अभिषेक होना था, शारोन के गुलाब से बना एक विशेष सुगंध का इत्र लगाना था। और यीशु वो शारोन का गुलाब था। और, ध्यान दें, गुलाब एक सुंदर चीज है, इसमें इत्र होता है। लेकिन इससे पहले कि इत्र को बाहर निकाल सके, गुलाब को कुचलना पड़ता है, और उसके बाद गुलाब से इत्र को निचोड़ा जाता है। यीशु, उसके जीवन में, जो अब तक का सबसे सुंदर जीवन था; लेकिन वो उसी तरह से नहीं रह सकता, क्योंकि उसे अपनी कलीसिया का अभिषेक करना था (ताकि उसके परम पवित्रता तक पहुँचे), इसलिए उसके जीवन को निचोड़ दिया गया था। और वही पवित्र आत्मा जो उस पर था ये कलीसिया पर डाला गया है, और यह उसे कल, और आज, और युगानुयुग एक सा, शारोन का गुलाब, उसका इत्र, बना देता है। वो व्यक्ति जो इस परम पवित्र स्थान के अंदर की ओर आ रहा है, उसका उसी पवित्र आत्मा से अभिषेक किया होना है। और जैसे वो चलता है, "पवित्र, पवित्र, पवित्र, उस... " (ना ही अपने मुँह में सिगार को लिए हुए।) "पवित्र!" (ना ही अपने कॉलर को घुमाये हुए।) "पवित्र, पवित्र, पवित्र," यीशु मसीह की पवित्रता के वस्त्र को पहने हुए। हम्म! आप कितने अद्भुत हैं! ओह!

303 अब, “दया का आसन।” अब दया का आसन हृदय में है, आसन जहां से उसकी महिमा आगे उसके—उसके सारे बच्चों की ऊपर चमक रही है, मनुष्य के हृदय में उसकी तेजोमय महिमा। यहाँ मनुष्य का हृदय है। क्या यह सही है? क्या यह दया का आसन है? आप इसमें से होते हुए इसके अंदर कैसे आते हैं क्या इन भिन्न-भिन्न सिद्धांतों में से होते हुए? खुद की इच्छा में से होते हुए, खुद की इच्छा। यहाँ इसमें आते हैं, और वहाँ से होते हुए, बाहर क्या आता है? तेजोमय महिमा। तेजोमय महिमा क्या—क्या है? ये परमेश्वर की उपस्थिति है। और जब कोई पुरुष चल रहा होता है, या एक महिला, तो वो तेजोमय महिमा को प्रतिबिंबित करता है। वह जुए के अड्डों में नहीं जाता है और—और ऐसे ही जारी रखे, और यहां से बाहर जाकर और वचन का इन्कार करे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, उसका हृदय एक बात पर स्थिर रहता है: परमेश्वर। और यदि वो सचमुच परमेश्वर का बुलाया हुआ है, तब यीशु मसीह उसमें से होते हुए तेजोमय महिमा के साथ स्वयं को प्रतिबिंबित करता है, उन्हीं कामों को करते हुए जो उसने वहां पहले किये थे; उसी सुसमाचार को प्रकट करता है, उसी वचन का प्रचार करते हुए, वही वचन प्रकट बना उसी माप में जो ये तब था, वैसे ही जैसे यह वास्तव में पेंटीकोस्ट पर था, इसे वापस फिर से माप में दिया गया है। ओह, प्रभु!

304 “दया का आसन।” यहजेकेल और यूहन्ना दोनों ने एक जैसी बातों को देखा। अब, ध्यान दें, अब हम अंत में पहुँचने पर हैं, बस ही थोड़ी देर में। अब, यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीजों को पकड़े। ओह, कृपया इसे मत चूकना! अब, कितने लोग जानते हैं कि वे करूब जीवित प्राणी थे न कि पशु? वे... एक सबसे उच्च वर्ग में थे।

305 अब, क्या एक दूत एक मनुष्य की तुलना में उच्च वर्ग में है या एक निचले वर्ग में है? तो ठीक है, श्रीमान। कौन सबसे बड़ा है, परमेश्वर का पुत्र या एक दूत? परमेश्वर का पुत्र! परमेश्वर किसकी ज्यादा सुनेगा, एक दूत जो उसके सामने खड़े होकर कुछ तो विनंती कर रहा है, या आप सब में से कोई एक जो विनंती कर रहा है? आप सब में से एक की! देखो, क्योंकि आप बेटे और बेटियाँ हो। वे—वे तो दास हैं। समझे? वे दास हैं, और आप पुत्र और पुत्रियाँ हो। तो देखा आपके पास क्या अधिकार है, हम बस इसका उपयोग करने से डरते हैं।

306 अब, मैं चाहता हूँ कि आप यहां ध्यान दें, यह सुंदर है। ओह, प्रभु! मैं यहां पर आऊंगा और इसमें से कुछ को छोड़ दें जिससे कि मैं इस पर जा सकूँ। अब अपनी कलम को उठा ले, यहाँ है ये जिसे मैं वास्तव में चाहता था कि आप चित्रित कर ले। [भाई ब्रह्म ब्लैकबोर्ड पर चित्र को बनाते हैं—सम्पा।] हो सकता है मैं इसे थोड़ा छोटा सा बनाऊँ। अब, इस्राएल उनकी यात्रा में, जब उन्होंने तंबू को डाला था, तो अब इस पर ध्यान दें, उन्होंने तंबू डाले: एक, दो, तीन, चार। (नहीं, सोचता हूँ कि मैं गलत हूँ।) एक, दो, तीन; एक दो तीन; एक दो तीन; एक दो तीन; इसी प्रकार से उन्होंने दया के आसन के चारों ओर तंबू डाले। अब, मैं जानता हूँ, आप सभी यह जानते हैं, आपने पुराने नियम को देखा और पढ़ा है।

307 अब, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, ठीक यहाँ, मैं इसे नीचे डाल दूँगा ताकि आप इसे समझ के सुनिश्चित कर सकें। पूर्व, पूर्व की ओर हमेशा ही यहूदा था। यह फाटक है, जे-यू-डी-ए, यहूदा। और यहूदा के साथ... तीन गोत्रों का सिर उनके झण्डे के साथ था; उनके झण्डे के साथ तीन गोत्र, यहूदा का झंडा। आपको याद है... कितने लोगों ने *दस आज्ञायें* फिल्म देखी है सेसिल डेमिल की *दस आज्ञायें*? तो ठीक है। या, आप इसे ठीक यहाँ वचन में पढ़ते हैं, मतलब वहाँ वचन में पढ़ते हैं, पूर्व की ओर यहूदा था। तो ठीक है।

308 पश्चिम की ओर, यहाँ नीचे, (अब आप इसे लिख कर रखें, आप इसे पढ़ें ठीक... यह निर्गमन पर है, और इत्यादि, जब वे बाहर निकले।) एप्रैम था, ई-पी-एच। और उसके झण्डे के साथ तीन गोत्र थे। तो ठीक है, एप्रैम।

309 अब, और दक्षिण की ओर रूबेन था, आर-यू-बी, जिसके तीन गोत्र थे, और उनका झण्डा।

310 और उत्तर की ओर दान, दान, और तीन गोत्र, और तीन गोत्र और उनका झण्डा था। तो ठीक है।

311 अब, इस तरह से उन्होंने तंबू को डाला। अब, याद रखें, आइए अब वचन में पढ़ते हैं ताकि हम इसे बिल्कुल सही से समझ सकें। मैं 7वें पद पर वापस आरंभ आऊंगा:

और... पहिला प्राणी सिंह के समान था, और दूसरे प्राणी...
का मुंह बछड़े के समान था, (या एक युवा बैल)) तीसरे प्राणी

का मुंह मनुष्य का समान था, और चौथा प्राणी... और... चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान था।

और चारों प्राणियों के हर एक के पास उसके छह, छह पंख थे; और चारों ओर, और भीतर आंखे ही आंखे हैं; और वे रात और दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, कि पवित्र, पवित्र, ... प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, जो था, और जो है, और जो आने वाला है।

और जब वे प्राणी उस की जो सिंहासन पर बैठा है, और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद देते हैं,

तब चौबीसों प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के साम्हने गिर पड़ें, और उसे जो युगानुयुग जीवता है आराधना करते हैं, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के साम्हने यह कहते हुए डाल— डाल देते हैं,

कि हे हमारे प्रभु, तू ही महिमा... आदर... और सामर्थ के योग्य है; क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजीं और वे तेरी ही इच्छा से थीं, और सृजी गईं।

312 अब, अब, आप देखना। पूर्व दिशा की ओर—पूर्व दिशा की ओर, उसने किस प्रकार के एक मुख को देखा? यदि आप ध्यान से तो वो सिंह था, एल-आई-ओ-एन, यह वो झंडा था। यही—यही वो यहूदा का मान्य झंडा था। क्योंकि वो... यीशु वहीं से बाहर... सत्य है! और वह यहूदा के गोत्र का सिंह है।

313 अब, कितने लोगों ने कभी नक्षत्र को देखा है? आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि यह क्या है: तारा। समझे? यह परमेश्वर की पहली बाईबल थी। अब, यह किस से आरंभ होता है, नक्षत्र में पहली राशि, पहली राशि? ये कुंवारी है! क्या यह सही है? और अंतिम क्या है? सिंह, सिंह। पहला आगमन और मसीह का दूसरा आगमन, वहां सभी में से होते हुए। उन्हें आडा-तिरछा केकड़ा मिलता है... मेरा मतलब आडा-तिरछा युग बस वहीं है जहां यह आड़ी-तिरछी मछलियां हैं, जो कि केकड़ा युग है, और हम ठीक इसमें से होकर रहते हैं।

314 और ध्यान दे पिरामिड, जब उसने इसे बनाया, हनोक के समय में, हर एक पत्थर उसमें था। वे बिल्कुल ठीक-ठीक उन चीजों को माप सकते

थे और युद्धों और चीजों को बता सकते थे। हर एक चीज पूरी है सिवाय सिरों के पत्थर के। क्यों? आप अपने डॉलर के नोट पर ध्यान दिया है? इसे निकालकर और देखो, इसे ढांपा हुआ नहीं है। क्यों? इसे कभी भी ढांपा नहीं गया था। मसीह वह सिरों का पत्थर है जिसे टुकराया गया था, वह टुकराया हुआ सिरों का पत्थर था। वो बहुत ही जल्द वापस आ रहा है। देखो कैसे वो कलीसिया, बहुत पहले वहां लूथरन युग में, नीचे की तरफ चौड़ा था; उसके बाद संख्या कम हो जाती है, फिर थोड़ी संख्या और कम हो जाती है, थोड़ा और कम जब तक ये ठीक नीचे तक नहीं आ जाता है; ये पेंटीकोस्टल युग को छोड़ने के बाद, ये नीचे आकर उसमें हर एक पत्थर पर फिट बैठता है, ताकि वहां उस पर सिरों को रखे, एक कलीसिया जो यीशु को कल, आज और युगानुयुग के लिए एक सा लेकर आयेगी। बस उतने ही सिद्ध रूप से जितना ये हो सकता है!

अब, वो यहूदा के गोत्र का सिंह था।

315 अब, कोई भी जो हमेशा बाईबल को पढ़ता है वो जानता है कि दान की संख्या क्या थी, या क्या—क्या दान... ओह, मेरा मतलब है क्या, जी हाँ, दान क्या था? उसका, वो एक उकाब था। यह सही बात है। वो एक उकाब था। कोई बाईबल पढ़ रहा है। वो एक उकाब था।

316 अब, रूबेन वह मनुष्य था। वह पहला एक था, जो झुंड में सबसे कमजोर था। क्या उत्पत्ति 49 में—में याकूब ने ऐसा नहीं कहा? “रूबेन, तू मेरी शक्ति का पहला भाग है; लेकिन जल की नाई, तू मेरी ही खाट पर चढ़ा, और मेरे खाट को अशुद्ध किया,” और वो अपने पिता की रखेल के साथ रहा था। देखिए, यही मनुष्य जाति की अनैतिकता या चरित्रहीनता है। आप समझे? जानवरों के पास वे अनैतिकतायें नहीं होती हैं, न ही सिंह में, इन में से किस के भी पास नहीं होती हैं; लेकिन मनुष्य ऐसा करता है, दूसरे पुरुष की पत्नी और आदि के साथ भागता फिरता है। बिलकुल जैसे... बस वही चीज, हर एक चीज पूरी हो गयी है।

317 अब, यह यहाँ नीचे, ये, दान एक उकाब था। और, ये, रूबेन मनुष्य का मुख था। और एप्रैम बैल है। अब, आपको वहां वो तस्वीर मिल गयी? एप्रैम... बाईबल में इसी तरह से उन्होंने तंबू को डाला था।

318 अब, यदि आप ध्यान दें, दान तीन गोत्रों का प्रमुख है, यहूदा तीन गोत्रों का प्रमुख है, रूबेन तीन गोत्रों का प्रमुख है, और एप्रैम तीन गोत्रों

का प्रमुख है। तीन गुणा चार बारह होते हैं, इस्राएल के बारह गोत्र। देखो, हर एक अपने झंडे के साथ है; और यहूदा का झण्डा सिंह था; रूबेन का झण्डा, मनुष्य; एप्रैम का झण्डा, एक बैल; दान का—का—का झण्डा एक उकाब था।

319 अब, यहाँ वापस देखें कि यूहन्ना ने क्या कहा, “और एक का मुख... ” आइए अब यहां पर पढ़ें, बस देखें कि क्या यह वही चीज नहीं है जो स्वर्ग में थी:

... वो पहला पशु सिंह के समान था, (यहूदा)... दूसरा पशु एक बछड़े के समान था, (यह एक युवा बैल है) ... तीसरा पशु एक मनुष्य का मुख था, और चौथा पशु था... एक उड़ता हुआ उकाब।

320 ठीक वैसे ही इस्राएल के गोत्रों ने चारों ओर तंबू डाले, पहरा दे रहे हैं, वे ठीक सन्दूक तक धरती पर के रक्षक हैं। ओह, हाज़्ज़ेलुय्या! क्या आप इसे नहीं देखते हैं?

321 यहां! दया, एम्-ई-आर-सी-वाय एस-ई-ए-टी, “दया का आसन।” उन गोत्रों को पार किए बिना इसके आसपास कहीं भी कोई भी नहीं आ सकता था। किसे पार किये बिना? सिंह; मनुष्य को पार करना, मनुष्य की बुद्धिमत्ता; और सबसे परिश्रमी मनुष्य को पार करना, जैसे एक बैल; या उकाब को पार करना, उसके वेग को। समझे? आकाश, धरती, बीच में, और चारों ओर; आप देखो, वे पहरेदार थे। और इसके ऊपर अग्नि का स्तंभ था। भाई, उस दया के आसन को कोई भी नहीं छुता है बिना यहां पहुँचे...

322 और केवल एक चीज जो उस तक जा सकती थी ये लहू में से होते हुए था। हारून वर्ष में एक बार लहू को लेकर वहाँ जाता था। अब आप इसे देखते हैं? अब, देखो। तीन जातियों के प्रत्येक प्रमुख दया के आसन का पहरा देते हैं, पुराने नियम का दया का आसन। अब, क्या आप हर एक ने इसे लिख दिया है? अब, यहाँ एक नया है, भाई। इसे सुनना, उसके बाद हम चले जायेंगे। अब, याद रखें, यह पुराने नियम के पहरा देने वाले थे। कितने लोगों ने इसे कभी बाईबल में पढ़ा है, आप जानते हैं कि क्या यह सही है? देखिए, यह पुराने नियम के पहरा देने वाले हैं।

323 अब हम दूसरे युग में जी रहे हैं। महिमा! ओह, मैं इस युग को प्रेम करता हूँ! क्या आप नहीं करते? अब, परमेश्वर के पास आज दया का आसन है जिसकी रक्षा की जानी है। क्या आप यह विश्वास करते हैं? दया का आसन कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के हृदय में। मनुष्य के हृदय में ये कहाँ से आया? पेंटीकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा (जो कि परमेश्वर है) मनुष्य के हृदय में आया। क्या यह सही है? अब, इसे यहां चिह्नित कर ले, और यदि आप चाहें तो इसका चित्र बनाने के लिए तैयार हो जाएं। पेंटीकोस्ट, पी-ई-एन-टी, मैं पेंटीकोस्ट लिखूंगा। यह दया का आसन है, पवित्र आत्मा। यहां लिखे... मैं आपको बताऊंगा कि क्या, इसे और अधिक उपयुक्त बनाते हैं, आइए यहां पर "पिंडुक" लिखेंगे जिसका अर्थ है... पक्षी, देखो। तो ठीक है, दया के आसन का पहरा दे रहे हैं, क्या अब परमेश्वर को आज दया आसन के पहरेदार मिल गए हैं? अब यह... अब, देखें कि इसे कितना सुंदर चित्र बनाया गया है।

324 मैं एक दिन बैठा हुआ था और इसे देखा, और मैं बस उछल पड़ा और कुर्सी के गोल-गोल और गोल-गोल ओर गोल-गोल दौड़ने लगा, ऐसे कहते हुए, "महिमा! महिमा! महिमा! महिमा! महिमा," गोल-गोल, गोल-गोल। चालीं, मैं कभी-कभी जंगल में जितना करता हूँ उससे भी ज्यादा मेरा बर्ताव होगा। बहन नेल्ली, यदि मैं ऐसा बर्ताव करता हूँ, तो आप मुझे अपने घर से बहुत जल्दी निकाल देंगी। हुह? ओह, मेरे पास तब एक महिमामय समय था। अब देखो, यह क्या था, प्रभु ने क्या किया।

325 अब, पेंटीकोस्ट, पेंटीकोस्ट, के बाद, एक किताब लिखी (क्या?) पवित्र आत्मा के कार्य ए-सी-टी-एस। क्या यह सही है? प्रेरितों के काम की शुरुआत किससे होती है, उद्धार में प्रवेश करने वाली पहली चीज? प्रेरितों के काम 2:38। यहाँ यह लगभग आखिरी है। क्या यह सही है? "वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा में बोलना आरंभ किया। और पतरस उठ खड़ा हुआ और उन्हें एक उपदेश को प्रचार किया। उन्होंने कहा, 'हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें इसके अंदर कैसे जाते हैं?' उसने कहा, प्रेरितों के काम 2:38, 'पश्चात्ताप करो, और तुम में से हर एक जन, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले।'"

326 अब, याद रखना, परमेश्वर के पास उस—उस दया के आसन के लिए कुछ पहरेदार हैं। वे किस दया के आसन का पहरा देते हैं? तो ठीक है।

एम-ए-टी-एच, मत्ती, पूर्व में; लुका, लुका; मरकुस; और यूहन्ना। उनके सारे चार सुसमाचार आने वाली प्रेरितों के काम की किताब को प्रमाणित करते हैं, वे इसे कहीं पर भी पहरा देते हैं जहाँ कहीं भी आप इसे देखना चाहते हैं।

327 आइये बस एक को लेते हैं, बस एक, हमारे पास समय नहीं है। मैंने यहाँ बीस या उससे अधिक लिखे हुए हैं, लेकिन आइये इस उद्धार के विषय के लिए एक को ही लेंगे। क्या हमारे पास प्रार्थना करने का समय होगा? नहीं, यह एक बजे है, इसलिए मुझे लगता है कि हम यह नहीं कर पायेंगे जब तक आप बीमारों के लिए सभी प्रार्थना नहीं करना चाहेंगे। अब, मेरे पास... मेरे पास अभी काफी समय है। देखा? तो ठीक है।

328 अब, इस पर ध्यान दें! मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये क्या है? सुसमाचारों की धरती पर की संख्या, चार। तो ठीक है, ध्यान दे।

329 अब, मत्ती 28:19। 28, अब, यही है जहाँ आप त्रिकता वाले भाई लोग जाते हैं, 28:19। तो ठीक है। मत्ती के अध्याय के अंतिम भाग में, कहा, "इसलिए जाओ, सभी राष्ट्रों को सिखाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो"; लेकिन यहाँ पेंटीकोस्ट के पास आता है, और पतरस ने कहा "पश्चाताप करो, और यीशु के नाम में बपतिस्मा लो।"

330 वहाँ कुछ तो गलत है। "मत्ती, क्या तू पूर्वी फाटक का पहरा देने वाला है?"

331 फाटक कैसा है? फाटक क्या है? यीशु। यीशु ने कहा, "सकेत है वो फाटक।" क्या यह सही है? क्या ऐसा उच्चारण है... इसे कैसे उच्चारण किया जाता है, एस-टी-आर-ए-आई-टी या एस-टी-आर-ए-जी-एच-टी? एस-टी-आर-ए-आई-टी का अर्थ होता है "जल," "जल ही फाटक है।" आप अंदर कैसे आते हो? "तुम में से हर एक जन पश्चाताप करे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले," फाटकों को खोल देता है। ऐ! व्यूह!

332 "ओह, लेकिन, भाई ब्रंहम, आपने मत्ती 28:19 को वहाँ नीचे रखा है।" यह बिल्कुल सही है। "लेकिन, मत्ती, क्या तू इसका पहरेदार है?"

"निश्चय ही, मैं पूरी तरह पहरेदार हूँ।"

333 अब मत्ती 1:18 को निकाले और देखें कि यह क्या कहता है, देखें कि क्या यह इसका पहरा करता है—पहरा करता है। देखें कि क्या मत्ती

1:18 मत्ती 1... 28 का पहरा कर रहा है और प्रेरितों के काम 2:38। देखें कि क्या यह इसका पहरा करता है!

अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ था:...

“यहाँ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा है,” वे कहने की कोशिश करते हैं।

... अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ: कि जब... उस की माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उन के इकट्ठे होने के पहिले, वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई।

कौन सा एक? यह उन दोनों को एक रखा!

और यह जो था... सब... हो गया... और देखो,...

अब उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, ... और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसने इस तरह से उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की।

... देखो, प्रभु का दूत, उतर रहा है, उस पर उतरा (आप जानते हो।) और कहा, हे यूसुफ दाऊद की सन्तान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर; क्योंकि जो उसके गर्भ में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है। (देखा?)

और वह पुत्र को जनेगी, ... और तू उसका नाम यीशु रखना:...

यह... सब कुछ... इसलिये हुआ कि जो वचन... भविष्यव्यक्ता के द्वारा कहा था,...

जो कि, एक कुंवारी गर्भवती होगी... (यशायाह 9:6)... एक कुंवारी गर्भवती होगी, और... एक पुत्र जनेगी, और वे उसका नाम पुकारेंगे... [सभा कहती है, "इम्मानुएल।" —सम्पा।]

334 क्या वो इसका पहरा देता है? “पिता, पुत्र, और पवित्र आत्मा,” पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, बस यही: उस एक नाम के शीर्षक। तो पहरेदार ठीक वहां खड़ा होता है उसका समर्थन देने के लिए। आपने इसे समझा? ओह, प्रभु! अब, कितने यह जानते हैं? यहाँ है यह! वो एक पहरेदार है।

335 अब, आइये बस... मेरे पास उद्धार के लिए दूसरों की तमाम ढेर सारी चीजे है, इन दूसरों को लूं। लेकिन अब यदि हम बस कुछ ही मिनट में

प्रार्थना की पंक्ति लेने जा रहे हैं, लगभग दस मिनट के लिए तो आइए यहां कुछ और प्रयास करें बस कुछ मिनट के लिए। आइए अब कुछ वचनों को लें। मैंने यह कहाँ लिखा है? यहाँ है ये। तो ठीक है।

336 अब आइए लेंगे और देखेंगे कि क्या मत्ती अब यहाँ पर दिव्य चंगाई के लिए इसका पहरा देगा। अब आपने अपनी पेंसिल और चीजों को ले लिया, जो आप इसे लिख रहे हैं? तो ठीक है। देखें कि क्या मत्ती विभाजित... इसका पहरा देगा। आइए मत्ती 10:1 को लें।

337 आइए लेंगे और देखें कि क्या यूहन्ना... बस एक या दो, आइए दो ले लेंगे, या इसमें से जो एक या दो को, यूहन्ना 14:12, और 15:7 को लें।

338 देखें कि क्या वे परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर दिव्य चंगाई का पहरा दे रहे हैं! मरकुस 16, मरकुस 11:21 और 22।

लूका 10:1 से लेकर 12, और लूका 11:29 से लेकर 31 तक। आइए उनमें से कुछ में से होकर जल्दी से जायेंगे, देखें कि क्या वे पहरा देते हैं, देखें कि क्या वे दिव्य चंगाई के लिये सीधे पहरा देते हैं ठीक वैसे ही जैसे वे यीशु के नाम के बपतिस्मे के फाटक के लिए पहरा देते हैं। हम इसे उनमें से प्रत्येक में से होकर ले सकते हैं। यह सही बात है।

339 अब आइए हम तब वापस जाएंगे और देखेंगे मत्ती 10:1। अब वापस पीछे जाये तो हम... और उसके बाद हम लगभग और पाँच, दस मिनट में बंद करेंगे, अधिक से अधिक, प्रभु की इच्छा हुई तो। तो ठीक है, आइए हम मत्ती 10 को लें, देखें कि क्या मत्ती प्रेरितों के कामों का पहरा देता है।

340 क्या आपने ऐसा सोचा था कि—कि परमेश्वर अपने वचन के चारों ओर पहरा नहीं देता है? देखें कि क्या यह बैल, सिंह, मनुष्य, उकाब अब भी यहाँ धरती के उन फाटकों पर बैठे हुए नहीं है? यहाँ वे सुसमाचार है, चार सुसमाचार। देखा? और, आप ध्यान दें, वे जिस तरह भी गए, वे सीधे आगे की ओर बढ़े। वे एक दूसरे के विपरीत या खंडन नहीं करते हैं, वे एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। देखा? एक मनुष्य की चतुराई के साथ जाता है; दूसरा उकाब के वेग से चला जाता है; दूसरा एक पास्टर है... एक सुसमाचारक है, ताकि सुसमाचारक की तरह उड़े, देखो; दूसरा एक पास्टर है; दूसरा एक बलवान है; दूसरा एक चतुर है। देखो, हर तरफ से पहरा है, परमेश्वर इस पवित्र आत्मा सुसमाचार का पहरा दे रहा है! इसे विश्वास करें, भाई! तो ठीक है।

341 आइए अब मत्ती 10:1 को लेंगे।

और जब उस ने उसके बारह चेलों को अपने पास बुलाया, तब उस ने उनको सामर्थ दी... (हम्म!)

वे ऊपरी कोठरी में इकट्ठा हुए,
वे सभी उसके नाम में प्रार्थना कर रहे हैं,
पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया,
और सेवा के लिए सामर्थ आ गई;
उसने उन के लिए उस दिन जो किया
वह तुम्हारे लिये भी वही करेगा,
मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से
एक हूँ।

342 ओह, अब बस एक मिनट बालक को शांत करें। जरा सुनना, ध्यान से सुनना:

... और उन्हें अशुद्ध आत्माओं के विरुद्ध सामर्थ दी,...

343 बहुत से पास्टर अशुद्ध आत्माओं को अपने कलीसिया में बने रहने देते हैं; महिलाओं के वस्त्र, नाटक, ताश के पत्तों की पार्टियाँ, जुआ के खेल, नाच, सूप भोज, हर एक... ओह, दया!

... अशुद्ध आत्माओं के विरुद्ध, ताकि उन्हें बाहर निकाले, और हर तरह की बीमारियाँ और हर तरह के रोगों को चंगा करने के लिए।

344 उस पहरेदार को वहाँ फाटक पर बैठे हुए देखा? सुसमाचार का पहरा ताकि प्रेरितों के काम की उस किताब का समर्थन करने के लिए जो लिखी गयी थी!

345 अब, ज्यादा समय नहीं हुआ मैंने एक बड़े शिक्षक को सुना, कहा... एक... एक महान मनुष्य, भला मनुष्य, उससे मिला, उससे हाथ मिलाया, एक भला भाई। उसने कहा, "लेकिन प्रेरितों के काम कलीसिया के लिए सिर्फ एक रूपरेखा या ढांचा था।" हुह! दूसरे शब्दों में, उसके पास यहाँ पर ढांचा या रूपरेखा थी, देखो। जब, प्रेरितों के कार्य अंदर थे, और ये सुसमाचार का ढांचा या रूपरेखा हैं ताकि इसे एक साथ थामे रखे और इसकी रक्षा करें। देखें कि की तरह से उस—उस—उस एक मनुष्य का

दिमाग कुछ भी कर सकता है। यदि ये उसके लिए नहीं होता तो मैं भी यही सोचता। देखा?

346 वो रूपरेखा या ढांचा, पेंटीकोस्ट सुसमाचार का ढांचा या रूपरेखा नहीं थी। चार सुसमाचार रूपरेखा हैं उस पेंटीकोस्ट के समर्थन के लिए! उसके बाद उनके पास ये ढांचा या रूपरेखा थी, पेंटीकोस्ट अस्तित्व में आ गया। क्या यह सही है? जिसे पहले लिखा गया था, कार्यों की किताब या—या प्रेरितों की? प्रेरितों। यीशु कामों को करते हुए चलता रहा और भविष्यवाणी कर रहा था कि क्या होने वाला है, और मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, वे चार पहरेदार आए, और जो कुछ बातों को घटित होते हुए देख रहे थे, वे सब कुछ लिख रहे थे, बिल्कुल जैसा है वैसा ही बता रहे थे, ये कैसे घटित होने जा रहा था, क्या बात जगह लेने जा रही थी। उसके बाद सभी एक ही बार में उन्होंने इसकी लगभग रूपरेखा की, और यह आ गयी! आमीन! मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये ढाँचा या रूपरेखा है, या पहरेदार का काम जो मुख्य मंदिर, सिंहासन, पेंटीकोस्टल की आशीषों की रक्षा करता है।

347 ना ही पेंटीकोस्टल संप्रदाय की, भाईयों, बहनों, वे सम्पूर्ण बातों से वापस बाहर निकल आये हैं, उह—हम, किसी भी अन्य कलीसियाओं की तुलना में बहुत ही पीछे चले गये हैं। जो लूथरन थे उनकी तुलना में बहुत दूर जा चुके हैं। उन्होंने जो किया लूथरन ने उससे थोड़ा बेहतर बनाये रखा, और यह सही बात है, और अधिक इसके जैसे है। बस बिल्कुल ठीक, जीन, क्योंकि, अब, मैंने यीशु को लूथरन कलीसिया के बाहर नहीं देखा, जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है... क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो पहले स्थान पर कभी था ही नहीं। लेकिन वो—वो पेंटीकोस्टल कलीसिया में था और उसे बाहर रखा गया था। यह सही बात है।

अब, मत्ती 10:1।

348 आइए अब हम यहां यूहन्ना 14:12 की ओर जायेंगे और देखें कि क्या—क्या—क्या यूहन्ना पेंटीकोस्ट की बहुमूल्य बातों का समर्थन करने और उनका पहरा देने जा रहा है। यूहन्ना, 14वा अध्याय और 12वें पद में, यीशु बोल रहा हैं:

मैं तुम से सच सच कहता हूँ, कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा; और वो इन से भी बड़े काम करेगा; क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ।

349 ओह, भाई, वह फाटक वहां, ठीक जहां पर उकाब बैठा हुआ था क्योंकि यही सुसमाचारीय सभा है, आप जानते हैं, उकाब की तरह उड़ते हुए। तेजी से, भविष्यवाणी के देश के अंदर वहां उतरता है, आप देखो, चीजों का पहले से देख सकता है और उन चीजों को बता सकता है जो थी, जो है और आने वाली हैं। देखा? ठीक वहां बैठा हुआ इसका पहरा देता है कहा, "जो काम मैं करता हूँ!" उस उकाब की ओर दृष्टि करे, देखे।

350 यहाँ वो सिंह है, सेवक। यीशु ने उन्हें सामर्थ दी। और वो इसकी रक्षा करता है, वह प्रेरितों के काम 2:38 की रक्षा करता है। वह उसका ठीक वहां समर्थन करता है, वो सिंह।

351 यहाँ सुसमाचार की वह गति आती है, इस उकाब के साथ, कहते हुए, "ये काम जो मैं करता हूँ, तुम भी करोगे। जो मैं करता हूँ उससे बढ़कर करोगे," इसके साथ दुनिया भर में उड़ान भरें! उस पिंडुक की तरह, जिसके साथी के सिर को अलग किया गया था, और लहू को उंडेला गया था, जमीन पर छिड़कता है, पुकारते हुए, "पवित्र, पवित्र, पवित्र, प्रभु के लिए," कोढ़ी को शुद्ध करता है। जी हाँ।

352 अब, मेरे पास वहाँ एक और है, यूहन्ना 15:7। आइए हम ठीक 15वें अध्याय, 7वें पद की ओर जायें:

यदि तुम मुझ में बने रहो, अब और मेरे वचन... (ना ही धर्म विद्यालय का वचन)... मेरे वचन तुम में बने रहे, जो कुछ तुम मांगोगे, और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा।

353 यह सही है? तब उस सुसमाचार ने ठीक वहां पर पहरा दिया। यह पेंटीकोस्टल की आशीष को यूहन्ना और उसके सुसमाचार के द्वारा रक्षित किया गया है; यह मत्ती, उसके सुसमाचार के द्वारा रक्षित करता है।

354 अब, आइए हम अगले सुसमाचार की ओर जायेंगे, मरकुस, 16वा अध्याय, देखें कि क्या मरकुस ने इस पेंटीकोस्टल आशीष की रक्षा की। मरकुस, 16 वां अध्याय। अब, आइए यहाँ से आरंभ करते हैं लगभग... उसके बाद... पुनरुत्थान के बारे में बताता है। अब, आइये आगे जाते हैं

जब तक कि हम लगभग उस—उस मरकुस 16 के 14वे पद तक न पहुंच जाए:

उसके बाद वह उन ग्यारहों को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उन के अविश्वास और मन की कठोरता पर फटकार लगाई, क्योंकि जिन्होंने उसकी जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उन की प्रतीति न की थी।

355 उन्हें उन लोगों पर विश्वास नहीं हुआ जो उन्हें संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, आज ये इसी तरह से है। वे लोग जिनके पास पवित्र आत्मा की गवाही है; लोगों ने कहा, “बकवास, वे पवित्र शोर-शराबा करने वालों का एक झुण्ड हैं।” और उस ने उनके मन की कठोरता, और उनके अविश्वास के कारण उन्हें फटकार लगाई; जो उसे उसके पुनरुत्थान में जानते थे।

और उस ने उन से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो।

356 क्या? प्रचार करने... यह... वहां केवल एक ही सुसमाचार है; चार पहरेदार। “हर एक सृष्टि को इस सुसमाचार का प्रचार करो!” अब, याद रखें, वो सभी को लेता है, सारे चारों पहरेदारों को (मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना), देखो, “हर एक सृष्टि को सुसमाचार का प्रचार करो!”

जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो उद्धार को पायेगा; और वो जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश हो जायेगा। (देखो, आपको इस बपतिस्मे में प्रवेश करना होगा।)

जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा;... परन्तु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। (ओह, भाई, विश्वास करे, कृपया करके!)

और... (जोड़ है, ताकि शेष वाक्यों को एक साथ जोड़े।)... और विश्वास करनेवालों के पीछे-पीछे ये चिन्ह जायेंगे;...

357 तो ठीक है, अब, आइये देखते हैं, मथोडिस्ट क्या कहता है? “यदि आप चिल्ला सकते हैं, एक अच्छा जीवन जीते हैं।” बैपटिस्ट कहते हैं, “बस विश्वास को रखे और बपतिस्मा ले।” एपिस्कोपेलियन कहते हैं, “एक एपिस्कोपेलियन की तरह खड़े हो जाये, इस तरह से, और जब

धार्मिक गान किया जा रहा हो तो झुक जाए।” कैथोलिक कहते हैं, “कहे ‘मरियम तेरी जय हो।’” पेंटीकोस्टल कहते हैं, “हमारी संप्रदाय में शामिल हों जाए। ‘पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लें।’” आप वहाँ जाते हैं। समझे?

... विश्वास करनेवालों के पीछे-पीछे ये चिन्ह जायेंगे; मेरे नाम में... (हम्म। ना ही “पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा” उसके बारे में।)... मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे; वे नई नई भाषा बोलेंगे;

वे सांपों को उठा लेंगे;... यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं, तौभी उन की कुछ हानि न होगी; वे बिमारो पर उनके हाथ रखेंगे, और वे चंगे हो जाएंगे। (आमीन! ओह, भाई!)

358 अब सीधे वापस 11 पर जायेंगे, और उसके बाद हम बस बंद करने के लिए तैयार हैं। मत्ती 11, और मेरे पास 20 और 21 है, यीशु बोल रहा हैं। ये सब यीशु बोल रहा हैं, अब ना ही उनमें से कोई एक भी, सिवाय यीशु जो बोल रहा है, हर एक जन को।

और अगले दिन जब वे बैतनिय्याह... के पास थे, तो उस को भूख लगी।

और अंजीर के पेड़ को देखकर...

359 तभी उसने पेड़ को शापित किया (यह मत्ती 21 है)। मेरे पास... :12, कृपया मुझे क्षमा करें। मरकुस 11:21 और 22:

और पतरस को वह बात याद आई, और उस ने उस से कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तू ने मार्ग में शापित किया था...

और यीशु ने उत्तर दिया और उस से कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। (देखा?)

क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूँ (तब, ये अंदर की तरफ है)... तुमसे कहता हूँ, कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा, और समुद्र में जा पड़; और अपने मन में संदेह ना करें, लेकिन... विश्वास करे, कि परमेश्वर जो कहता है वह पूरा हो जाएगा; तो उसके हो सकता... तो उसके लिये वही होगा।

360 भाई, उस दक्षिण फाटक पर बैल के द्वारा पहरा दिया गया है। उत्तरी फाटक पर सिंह के द्वारा पहरा है, उत्तरी द्वार का पहरा है... मेरा मतलब पूर्वी फाटक का। और उत्तर फाटक पर उड़ते उकाब के द्वारा पहरा है, यूहन्ना, वो सुसमाचारक। तब इस ओर का चिकित्सक, लूका, वो मनुष्य।

361 अब, आइए देखें कि लूका क्या कहता है। लूका को लेंगे, पहला अध्याय—... में विश्वास करता हूँ कि हमने लूका 10:1 से लेकर 12 तक लिया है, ये वो—ये वो आदेश है। आप सभी जानते हैं कि यह क्या है, लेकिन... लूका, 10वां अध्याय, और 1 से लेकर 12। तो ठीक है, हम ठीक आगे जा सकते हैं और यह सब पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा करने के लिए समय नहीं होगा। “अपने रास्ते जाओ... ” मैं 3रे पद से आरंभ करूंगा:

अपने मार्ग पर जाओ: देखों, मैं तुम्हें भेड़ों की नाईं भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ।

इसलिये न बटुआ, न झोली,...

362 देखो, “किसी संप्रदाय के नाम पर मत जाओ। तुम जाओ जैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। देखा? इस भरोसे के साथ मत जाना कि तुम्हें इस बेदारी के लिए एक लाख डॉलर मिलेंगे; यदि तुम नहीं जाते हो, तो मत जाना। तुम देखो। अपने अभियान को तैयार करो।” उसने बोला, “वहां जाओ जहां मैं तुम्हें भेज रहा हूँ।” देखो।

इसलिये न बटुआ, न झोली, न जूते लो:... और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो।

363 “रुकना मत और न कहना, ‘मैं वहां पर जाऊंगा और देखूंगा कि कैसे... इन्हें साथ ही करते हुए... कैसे ये... ’ सीधे आगे चले जाना जहां मैं तुम्हें भेजता हूँ। किसी और पर ध्यान न देना।”

और जिस किसी घर में तुम जाओ, ... पहिले कहो, कि इस घर पर शांति हो।

... यदि वहां शांति का पुत्र होगा, तो तुम्हारी शांति लौट आएगी... उस पर ठहरेगी; यदि नहीं, तो तुम्हारे पास फिर से लौट आएगी।

और उसी समय रहने पर, (मेरा मतलब) उस घर में रहने पर।
और जो कुछ उन से मिले, वही खाओ और पीओ; (अब, यह सब चीजों के बारे में कि "मांस नहीं खाना, और ऐसे ही इत्यादि बातें।" हे परमेश्वर! देखा?) क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। एक घर से दूसरे घर न फिरना।

364 आज जोन्सिस के साथ रात्रि भोज पर जाते हैं, और उस—उस अगले जोड़े के साथ अगले दिन जाते हैं, और अगले जोड़े के साथ अगले दिन।
"तुम ठीक वहीं पर रहो!"

जब मैं सभाओं में जाता हूँ, तो आप जानते हैं, मैं होटल में क्यों रहता हूँ और सीधा वहीं पर रहता हूँ, यही वो स्थान है जहां मैं शांति को पाता हूँ। देखा? एक घर से दूसरे घर मत जाना!

और जिस नगर में तुम जाओ, और वहां के लोग तुम्हें स्वीकारे, तो जो कुछ तुम्हारे साम्हने रखा जाए वही खाओ:

और वहां के बीमारों को चंगा करो—बीमारों को चंगा करो और उन से कहो, कि राज्य... परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है।

365 लेकिन अब, ठीक है, मैं अगले पद को पढ़ता हूँ:

लेकिन जिस नगर में तुम जाओ, और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, तो वहां से चले जाओ... नगर से... उसी दिन,...

यहाँ तक नगर की धूल भी, जो हमारे पांवों में—में लगी है, हम... (आइये अब देखे।)... यहाँ तक वो... और... यहाँ तक कि तुम्हारे नगर की धूल भी, जो हमारे पांवों में लगी है, हम तुम्हारे साम्हने झाड़ देते हैं: तौभी यह जान लो, कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है।

लेकिन मैं तुम से कहता हूँ, कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा सहने योग्य होगी।

366 ओह, भाई, उस धन्य आश्वासन के साथ! यदि वे आपको नहीं देखते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, तो आगे निकल जाए, बस कहें, "तो ठीक है, यदि तुम मुझे नहीं चाहते हो, मैं बस धूल को झाड़ दूंगा, और अपने जूते पर से झाड़ दूंगा, और बाहर आगे निकल जाऊंगा।" दूसरे शब्दों में, कहें, "मैंने

कभी कुछ नहीं लिया; यदि मैं कुछ भी खाता हूँ, तो मैं आपको इसके लिए भुगतान करूंगा, और आगे चला जाऊंगा।” उसने कहा, “सच-सच... ” और जिस किसी भी नगरों में वे गए, और उन्हें ग्रहण नहीं किया गया, उनमें से हर एक आज डूब गया और आज खत्म हो चुका है। और हर एक वो नगर—नगर जिसने उन्हें ग्रहण किया, वह आज तक खड़ा है। आप यहां हो।

367 अब, एक और, और फिर बंद करेंगे। आइए देखें, हमारे पास 10 है। 11:29 से लेकर 31, लूका 11:29 से लेकर 31, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। ओह, मैं इसे पसंद करता हूँ!

और जब लोग इकट्ठे हुए थे...

368 आइये देखे, क्या मैं... क्या ये लूका है, लूका 11:29 है? जी हाँ, मुझे लगता है कि यही होगा। जी हां:

और जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी, तो वह कहने लगा, कि इस युग के लोग बुरे हैं: कि वे चिन्ह ढूंढते हैं; पर वहां... दिया... कोई... योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा।

क्योंकि जैसा योना नीनवे के लोगों के लिये चिन्ह ठहरा, वैसा ही... मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिये ठहरेगा।

दक्खिन की रानी... न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ... उठकर, और उन्हें दोषी ठहराएंगी: क्योंकि जब वह सुलैमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई; और, देखो यहां वह है जो सुलैमान से भी बड़ा है।

नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर, और... उन्हें दोषी ठहराएंगे; क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया; और देखो, यहां वह है, जो योना से भी बड़ा है।

369 मैं अब क्या कह रहा हूँ? बंद करते हुए, मुझे बस बाकी का छोड़ना होगा। लेकिन, अंत में, मैं यह कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत लंबे समय तक रोके रखा है। वह यहाँ क्या कह रहा है? “वहाँ एक दिन आएगा कि एक दुष्ट और एक व्यभिचारी पीढ़ी,” (अब याद रखें!) “एक

चिन्ह को ढूँढेंगे। और यह एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी है।” और उसने कहा, “उस पीढ़ी को एक चिन्ह दिया जायेगा।” देखें कि यह कैसे शेष बाईबल के अनुरूप है, योना का चिन्ह। “योना तीन दिन और रात व्हेल मछली के पेट में रहा; वैसे ही मनुष्य का पुत्र तीन दिन और रात अवश्य ही उस—उस धरती के पेट में रहेगा।” यह क्या होगा? पुनरुत्थान का चिन्ह। देखा? पुनरुत्थान का चिन्ह दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी में किया जाएगा, और इसे प्रेरितों के काम की किताब में किया गया था। यीशु मरे हुएों में से जी उठा, पतरस के अंदर आया, याकूब, और यूहन्ना, और प्रेरितों के अंदर, और उन्होंने कार्यों की इस किताब को किया गया (यह प्रेरितों के कार्य नहीं थे), ये पवित्र आत्मा के कार्य थे जो प्रेरितों में कार्य कर रहा था।

370 यह आज एक मनुष्य नहीं है; यह पवित्र आत्मा है जो एक मनुष्य में से होते हुए, या मनुष्यों में से होते हुए काम कर रहा था, देखो, यह काम को करता है। यह मनुष्य नहीं है; मनुष्य तो बस एक बर्तन है, देखो, लेकिन पवित्र आत्मा वो तेल है जो उस बर्तन में है। समझे?

371 और देखो उन्होंने क्या किया, उन चिन्हों को देखो जो उन्होंने यीशु के विषय में किए। उन्होंने, उन पर ध्यान दिया था क्योंकि... वे—वे वे अशिक्षित, अनपढ़, पतरस और यूहन्ना थे। लेकिन उन्होंने उन पर ध्यान दिया था, कि वे यीशु के साथ थे! उन्होंने उन कामों को किया जो उसने किये थे। सो, आप देखते हैं, बाईबल की हर एक किताब, प्रत्येक... चार किताबें, चार सुसमाचार हर एक वचन के साथ पेंटीकोस्टल आशीष को पहरा देते हैं समर्थन करने के लिए जो उन्होंने कहा था। और अब प्रेरितों के कार्य चार सुसमाचारों के साथ आज पुष्टि करते हैं कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। क्या आप उसे प्रेम करते है?

वे उस ऊपरी कमरे में इकट्ठे हुए थे,
सभी उसके नाम में प्रार्थना कर रहे थे,
पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया,
और सेवा के लिए सामर्थ आ गई;
उसने उन के लिए उस दिन जो किया
वो तुम्हारे लिये भी वही करेगा,
मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से
एक हूँ।

372 मुझे इसे गाने दे:

वे ऊपरी कमरे में इकट्ठे हुए थे,
सभी उसके नाम में प्रार्थना कर रहे थे,
पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया,
और सेवा के लिए सामर्थ आ गई; (यही है जो आज
हमें चाहिए।)

उसने उन के लिए उस दिन जो किया
वह तुम्हारे लिये भी वही करेगा,
मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से
एक हूँ।

हो सकता है कि ये लोग शिक्षित नहीं होंगे, (नहीं...
बिल्कुल पतरस, याकूब, और यूहन्ना की तरह।)
या ना सांसारिक प्रसिद्धि का घमंड,
उन सभी ने अपने पेंटीकोस्ट को पा लिया है,
यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया;
और अब बता रहे हैं, हर कहीं और दूर-दूर तक
उसकी सामर्थ अब भी वैसी ही है, (बिल्कुल वैसी ही
जैसी ये थी।)
मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से
एक हूँ।

मैं उनमें से एक हूँ, मैं उनमें से एक हूँ,
मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उन में से
एक हूँ;
उनमें से एक, मैं उनमें से एक हूँ
ओह, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें
से एक हूँ।

ओह, आओ, मेरे भाइयों, इस आशीष के लिए मांगो
यह तुम्हारे हृदय को पाप से शुद्ध करेगा,
यह आनंद की घंटियों को बजाना आरंभ कर देगा,

और तुम्हारे प्राण को ज्वाला में रखेगा;
 ओह, यह अब मेरे हृदय के भीतर जल रहा है,
 ओह, उसके नाम की महिमा हो,
 मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से
 एक हूँ।

उनमें से एक, उनमें से एक,
 मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से
 एक हूँ; (हाल्लेलुय्या!)
 उनमें से एक, मैं उनमें से एक हूँ,
 मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से
 एक हूँ।

373 [टेप पर खाली जगह—सम्पा।] यह उनमें से बहुत से लोगों को भरमाता है। वे... कलीसिया जाने वाले रास्ते में यहाँ बहुत से लोग हैं, जो कलीसिया से हैं, उन्हें भरमाया गया है जैसे हव्वा को आरंभ में भरमाया था। वे फर्क को नहीं जानते।

374 ओह, आकर जीवन के पेड़ को ले लो! अब, बजाय करुबो के... अब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन करुबों के बजाय जो इस सिंहासन का पहरा दे रहे थे, वे यहाँ खोज रहे हैं, लोगों को फेरने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सिंहासन के लिए पहरा देते हैं, उन्हें फाटक में से होकर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वापस फिर से जीवन के पेड़ की ओर लाने के लिए जिससे कि वे इसे ले सकें। यीशु ने कहा, "मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आयी है। वह जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, उसके पास अनन्त जीवन है और मैं उसे अंतिम दिन जिलाऊंगा।" यह सही बात है। ओह, मैं बहुत खुश हूँ!

375 कमरे में कितने लोग बीमार हैं? आइये हाथों को देखते हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाये। तो ठीक है। कितने लोगो के पासयह... क्या वह... क्या—क्या मैं बिली को समझ पाया? वो कहाँ पर है? क्या उसने प्रार्थना कार्ड दे दिए? क्या आपने... ? [टेप पर खाली स्थान—सम्पा।] तो ठीक है, किसके पास... [टेप पर खाली स्थान।]

376 अब, आप सभी इस तरफ देखे। अब, यह ठीक वैसा ही है जब ये यहाँ महिमा के नीचे आता है, देखो। देखा? समझे? ये आता है... ये यहाँ

पर प्रकाश है। आप यहां घूम रहे हैं, आप देखो। अब, देखो, यह बस— यह बस एक प्रतिबिंब है, केवल एक प्रतिबिंब, यही है, देखो। यह प्रकाश नहीं है। यहाँ पर ठीक यहाँ प्रकाश मंडरा रहा है, देखो, ठीक यहाँ इस महिला पर। मैंने अभी इसे होते हुए देखा और मैंने सोचा कि यह किसी के ऊपर है।

377 अब, आप एक को देख रहे हैं और मैं दो को देख रहा हूँ। उनमें से एक स्वाभाविक है, और दूसरा एक अलौकिक है। यहाँ बाहर एक मनुष्य बैठा हुआ है, इस पंक्ति के साथ उस प्रकाश की ओर देख रहा है। वो उस पर रुक गया है। वो सेमुर, इंडियाना से है, और उसे... एक दौरा पड़ा था। यदि आप विश्वास करें, श्रीमान, तो परमेश्वर आपको उस दौर से चंगा कर देगा। आमीन! अब विश्वास करें!

378 क्या आप पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? तब यदि प्रभु परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, मुझे कुछ ऐसा करने दे जिससे कि मैं आपके सामने यह प्रमाणित करूं कि ये परमेश्वर है, तब आप पूरे हृदय से विश्वास करेंगे? आपकी—आपकी स्थिति एक नसो से संबंधित स्थिति है जिसका कारण एक—एक—एक रजोनिवृत्ति है। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा? आप यहां से भी नहीं हैं।

379 [टेप पर खाली स्थान—सम्पा।]... आपकी परेशानी क्या है? और, ऐसा करने पर, कि वो आपको चंगा कर देगा? [टेप पर खाली स्थान।]... आपको चंगा कर सकता है, क्योंकि यह आप नहीं हैं जो चंगा होना चाहते हैं, यह आपका बेटा है। देखा? वो वर्जीनिया में है। क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं आपको बता सकता हूँ कि उसके साथ क्या गलत है, परमेश्वर की सहायता के द्वारा? उसे अल्सर हुआ है। यह सही बात है। और उसके साथ एक और बात गलत है, उसका उद्धार नहीं हुआ है। और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब, श्रीमती बेकर, आप समरसेट की ओर वापस लौट जाए और पूरे हृदय से विश्वास करें, यीशु मसीह उसे चंगा कर देगा। [टेप पर खाली स्थान।]... ? ... आपको चंगा करता है, क्या आप उसे अपने चंगा करने वाले के रूप में स्वीकार करते हो? यदि आप कर सकते हैं... [टेप पर खाली स्थान।]... चंगा करने वाला। पौलुस ने एक समय कहा... [टेप पर खाली स्थान।]

380 लोगों के यह श्रोतागण जो दिन में यहाँ तक दिन भर ध्यान लगाकर सुनते हैं, प्रभु, अब, प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दया और भलाई उन पर बनी रहे।

381 शैतान, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में चुनौती देता हूँ, इन लोगों में से बाहर निकल! वे सुसमाचार को सुनने के लिए रुके हुए हैं। तू उन्हें अब और नहीं पकड़ कर नहीं रख सकता। वो शैतान की सामर्थ जिसने इन लोगों को बांध रखा है, छोड़ कर चली जाये!



प्रकाशितवाक्य, अध्याय चार भाग 3 HIN61-0108

(Revelation, Chapter Four Part III)

यीशु मसीह के प्रकाशन की शृंखला

यह सन्देश हमारे भाई विलियम मेरियन ब्रंहम के द्वारा मूल रूप से इंग्लिश में रविवार शाम, 8 जनवरी, 1961 को ब्रंहम टेबरनेकल, जेफरसनविले, इंडियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका, में प्रचारित किया गया। जिसे चुम्बकीय टेप रिकॉर्डिंग से लिया गया है और इंग्लिश में विस्तृत छापा गया है। इस हिंदी अनुवाद को वोइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग के द्वारा छापा गया और बांटा गया है।

HINDI

©2022 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, INDIA OFFICE
19 (NEW NO: 28) SHENOY ROAD, NUNGAMBAKKAM
CHENNAI 600 034, INDIA
044 28274560 • 044 28251791
india@vgroffice.org

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

कोपी राईट सूचना

सारे अधिकार सुरक्षित हैं। यह पुस्तक व्यक्तिगत प्रयोग या मुफ्त में देने और एक औजार के समान यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने के लिये घर के प्रिंटर पर छाप सकते हैं।

इस पुस्तक को बेचना, अधिक मात्रा में फिर से छापना, वेब साईट पर डालना, दुबारा छापने के लिये सुरक्षित रखना, दूसरी भाषाओं में अनुवाद करना या धन प्राप्ति के लिये निवेदन करना निषेध है। जब तक की वायस ऑफ गोड रिकार्डिंग कि लिखित अनुमति प्राप्त ना कर ली जाये।

अधिक जानकारी या दूसरी उपलब्ध सामग्री के लिये कृपया संपर्क करें:

वायस ऑफ गोड रिकार्डिंग्स

पोस्ट बॉक्स 950 जैफरसन विले, इन्डियाना 47131 यू. एस. ए.

www.branham.org